

**PEOPLES MOVEMENT
IN
RAJASTHAN**

(Selection From Originals)

Vol Two—Bijai Singh Pathak Papers

RAM PANDE

Jaipur Publishing House

S M S Highway Jaipur 302003

(INDIA)

PEOPLES MOVEMENT IN RAJASTHAN
(Selection from Originals)

Vol Two Bijai Singh Pathik Papers

RAM PANDE

© Shodhak
a national organisation of historical research-

Published in 1986

Price Rs 100/- in India

Published by
R C Agarwal
Jaipur Publishing House
S M S Highway JAIPUR-3

Printed at
Indo-Burma Printers
16 Raja Park
JAIPUR

*The volume is dedicated
in the name
of Truth
and
God*

Contents

1	Introduction	IX-XVI
2	Bijolia First unparalleled successful Non-Violent Peasants Movement of the Country	1
3	Peoples Movement in Rajasthan and Bijai Singh Pathik	21
4	Rajasthan Seva Sangh	32
5	Shekhawati Movement	41
6	All India States Peoples Conference-Indian States	46
7	Congress Organisation	88
8	Some Native States	121
9	First Rajputana and Central India Students Conference	145
10	Gandhi and War	166
11	Political Awakening in Rajputana	171
12	Agrarian Movement in Madhya Pradesh	214
13	British Bharat	220
14	Indian Peasants/Labour Conditions and some British Elites	222
15	Shrimati Annie Besant and Peoples Movement in the Princely States	233
16	Rajasthan At the Eve of Independence	235
17	Index	237

Contents of Vol One

- 1 Karauli Rajya Praja Mandal
- 2 Agrarian Movement in Madhya Pradesh
- 3 Political Activities in Rajputana States
- 4 Rajputana-Madhyaharar Sabha Report
- 5 Agrarian Movement in Rajasthan
- 6 A Survey of Private Records Relating to Azad Morcha
- 7 Subhash Bose Visit to Jodhpur
- 8 Records Relating to Moti Lal Tejawat
- 9 Records Relating to Tonk
- 10 Notes on Rajputana Conspiracy
- 11 Proscribed Literature of the Princely States
Hitherto Unknown
- 12 A Short Description of Mewar Praja Mandal
- 13 Index

Some Glimpses of Vol. 3rd

- 1 Selection from Mukat Behari Lal Bhargava Private Papers— Important for the study of Rajputana Political Conference States peoples Conference and Freedom Movement in Ajmer Merwara**
- 2 Selection from Dhulji Bhai Bhavsar Private Papers —These Papers deal in detail the Peoples Movement in the erstwhile State of Banswara**
- 3 Dungarpur Prajamandal Movement has been dealt on the basis of All India States Peoples Conference Papers and Shodhak archival records**
- 4 Shri Trilok Chand Mathur has played an important role in the Peoples awakening in the Princely State of Karauli which has reflected through his Private Papers**

Introduction

This book is second in the series of ten proposed publications relating to the Peoples Movement in Rajasthan on which topic a project has been undertaken by Shodhak a national organisation of historical research. The main emphasis is to collect and publish the original source material regarding various public movements in Rajasthan. The present composition is a selection from original private papers of Late Shri Bijai Singh Pathik who had played an important role in the freedom struggle of the country and of this region.

The name of Bijai Singh Pathik is well-known in the annals of freedom struggle in Rajasthan. The Bijolia Kisan movement led by Pathik against the Jagirdar was a big land mark in the history of freedom movement not only of Rajasthan but the country as a whole and its success encouraged other movements in the area.

Pathik in his long political life came in contact with several local national and international leaders and various political organisations. His correspondence with them hitherto unpublished throws a flood of light about his life and ideas and how he inspired them or got inspiration from them. The present volume as already has been said is a collection of material relating to his activities his ideas and correspondence which will prove useful for the historians researchers and all those who are interested in the studies of the history of freedom movement in princely states in India and his biography.

The material given in this volume is of varied nature and on a wide range of topics. It throws light on the Bijolia Movement Shekhawati Movement and other current topics of national and

regional importance The sources consist of letters of Pathik to various leaders and vice versa letters to various princely State Governments editors of various newspapers extracts from Confidential Fortnightly Reports of the British Government relating to political events and involvement of Pathik and other leaders in those events correspondence with and material relating to various organisations such as Prajamandals Rajasthan Sewa Sangh Harijan Sevak Sangh All India States Peoples Conference Butler Committee Hindustan Gadar Party Rajputana Madhya Bharat Provincial Congress Committee Rajputana Madhya Bharat Sabha Rajputana and Central India Students Conference Gandhis ideas about War the Role of foreigners in the course of Indian independence Problem of bonded labour prevailing in the States etc The information on Round Table conference is unique The first hand information about the proceedings of Lahore Congress of 1929 is available in these papers The ideas of Smt Annie Besant about the peoples movement in the princely states are suprising This gives a thought to study the aspect of some prominent foreigners role to be studied afresh Such a varied nature of sources of history of freedom struggle will be of immense value to the writers researchers and scholars of modern history I am sure

It is believed that late Shri B S Pathik was born on 24th March 1882 in village Gudawali Akhtiyarpur of Bulandshahar District of Uttar Pradesh He inherited the patriotism from his grand father Shri Inder Singh Gujar who fought bravely against the British in 1857 under the leadership of the revolutionary leader Wali Dad Khan of Malagarh His father Shri Hameer Singhji and mother Smt Kamal Kaur were also very daring calm and full of patriotic instincts After the death of parents Bhoop Singh went to Indore to live with his sister and his brother in Law who was in Government Service

The original name of Shri Pathik was Bhoop Singh In 1906 he came into contact with a famous revolutionary Sachindra Sanyal who introduced Shri Pathik to Rash Behari Bose Shri

R B Bose was very much impressed with the personality and ideas of Shri Pathik. During this period Shri Pathik learnt the theoretical and practical knowledge of making bombs under the supervision of Shri Narindra the younger brother of Shri Aurbindo. From this time Shri Pathik became a revolutionary and participated actively in the revolutionary activities of the country.

In 1908 Pathik was arrested in connection with Manik Tola Bomb conspiracy case Calcutta but was soon released as prosecution failed to establish the charges.

Shri Pathik took part in Hardinge Bomb case in 1912. On the advice of Shri R B Bose Shri Pathik came to Rajasthan to do ground work and spreading revolutionary activities in Rajasthan where some activities were already going on under Kesarsingh Barhat Pratapsingh Barhat Gopal Singh of Kharwa Seth Damodar Das Rathi etc.

Thakur Gopal Singh the Rao of Kharwa was very much impressed with Shri Pathik and with his help a huge store of Gun bullets bomb etc was piled up in Kharwa for using against the British. But unfortunately the British Commissioner came to know this fact and attacked Kharwa at once and confiscated all the arms and ammunition and Shri Pathik and Thakur Gopal Singh were interned in the fort of Tatagarh near Beawar. On the advice of Thakur Gopal Singh Shri Pathik escaped from the fort in the disguise of Sadhu. He wandered in forests day & night. When he came to know that an award of Rs 15000/- has been declared for his arrest he changed his name as Bijai Singh Pathik. When he was wandering from hither thither he himself was not knowing his destination. A poet has described his condition thus —

मज्जित व निशा नही मानूम
जा रहा हू कहा नहीं मानूम
कब फिर विजनिपा नही मानूम
कय जन आनिया नही मानूम

बिसरी है महफिन बिमक है जलवे
आ गया हू बहा नही मातूम

but he soon found his destined role starting with the first non violent peasant s succes..ful movement of this country

The peasants of Bijolia (Mewar) were very much terrified with the oppression of the Zamindars Shri Pathik took vow to help the oppressed people Shri Pathik entered in Bijolia equipped with bullets and revolver riding on camel and organised the farmers against the state He piloted this agitation in wonderful way and on his advice the villagers kept the field barren and refused to pay the land revenue After a hard and long battle from 1897 to 1929 the state had to bow down The first agreement took place in 1922 but the Jagirdar of Bijolia could not stick to the words resulted in commencing the agitation again However in 1929 there was another agreement but trouble did not dieout and continued again till independence This was the first nonviolent Kisan agitation of the Country and unparallel in many ways I have studied the movement in my book Agrarian Movement in Rajasthan in detail

In 1920 Shri Pathik came in contact with Shri Jamuna Lal Bajaj and with his help he started the editing of Rajasthan Kesari a weekly newspaper from Wardha In the same year he participated in Nagpur Congress and established Rajasthan Sewa Sangh at Ajmer

In 1922 he started the publication of Naveen Rajasthan and later on Tarun Rajasthan papers from Ajmer

Shri Pathik led the Kishan movement of Bijolia Begu Amet etc and was arrested in Mewar and was imprisoned for 5 years by the special court of Maharana From 1923 to 1927 he was kept in Udaipur Jail where he created a good deal of literature

In 1927 he took part in the meetings of Serva Dal Sammelan at Lucknow and was married with Janki Devi in the same year

He was President of Provincial Congress Committee Ajmer Merwara and was arrested during Salt Satyagrah in 1930 Bijai Singh Pathik was a medium of amalgamation of two political Conferences resulted in the birth of All India States Peoples Conference Pandit Jawahar Lal Nehru became its Chairman and Shri Bijai Singh Pathik its vice Chairman He also headed the publicity bureau of All India States Peoples Conference From 1930 to 1935 he was the main source of political activities in the region

As it has been mentioned earlier that Bijai Singh Pathik formed Rajasthan Seva Sangh and directed all the movements and activities under the auspices of the Sangh Unfortunately rift occurred and quarrel started among the workers and members of the sangh resulted in its breakdown After collapsing of sangh Pathik left Ajmer and tried to settle down at Agra from where he started publication of Navsandesh news paper

In 1942 he is also mentioned as a moving spirit of Rajasthan Congress and led the Quit India Movement in Rajasthan He was imprisoned In 1942-43 he closed his press of Agra and built a small house in Mathura In 1952 Assembly Elections he could not get Congress ticket He fought the election as an Independent candidate from the Uppermal constituency But could not win the election One thing is to be mentioned that in the last days preceding India's freedom the thikana Bijolia offered him a settled life at Bijolia Ultimately he died on 27th May 1954 at Ajmer where he was trying to establish Rajasthan Sevashram

Apart from his struggle for freedom he was a man of letters and created a number of literary books both in poem & prose Shri Pathik wrote 30 books approximately but it is a matter of great regret that only 5 have been published so far

Pathik's contribution in Freedom Movement was very great and he made genuine efforts from the core of his heart for this. Shri Pathik wrote a number of letters to the Members of the British parliament regarding precarious conditions of peasants oppressive Policies of the Indian princes and sought their help in the upliftment of the people of India. He also tried his level best to create public opinion in India as well as in England to oppose Butler Committee and Simon Commission. He wrote British journalist to extend help in creating public opinion in England in favour of the Freedom Movement in India. He infused inspirations in the Indian youth to fight for India's Freedom.

Shri Pathik successfully piloted the Bijolia Kisan Movement. He aroused the Indian Press and filled new blood in their veins. He wrote a very clearly about the defeat of the Congress candidate in the Assembly Election during British rule.

Shri Pathik was also a great journalist, writer and poet. What kind of pain he has in his heart regarding the India's freedom is very clear from his unpublished articles. He wrote *Zhanda Geet* which became very much popular. Shri Pathik also wrote on Indian philosophy and analyse the various theories in very lucid way. *Shri Pathik had sound knowledge of Indian medicine* and it is why he was also called *Vaidya ji*.

Bijai Singh Pathik wrote a Book entitled *What are Indian States* he got it published and widely distributed. This book is an *evidence of the conditions of the masses in the princedoms*.

There is some other unpublished material which has not been included in this volume but it is felt necessary to have a glimpse of such. These are Mentioned below —

Rashtriya Jhande Ki Aarti A Poem composed by Shri Pathik is full of national instincts and inspirations.

'Dhwajarpan Sangeet A poem composed by Shri Pathik encouraged the villagers to participate in peoples movement

Letter from Shri T P Sinha dated 20th December, 1923 to Shri Pathik assuring for full cooperation and help in getting the cherished goal of freedom for Mother Land is also a unique piece of material

Aakulata an article written in Shri Pathik's own handwriting This article presents the inner feelings of Shri Pathik regarding the freedom of India It is a fine piece of Pathik's literature

Darde Dil an another unpublished article written in Shri Pathik's own hand writing also In this article Shri Pathik has given his own intpretation of the World Independence

Vagyanik Vedant Darshan an unpublished article in Shri Pathik's own handwriting In this article Pathik has expressed his own views regarding the Philosophy of life connecting it with the Philosophy of freedom

Extracts from the Diary (unpublished) of Shri Pathik He has suggested certain Indian medicines for different diseases

It is a matter of great apathy that some people took away some un published works and other documents of Pathik but neither they are bringing them out nor allowing others to do the needful

We are thankful to the Director and his staff of Jaipur repository of National Archives of India Director Indian Council of Historical Research New Delhi Members of project team of Shodhak for their help encouragement cooperation in various ways

In the last we pay our homage to Shri Bijai Singh Pathik by repeating Mahatma Gandhi's words about him. Biju said Pathik is a hard and honest worker not merely talker like others.

Deepawali 1985

Ram Pande

Bijolia

(First unparallel successful non violent peasants movement of the country)

The first agrarian movement in Rajasthan which may be traced to the Bijolia unrest in 1897 culminated in the abolition of Jagirdaris and Zamindaris after independence

Bijolia now in Bhilwara District was a Jagir in the former State of Udaipur. It ranked among the first 16 Umras of the State. The Jagirdar was a Parmar Rajput and held on of 83 villages on the eastern frontier about hundred miles from Udaipur. There was no written law regarding revenue, police, judiciary etc in the estate. Everything was decided on the basis of old usage or custom or the eccentricity or sweet will of Jagirdar.

The Kisans rose in rebellion under the leadership of Sadhu Sita Ram Dass. After 1915 the movement gain momentum when the leadership was assumed by Bijai Singh Pathik. This phase was ended in 1922 when an agreement took place between the peasants and Jagirdar. After wards the Jagirdar broke the agreement so the movement was started afresh. There was again an agreement in 1929. Though the demands of the Kisans were accorded but they were not respected fully. So the trouble did not die out. In one or the other form movement continued till the independence. The Present records are dealing with the last phase of the movement.

(1)

From—Bijai Singh Pathik to Nandlal Vaidya

॥ वन्दमातरम् ॥

॥ वीर भूमि राजस्थान की ज ॥

यश बभूव सुख की चाह नहीं परवाह नहीं जीवन न रहे ।

यदि इच्छा है वह है जग म यह स्वेच्छाचार दमन न रहे ॥

२० राष्ट्रभक्ति स्व पराक्रम धर्म

अध्यक्ष बी एस पब्लिश--

राजस्थान सेवा सघ

अजमेर

12-7-28

श्री नदलाल जी वध

पत्र आपका मिला पचा को अच्छी तरह से समझाँ कि व किसान किसम का मुचलका आदि न लिखें और न ही कोई बीड़ी कराई व पहरा आदि का खचा (दो) रियामत को उह छाटना ता पडगा ही कि नु साथ ही यह सब वमूल करन के लिए डरा या धमकाकर एव दो दिन और जल म रख लां साफ तौर पर उह यह कह देना चाहिए कि हम न मुचलका लिखेंगे और न कोई कर वगरह ही देंगे छुटने के बाद किसाना को बेगू बिजौनिया व किसाना के पास जाकर पूछ लेना चाहिए कि वे आग क्या करें ब्रह्मचारी जी अभी उत्पपुर की जेल म ही हैं और ठीक तरह स हैं। आपके छुटकार के लिए भा प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि शाघ्र ही छुट जायेंगे वाजौनिया के फमल के मामल म आपका मामला कोई सम्बन्ध नहीं रखता था इमीलिए उन समय आपके लेखानुसार यह प्रश्न न उठाया जा सका और जो राधाकिशन जी तोपनीवाल आपस रुपया मागता है जिसस कि आपन पगडिया और दूसर कपड खरीदे थ व रुपयें उह यहा स दे दिये गये हैं शेष सब कुशल से हैं। कुशलात्तर शीघ्र दें जागीरदार वसा प्रजा पर अधिक जुम कर रहा है तो उस शीघ्र ही परमात्मा दण्ड देंगे।

इति शुभम्

भवतीय

बी एम पथिक

(2)

Manik Lal Verma and Sadhu Sitaramdass to B S Pathik

॥ वदे ॥

12-12-28

उमासेढा

श्रद्धेय

सादर वदे पत्र आपका शुनवार की माय का मिल गया था बाहर चल जान की खबर होने से उत्तर न दे सका शायद अब आप आ गये हंग।

आज साधुजी भी मिल गये हैं आपने जा अलग काय आरम्भ करना निश्चय कर हम लोग का उमम सहायक होने की सम्मति दी है किंतु हम लोगो न अफवाह से सुना है कि आप लोगो ने आपस म नवीन राजस्थान प्रेस और तरण चौधरी जी के जिम्म कर मवासध अपने कब्जे मे ले लिया है तो सेवा सध का काय किस ढग स चलाना निश्चय किया है और हम लोगो का इसम क्या काय है लिखिए हम लोग तो आपके आज्ञानुवर्ती हैं जो भी आप हमार योग्य बतायेंगे उस करन को हम सहप तयार हैं हमारी सम्मति म राजस्थान सेवा सध का मुख पत्र किसी अय नाम से निकलना बहुत जरूरी है सो इसकी तयारी कीजिए और सेवा सध के नियम भी नये और सब गुलम बनाइये कि इससे फिर ऐसी आपत्ति भविष्य म आने की सम्भावना न रहे और प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर सके ये सुनकर बडी प्रसन्नता हुई कि आपन अपन पूव अधिकृत राजस्थान की सेवा करना ही पीछा निश्चय किया बाकी हम लोगो की तरफ मे सब प्रकार की काय प्रणाली निश्चित करने के लिए सब तय स्वतंत्र हैं उमम हमारो योग ता रहेगा ही किंतु बडी कृपा होगी यदि भविष्य म हमलोगो का इम प्रकार अपमानित न होना पडे ऐसी काय प्रणाली निश्चित करें बाकी सब प्रत्यक्ष म दिल्ली अधिवेशन पर और कभी अवसर मिलन पर ।

सेवा सध के कायकर्त्ताओ का उद्देश्य कायकर्त्ताओ की महत्वाकांक्षाओ का न रहकर केवल सेवा भाव का रहे और उसम यक्तिमात्र की सहानुभूति अवश्य हा । सेवा सध सदा सबदा और सबथा सावजनिक सम्था के रूप म रहे ऐसी आशा है ।

आपके

माणिक (माणिकलाल वर्मा) माधु (साधु भीतराम दास)

(3)

Jamna Sarpanch to B S Pathik

॥ वन्दे ॥

24-9-29

महोदय

किसान पंचायत अपरमाल के सरपच का वन्दे । आपकी सम्मति अनुसार बियागा ने यह विचार किया कि हम जमीन नहीं बाँगे चाह इसीके नामजूर हा दरखाने महकमा खास को भी हमने दी है उनकी नकलें साथ म हैं ।

हाँ आक्रमण (बजा का) समय भी इस समय पर है। सिर्फ एक गाँव टलता है इसकी आज पूरी कर ली है अगर आसोज बुन् ss (अमावस) से तो इस वक्त के कब्जेदार बीज बोने लग जावेंगे।

ऐसा नहीं हो कि वहाँ की विकट अवस्था के कारण उधर की तयारी में बिचम्र हा जाय।

जमनालाल जी उपाध्यायजी को याद दिलाते रहे सहायता के लिए लिख रहा हूँ वस अगर अपने विश्वास पर नये इस्तीफे वाला के कुर्क हुई तो उधर से इनका और पचायत का पूरा आर्थिक सहायता आवश्यक है।

पत्र बन्द लिफाफे में।

जमना

सरपंच

(4)

Gangaram to B S Patil

॥ वदे ॥

तारीख 17-6-34 रविवार

खादी निवास अनन्तपुर

पो० रेहली जिला सागर सी० पी०

पूज्यवर

श्री पथिक जी महाराज आपके चरण कमला में चि० गंगाराम की ढाँक मालूम होवे आशा है आप ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे आपकी प्रसन्नता सब ईश्वर से नव चाहता हूँ बड़ी दुख की बात है कि आपने विजौनिया के वास्ते कितना कष्ट सहा और आपको वह भूत गये इमीलिए तो भगवान लिखा रहा है अब भी नहीं समलते हैं आपको ता इन लागों की तरफ नहीं देखना चाहिए किसान ता गवार ही तो है हे नसिह भगवान आपकी वह पहन जसी लीला लिखाइये दश की बागडोर आपके ही हात (हाथ) में लीजिए हे भगवान खूबती नय्या को पार लगाने वाले बवल आप और साधु जी ही हैं मूख लाग आपको भूत गये है ता आप लोगो को ता नहीं भूलना चाहिए आप लागो न ही बीज बोया आपको ही काटना चाहिए जो कोई बीज में ही बीजा की मुखाना है उसको हटारर आप लोगो को ही उमर जतन करना चाहिए।

(5)

Panchas to Mahakama khas Udaipur

मिथ श्री 108 श्री राज श्री महकमा खास रातान किसान पचायत ऊपरमाल की अरज मासूम हाव अपरच तारीख 4-5-28 का हमार दा पच आफीसर साहव महकमा बन्नामस्त की सवा म ये दरखास्त करन पहुँच ये कि 'स 1983 म जय बन्नावस्त हुआ हम लोग न बरूरत म खराब फसल की माफी चानी और सान्व ने परमाया कि गये साल की कस हा मक्ती है म 83 स जरूर खराब फसल की माफी मुवाफिक नुस्मान दी जायगी म 83 म फसल खराब हुई लगान की भाफी न मिली अब फिर फसल उनालू भी रोली के रोग से नाम हो चुकी है सा वास्तव म हम दिलाये हुअे विश्वास और बनाया हुआ वानून जा ठिकाना और हमारी दोना तरफ स स्पष्ट है ता हम पूरो-पूरी माफी दिलाइ जाय इस पर साहव न दरखास्त पर कुछ हुकम लिखकर असल उन पचा के माथ रिक्शन म भेजी और जवानी हुकम दिया कि जरूर तुम्हें माफी मिलगी फिर भी 3-5-28 को दरखास्त पेश की गई नतीजा कुछ न हुआ 80 से 84 (बिक्रमी सम्बत) तगातार पाँच साल तक अठारह साल का दुवाल हान स लोगा की दुःशा पर ध्यान न देने हुअे लोगा का हिरामत म रखा लगान बन् करन का कतग लगाकर लगान बसूल कर लिया अगर हमारी मच्चाई पर लोगा की दुदशा की जाच कोई करता तो एक बार चाहे वह पाखाण हृदय ही क्या न हा पिधल बिना न रहता अस्तु जबकि हमम खराब साला की 64320) बरूरत जोडी गई है और जबकि लगान की रट आस पाम के इनाके म मर स सर रखी गई है तब हम भी उन 2 साला की आज तक नुस्मान माजिज लगान की माफी लेने के हुक्दार हैं इसके लिए पहल भी कई दरखास्तें पेश की गई हैं लिहाजा अरज है कि गरीबा पर तरस निया जाकर सरकार लगान की माफी का हुकम परमावे ता 3-9-28 भादवा सुत 4 सोम प लछमी निवास व सरपच खमनरायन मायापुरा का सब पचा का सत्रामु करया

(6)

Haribhau Upadhyay to B S Pathik

गाधी आश्रम

हट्टी (राजपूताना)

21-6-1929

प्रिय भाई साहव

सन्नेह बन् में परसा विजौलिया न आया हूँ 25000/रु बरूरत म

और एक आना रुपया हासिल में कम कर दिया गया है कच्चात के ये अब सिर्फ खानस के हैं जागीर की रकम अलहदा हागी जिसके ठीक अब अभी मानूम नहीं दुजे हैं जितनी कच्चात बाकी है उसकी आधी माफ करनी गई है छूट नगान में शामिल कर दिया गया है जसा कि किसानों की माग थी और नगान में न एक आना) रुपया कम कर दी गई जो जमीन इस्तीफा शुदा राज के कच्चे में है वह तुरन्त वापस करने का हुक्म सुना दिया गया जिसका पक्का परवाना हो चुका है उसे खानगी तौर पर समझा बुझाकर 4-5 महिन में अमली मालिकों का दिला देने का आश्वासन ठिकाने ने दिया है इन छूट की घोषणागत 14 जून को विजौलिया में एक विराट सभा करके राव जी माहव ने की 1922 के फलत क खिलाफ कोई काम न करने की भी घोषणा की गई पिछले दिना जो काम उसक खिलाफ हुआ हा उनकी दुष्मनी करने का भी आश्वासन दिया गया है यदि किसान लोग धीरज मजबूती और समय में और साथ ही ट्रेच साह्य सहानुभूति में काम न लते तो यह समयोत्ता खामखर आज की स्थिति में—न हो पाता अस्तु मुझे इसी बात की खुशी है कि जिस विशाल दश का बीजारोपण आपने विजौलिया में किया था जिसमें मनु 22 में बड़े मधुर और बलवधक फल फल थे उसकी जड़ में थोड़ा सा जल सींचने का मुअवसर इन बहाने मुझे भी मिल गया इस सफलता पर आपका बधाई

अभी 15-20 दिन वही जाने का इरादा नहीं है आपसे अब मिलूँ ? आपकी काय सगुता देखकर आपका समय लते हुआ जी खुशता और डरना है ।

सदेश के दा अब विजौलिया में दस ये आज शेष अब यहाँ देख रहा हूँ । त्याग भूमि के इसी अब में उस पर लिखूंगा आपके इस नवीन जीवन के सचित्र पर बधाई अब तक के अका में जिह में देख सका हूँ विविधता मांगी सीम्यता और आपकी विचारशीलता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है सत्यमय और सद्भावना युक्त नीति मुझे ही हा सगुती है पर शायद आपके कुछ पुराने मित्रों का अच्छी न मानूम हो

जागीरदारा को मजबूत बनाने की नीति मुझे अच्छी नहीं मानूम हो रही है जागीरदारा और ठिकाना की प्रजा सबसे अधिक दुखी है यदि सबसे पहल मिटने क अधिकारी कोई हा सकते हैं तो ये ठिकाने ही

विजोलिया के एक घाकड़ युवक रूप्या जी हरजीपुरा बाना ने आपको बहुत प्रेम और भाव के साथ बन्ने मातरम् कहा है

स्नेहाधीन

हरिभाऊ

(7)

Agreement of Bijolia of 1929

as published by Haribhan in Tyag Bhumi

विजोलिया का समझौता

विजोलिया का नाम लेते ही श्री विजयसिंह जी पथिक के पराक्रम और समठन का चित्र सामने खड़ा हो जाता है। उन्हें विजोलिया के किसानों में पचापत का सुन्दर समठन करके उस समय सफर सत्याग्रह कर दिखाया था जबकि भारत में जनता के अन्दर सत्याग्रह की जमीन तयार हो रही थी जिसके फलस्वरूप १९२२ में किसानों का किसानों के साथ समझौता करना पड़ा था और किसानों की बाईं ८० नागों कम हुई थी। विजोलिया में जब मने पथिकजी के उस समय के प्रभाव की क्या किसानों से सुनी तो मरी आखा स आसू छनछना आये। पथिकजी की अगुली उठी नहीं और मारे उपरमाल-विजोलिया प्रदेश का दूसरा नाम-म उसका सकेत पहुँचा नहीं। पर अब १९२९ में मुझे दूसरा चित्र देखना पड़ा। उस समय का सोया मवाद का अधिकारी-मण्डन अब जग ही नहीं चुका था श्री पथिकजी और श्री चौधरी जी दोनों का मवाद प्रवेश राक चुका था पहली विजय के बाद कायकर्त्ताओं में फूट पन गई थी भेद नीति चारा मार अपना बुरा प्रभाव डाल रही थी उल्हाड के जावश में जगह-जगह काम इतना फैला लिया गया था और कायकर्त्ताओं का तानीम देने का इतना कम अवसर मिल पाया था कि काम सम्हालते न बना अन्न का पथिकजी मवाद के अधिकारियों द्वारा जन में डाल दिये गये अन्ध विजोलिया के कायकर्त्ता भी सनाये गये जिसके फलस्वरूप विजोलिया के किसान अकेले पढ़न गये। म० १९८५ में किसानों पर लगान बढ़ा दिया गया। १९२२ के फसले की शर्तें भी तोड़ी जाने लगी। इससे किसानों में काफी असन्तोष पला। श्री पथिकजी के जेल से छूटते ही किसानों में फिर उल्हाड जागा और उनकी सलाह से पूर्वोक्त ज्यादातिया के विराध में उहाने अपनी माल जमीन का जिस पर लगान ज्यादा बढ़ने की शिकायत उह थी दस्तोफा दे दिया। उस समय उनका ख्याल यह था कि वही १९२२ की शर्तों का किसानों में बनी हुई है और इस्तीफा शुदा जमीन राजवाले किसी का न दे सकेंगे एव

किसानों को समझाना करने पर उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। पर इसी बीच मध्य में कुछ आन्तरिक झगड़े खड़े होने लगे और ठिकानेवाला ने किसानों के साथ सखा श्री माणिकलाल जी को जेल में पटक कर कहीं डर और घमका कर कहीं लानच लेकर तो वही भेदनीति से काम लेकर बहुतेरी जमीन दूमरा को जुतवा दी। अब किसानों को लेन के देने पड़ गये। स्थिति ऐसी जटिल और विपन्न हो गई थी कि पधिकजी या सखा-सध से उनको सहायता मिल नहीं सकती थी। एक बार राजवाल पधिकजी के नाम से चिड़त ध उधर किसान असहाय हो रहे थे। ऐसी अवस्था में किसानों ने श्री जमनालालजी बजाज को और मुझको सहायता के लिए बुलाया। श्री पधिकजी ने भी किसान-पचायत को अपनी वर्तमान असमर्थता लिख भेजी और पचायत ने श्री जमनालाल जी का तथा मुझको अपना सनाहवार और पथ-दर्शक बनाया। श्री पधिकजी की सलाह से किसानों ने यह इरादा कर रखा था कि जबकि राज वाले किसी तरह सुनते ही नहीं हैं तो हम पीप की साथ का लगान न देंगे और अपनी दस्तौफा शुदा जमीन अपने बच्चे में कर लेंगे। मैंने उन्हें सनाह दी कि जब तक मैं समझौते का उद्योग करके एक न जाऊ तबतक वे कोई उग्र और तीव्र उपाय काम में न लावें। दूसरे यह वे मुझसे किसी प्रकार की सेवा और सहायता चाहते हैं तो वे सत्य न्याय और शान्ति से किसी प्रकार विचलित न हों। किसानों ने इन बातों का स्वीकार किया। काई ४ महीने तक ३-४ बार करके मुझे उदयपुर और विजौलिया के हाकिमों के पास दौड़ घूम करनी पड़ी। अन्त में महकमे खास के निगय के अनुसार गत १४ जून को किसानों की मुख्य मांगें स्वीकार करते हुए विजौलिया के रावजी साहब ने एक सभा करके फसला मुना दिया जिसके अनुसार—

- १ कसरात अर्थात् बकाया लगान में से आधी रकम छूट कर दी गई। खानसा से २५००० छूट की जायगी और जागीर की रकम का अब अभी मानूम नहीं हुआ है।
- २ छट्ठू नाम की लागत जिस १९२२ में फमले में किसानों ने स्वीकार किया था उनकी मांग के अनुसार लगान में शामिल कर दी गई और लगान में एक आना फ्री रफया कम कर दिया गया जिससे किसानों के साथ लगभग ५००० साल की रियायत हुई।
- ३ १९२२ के फमले के विरुद्ध आचरण नहीं किया जायगा और पिछले दिना जो कुछ भग हुआ होगा उसका परिमाजन कर दिया जायगा।

- ४ इस्तीफा शुदा जमीन वापस मित्रे का प्रबध हा गया जिम जमीन का पक्का पट्टा कर लिया गया है वट भी रफा असनी मालिका को तिरा दन का आशवासन दिलाया गया है ।

(8)

Manik Lal Verma to B S Pathik

॥ बदे ॥

10-1-29

महानम

बहा के बिचारानुसार यहाँ जांच की गई ता उस परिस्थिति का समय इन समय नहीं है । उनालू मे ही हागा ।

नये त्यागपत्र महकम खास मे अस्वीकार हा गए हैं । आपकी उस स्कीम के अनुसार इहे फसन बोन की इजाजत दे देना ठीक हागा क्योंकि अधिकांश लाग का भी तो उसी पय पर लाना हागा । इस बीच मे अगर इनकी जमीन पडत रही लगान की बमूनी मे दमन हुआ थोडे हाने से ये ठहर भी नहीं सकेंगे जोर अधिकांश लोग निस्वाय हाकर इनके महायक भी न हो सकेंगे । सबसे अच्छा तो यह है कि इनकी ये दरखास्त करा दी जाय कि अस्वीकृति की सूचना देरी से मिली । फमल मियातू वान का समय निकल गया अत लगान इस-इस जमान का मियातू पर दाखिल न कर सकेंगे ।

इस मे उनालू मे सब माय २ हा जायेंगे । बिना तयारी के अभी ही कराने मे सफरता भी न मिल सकेंगी ।

इधर एक ओर भाग भी इनके तिए सांचा गया है और वह यह कि

राजजा हम विश्वास दिना दें कि तुम शांत रहो सब का निपटारा हा जायगा

राजश्री महकमाखाम ये दरखास्त करन आ रहे हैं अगर ये विश्वास मिल गया तो किमाना का मानयुक्त सामद जान का विश्वास हो जायगा । अगर निपटारा न हुआ ता इन समय की अपनी धारणा का कार्यारम्भ हो जायगा कि तु प्राइवट मे एक विश्वास हा जायगा और अपन भविष्यत पय के तिरा भी इनका

छुट्टी देने में दो कारण हो जायेंगे। रही यह कि वह लिखित नहीं दे सकेंगे क्योंकि हम समय रियासत से दवे हुए हैं साथ ही अपनी पार्टी में मिलाने तथा होने की बात अभी प्रकट भी न होना चाहिए। अगर समय निकलने पर बदल भी गये तो अपनी तो जयस्त शक्ति है।

उसके लिए छपरल तेजसिंह ने भी रावजी को चिट्ठी लिखी है अवश्यमव आप विश्वास दिलाव। साथ में उस पत्र की नकल है प्रकट न हा।

रावजी का यही एक विश्वासपत्र और बाबू का कट्टर विरोधी है। रावजी का अभी तक वहाँ कुछ उत्तर नहीं मिला है सिर्फ ठहरा रखे हैं।

इन सब कारणों के देखते हुए इनका तो फल बान की छुट्टा दे दें और उधर की सब तयारिया में लग जाय अभी मैं कायक्रम न बताते हुए भी लोगो को भीषण परिस्थिति के लिए तयार करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया है। शायद ईश्वर फलीभूत करेगा।

नये त्यागपत्र की नकल भेजता हूँ। अगर रावजी ने विश्वास न भा लिया तो भी राजश्री महकमाखास में दरखास्त करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि लगान फसल सियालू में ग्राहिल न करने की दरखास्त ठिकान और उच्चाधिकारियों का दे देना काफी होगा फिर भी आवश्यकता हा तो असल जोर नकल साथ में हैं। अमल की रजिस्ट्री करा नकल वही रख दें। मर विचार में इसके बजाय अगर उस फसल बान की दरखास्त में य जतला दिया जाय कि न लगान की जाँच होकर कमी हुई न दूसरी शिकायतें मटी गई और हमारे त्याग पत्र अम्बाकार कर दिये। हम चाहते थे यही शात हो जाय मगर एक बप साथ क साथ रहने पर भी हमारे विचारों का खयाल न किया और भविष्यत में उसकी परिस्थिति क्या होगी। हम नहीं कह सकते। और भाँ कुछ अप्रकट भयकरता जा उचित समझ दरखास्त लिख कर इन्हें दे दें नकल वहा रखें हम सब जगह भेज देंगे।

आरम्भ में त्यागपत्र निया गया बाद में श्री शंकरदास जी ने महकमाखास में दिलाया उन सबकी नकलें यहाँ नहीं हैं। हरिभाऊजी यहाँ देखेंगे। इहाँ के साथ भेज दें।

मर उधर जान पाछ फतपुर सारा बीकानपुरा के चार पाच दिनाका का पत्र हाता था किन्तु पट्टेच जाने पर बच गए।

किमाना को जादा न ठहराकर लौटती गाडी से खाना कर दें।

आने वाला को बहिष्कार वाला की सगाई छोड़न के लिए जार द दें क्योंकि अभी कुछ बच रहे हैं। साथ ही जिन लोग ने जमीनें बाई उनको अपनी तरफ महायता न देने को भी समझा दें जैसे अपन २ गांव के बनाई बोलें। R N क आपके बीच क्या हुआ। आप वहाँ पहुँचे या नहीं।

गणपत के घर फाकावसी हो रही है ध्यान म रहे। हाँ मेरा खयाल एमा है कि जिन जिन लोग ने इस सान भी इस्तीफे न दिए वे अगर जमीन बचना चाहें तो इस्तीफा न तन का जुर्माना कर कर छुट्टी दे दी ताय कुछ डारिए का खर्चा निकल आवगा।

Jamunalal ji को अब पत्र दूँगा

आपका

माणिकराल

Postscript

पचायत से अलग लोग की जमीनें धाकडा के गिरवा हैं उनके स्तीफे नहीं इनके इस्तीफे मान नहीं सकते एमे दूमरी जातिया को भी छुट्टी दी जाना ठीक है क्योंकि लगान लगता है।

(9)

Kisans to Mahkama Khas Udaipur

श्री एकलिंगजी

श्री रामजी

नकल

सिध्द श्री 108 श्री राजश्री महकमा खास रातान मोतीचन्द बल्द वरदीचन्द जी धाकड पटल साकिन खेडी कालू बल्द ऊकार जी धाकड पटल साकिन कल्याण पुरा दवा बल्द डूगाजी धाकड पटल साकिन कल्याणपुरा वगरा 66 काशनकारान पट्टा बिजोलिया की अरज मालूम होवे अपरच हम योगा न एक दरखास्त बतौर इस्तीफा चक माल जमीन तफसीलवार भवरखा जेठ बु 9 ता 29-5-28 सम्बत गुजिस्ता पशगाह अरजी पत्र की जिसका मजूरी नामजूरी के लिए हम काइ हुक्म वाला न मिला अब जात ता 2-8-28 का ठिकाने ने हमारी खलाबी कराइ कि तुम्हार इस्तीफा नामजूर

हूये हैं चूँकि फसल बाव का समय निकल गया अब हम उस जमान को कमे बा रावन हैं । सिवाय इसक स्वच्छा म लिय हुआ स्तीफे को नामजूर हान के लिय किसान भी दगा म चाय और वानून म अनुचित और अमत्य मानते हैं माय ही नामजूरी क लिय महाम बाला क हुनम की कोई मगा भी नहीं बनाई गई जपे दरखाम्त ता 8-8-28 को नवल इम मागा गया जिमक देन म भी ठिगान न इकारी की ऐम गर वानूनी वतावि को अवस्था म हम इसका स्परटीकरण नामजूरा के पाण आनि ० जानन के लिय मवाम हाजिर हूअे हैं और प्राणी हैं कि जय तक लगान की वदनी के लिय जांच हाकर हमम कमी न हा जाय तय तक इतना भार उठान म असमथ हैं और भी कर्ण कारण हैं जा गत वय पेश की जाने वाली अधि काय किसाना की दरखाम्ता म अरज की गई हैं अत जबकि गतवय के इस्तीफे मजूर हूअ हैं ता उमस एक माम क पहल पेश हान वान स्नीफे भी मजूर हान का हूवम फरमावे ।

सम्बत् 1985 का सावण द्वितीय कृष्णा 11 तारीख 9-8-28 ई

हस्ताक्षर माणिकलान बाशनकारान मुदर्जा दस्तखत जेन के बहन स

(10)

Kisans to Mahkama Khas Udaipur

नवल

निध श्री 108 थीराज श्री महकमा ग्रास रातान (1) नारायण गुनाब वल्द भेंहजी धाकड मा (माकिन) खडीपुर (2) दला वल्द डूगा जी धाकड सा खडीपुर (3) वानू वल्द माती चद धाकड खडीपुर (4) नारायण वल्द चनुभुज धाकड खडीपुर (5) भवाना वल्द भारमल धाकड खडीपुर (6) मोनी चद वल्द वरणीचद धाकड पटल सडी (7) पैमचद वल्द देवाजी धाकड धडी (8) मीताराम भासा वल्द मालाजी धाकड खेडी (9) नन्ग वल्द मेगा धाकड जोलास (10) डूगा वल्द माती धाकड जालाम (11) रामा वल्द भजा सा सलावटया (12) नाला-लानू-पमा वल्द नन्दा धाकड सलावटया (13) ऊकार वल्द भारमल धाकड लक्ष्मी निवास (14) पमा वल्द रामाघार लक्ष्मीनिवास (15) नन्दा वल्द मेधा धाकड छोटी विजौलिया (16) गाकता वल्द घासी धाकड छोटी विजौलिया (17) श्री राम वल्द नन्ग धाकड विजौलिया (18) हीरा वल्द खुरज धाकड विजौलिया (19) जयचन्द वल्द पमा धाकड विजौलिया (20) लछमन वल्द लाला धाकड विजौलिया

(21) ऊकार वल् भोज धाकड विजौलिया (22) बजोड वल्द हीराजी धाकड पल माकिन छाटी विजौलिया (23) रूपचल् वल्द देमचल् धाकड कल्याणपुरा (24) किमना वल्द देवा धाकड बरीसात निवाम (25) कालू बन्द ऊकार जी धाकड पटल सा कल्याणपुरा (26) खेमा-जीवा-बका वल्द पीया धाकड गोविन्द निवास (27) चुनीलाल वल्द लखाजी धाकड मडी (28) लछमन वल् गकल धाकड खेडी (29) नाना वल् गोनी धाकड सा सनावटया (30) देराम वल्द भार-मन घाम् सलावटया (31) टाहू वल्द नंदा धाकड खेडा (32) उदा वल्द बरन् धाकड खेडीपुर (33) नारायन वल् रूपा धाकड खेडीपुर (34) कातू वल् मेमा धाकड उमाजी का खेडा (35) पमा वल् खेमा धाकड उमाजी का खेडा (36) मोती चल् बजोड वल्द गगाराम धाकड उमाजी का खेडा (37) नाथू वल् लाना धाकड इद्रपुरा (38) किसना वल्द कातू धाकड इद्रपुरा (39) चतुभुज वल् किमना धाकड इद्रपुरा (40) गोधू वल् गकल धाकड मेडी (41) किमना वल्द देवा भील जावदा (42) देवा बन्द खाना भील जावदा (43) गकल वल्द मोडा धाकड पटल जावदा (44) पना वल्द पेमा धाकड जावदा (45) हीरा बन्द चंदा धाकड जावदा (46) दाला वल्द जचल् धाकड जावदा (47) गिरधारी दास वल्द गोधन दासविरागी जावदा (48) जचल् वल् नन्ना धाकड जावदा (49) लछमन वल्द देराम धाकड जावदा (50) भवाना वल् खाना धाकड जावदा (51) तलौक वल्द खाना धाकड जावदा (52) खेमा वल् खाना धाकड जावदा (53) डूगा बन्द माडा धाकड जावदा (54) चण वल्द नंदा धाकड जावदा (55) किसना वल्द भरू धाकड जावदा (56) बवरा बन्द रामाघार जावदा (57) लखमा वल् दला धाकड गणेशपुरा (58) बरन् वल् खेमा का एवज देवा डूगा वल् माडा धाकड गणेशपुरा (59) धूला वल् रूपा धाकड जावदा (60) भवाना वल् त्ला धाकड गणेशपुरा (61) गोकल वल् देवा धाकड भाजसा का खेडा (62) जकसन छाती जावदा (की ओर म) पट्टा विजौलिया की अरज मातूम हाव अपरच बन्दोवस्त म जमीन भाल पीवल का नगान पहन स ज्याला बड जान और फमला मन् 22 म हुआ था उसकी कई शर्तें ठिकाने का तरफ स भग कर दन स गए सान ज्याला तात्वाद काश्नकारान न उसके बिराए स्वरूप माल की जमीन का अस्तीफा द दिया हम लागा ने उस समय इमालिय इस्तीफा नहीं दिया कि ठिकाना कुछ दिना म ही उनकी शिकायतें भेट दगा और हमारे ठिकाने के साथ रहने म जब भी उस समयकर कहेंगे निपटारा हा जायगा बिना इस्तीफा दिय जमीन का पडत रखी बाट देखत भ कि ठिकाना हमारे साथ रहने का म्यान रख हम भी कुछ कहगा नगान दाखिल करन का समय आया हम न गा क साथ रहने और हमारा वाता पर खयान रखन के भाव का बिल्कुल

मूल जमान की पार्स पाइ पडत जमीन की ठिकाने न बमूल कर ली माल भर बाट देखन पर भी रख न फिरी बाकि शिकायतें मटन के बटले उनही जमीन स्तीफा शुदा का परवान कर दूमरा के सिपुन करनी गर् अनन्त म हम नोगा न 22-8-28 जठ मुदि 3 हाल का एक दरखास्त जाव्ल म हम मजमून की पेश की कि ठिकाना हमारी कोशिश पर उन नोगा की शिकायत दूर कर भे हम यहा शाति चाहत भे किमानो को समझा दन का निम्मा हम नत है अगर नही ता फिर हमारा भी इस्तीफा मजूर करे । इस पर कुछ म्याल नही किया गौर कह दिया कि स्तीफा नामजूर है जबानी कहा कि अगर उच्च हा तो पेश करा हमन कुछ बातें निय पेा की उस पर ये कहा कि तुम्हें कतना भे ग जायगी अर्थात् टालाटूली की गई ।

हम नोगा ने गये सात्र पडत जमीन का नषान दे घाटा भुगता अब कने मुस्त रह अगर इस्तीफा नही दें तो गय साल की तरह इन माल भी भाग जायें ।

हम नोग चाहत भे कि यहा शाति हा ताय मगर ठिकान ने हमारी प्राथना पर कुछ म्याल न किया उघर जबकि हमारे भाई मग मम्बघी स्तीफा द चुव है उनकी जमीनें दूसरो को द दी गई हैं तब हमारा भी धम है कि हम भी उनका साथ न छोड़ें और इस्तीफा द यही सात्र ठिकान म इस्तीफा लिया जो नामजूर किया ।

गए साल ठिकाने ने नामजूर किया था फिर महकमे वाना ने ही मजूर करने का हुकम फरमाया था वसे तो उन नोगा न जुनार्स मे आपकी पेशगाह म मजुरी वास्त पेश किया था मगर हम ता उनसे एक महिने पहल हो पेश करत हैं ।

लिहाजा जरज है कि यह दरखास्त नामजद बनौर इस्तीफा पेशगाह म पेश कर जरज करते हैं कि इसी का इस्तीफे के रूप म मानी जाकर हमारा स्तीफा मजूर करन का ठिकाने के नाम हुकम फरमावें य स्तीफा सिफ उसी जमीन का है जा माल है और चक म आई हुई है । कुआ के पास कुआ स सम्बध रखने वाली या वीरान कुए की जो माल की जमीन है । उसका अस्तीफा नही है । ये हमारे जितन भी खात हा उन सब का है ।

यह मानूम होने के लिए कि हम अस्तीफा देने क पहले वसेडा मेटना चालत ये ठिकाने न टालाटूली की तारीख 22-5-28 को ठिकाने मे पेश की जाने वाली दरखास्त की नवल जमहाजा पेश है ।

(नाट) इसके नीचे स्तीफे म किस किस किमान ने अपने खेता के नम्बर की इस्तीफा होने न होन के दज कराय गए हैं वे लिखे गये हैं 28-5-28 मंगलवार

माणिकलाल वर्मा भुदरजा वाला काश्तकारान के कहने से (नोट) नीचे निशानी व हस्ताक्षर हैं ।

(11)

Maniklal Verma to B S Pathik

मेवाड प्रजामण्डल

महरा बिल्डिंग हाथीभाटा

अजमेर

7-11-38

पूज्य पथिकजी महाराज

सादर प्रणाम मेवाड सत्याग्रह की मासिक रिपोर्ट भजता हूँ श्री सरदारजी के पत्र में मालूम हुआ कि आपके भविष्य में दूसरी तरह की आशकाम्यें हैं आप निश्चित भक्त मर ही रहे हैं और तीन तीन अपने पात रहने पर भी काम चल रहा है । केवल पत्र के नियम किसी चीज का बख्त नहीं सक्त सहानुभूति प्राप्त करना कोई बुरा नहीं है और भविष्य के बारे में भी आप कुछ आशका न करें सब प्रकार से हम लोग अपने परा पर खड़े रहना चाहते हैं और मजबूरी या परिस्थिति हमारे स्वामलबन नष्टभ्रष्ट कर दे तो अलग बात है ।

माणिक लाल वर्मा

(12)

Sadhu Sitaram Das to B S Pathik

मु पो बीजीलिया

मेवाड

4-4-40

श्रद्धेय

सादर वन्दे

कृपा पत्र यथा समय भिज गया था काग्रेस ही गई जाय का आपका काय प्रेम निश्चित हुआ ही होगा ।

भवरनाल के लिए कुछ निश्चय किया है ता निश्चय भवरनाल कविता ना करता ही है गाता भी है हारमोनियम बजाना भी जानता है बाहर जान का

उत्सुक है मैं राब रखा है मैं ता समझता हू कोई विषय समझा दन पर प्रचार काय म उपयुक्त हा सकता है भाजनापरात कुछ इसे भी दिनाना पडेगा कारण आधे समय भाई क यहा रहना पडता है भाई की वाल्यावस्था के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर ही है ।

पत्र के लिए उद्योग कर रहा हू दो तीन जायमी हाँ भी कर रहे हैं किन्तु आजकल-आजकल कर रहे हैं ।

राजस्थान कमरी की तलाश म हू सम्भव है मिल जाय पुरान कागजात का सारा दफतर एम एल क पास है और किसी के पास नहीं है ।

मरे आने का कारण केवल अर्थोपाजन तो उही है किन्तु फिर भी मर पीछे तीन मनुष्य जाश्रित है उनको ता सहायता मुझ देनी ही पडती है उनका खर्चा तो सारा का सारा मर ही जिम्मा है म आप चाहे जिस उपयोग भी आ सकता हू किसान सभाआ के प्रचार पर म पत्र या अन्य किसी काय म ।

खादा का काम तो म मागोपाग जानता हू किन्तु उमका ता आपके पास उपयोग कदाचित ही हो सक ।

आपने व्यापार क लिये निष्ठा सो वहाँ व्यापार कौनसा और पू जी कितनी और कहाँ से प्राप्य है पूँजी हो तो वह भी सुसाध्य है ।

म चाहता हू आपक निमी काम म साध हू आपको यदि मरी उत्तरपूर्ति उपरात कुछ मदद मिल सक ता दू यही इच्छा है । यहाँ मुनसरमात है रावजी साहब को कुछ भी अधिकार नहीं है उल्टे मुनसरमात जाने रावजी साहब का तग करते रहते हैं । यहाँ तक क खानपान की भी तगी भागते हैं । हीरानाल जी गणपतलान जी उनके मुसादिव हैं कुछ करते हैं तो इनके ही खान को लाल पडते हैं हीरालालजा की ता तनखा भी बन्द कर रखी है बीमार रहत है बडे तगदस्त हैं रावजी साहब भी खर्चा देन म जममथ हैं क्या आप किसी तरह रावजी साहब के मन्द कर सकते हैं मुनसरमात किस उपाय म उठें कामदार ता ठिकाने म सामाय मनुष्य रहत है जा ठिकान के अधिकारा के द्वार मे मुनसरमात के सामन बालन की हिम्मत तब नहीं कर सकत अच्छा आदमी रखन हैं ता तनखा वहाँ स यही सवाल है ।

श्री नारायणजा की हागत तो बिल्कुन बदतर है केवन १६ रु उाका ८) उनक लडके को २०) दीनारी मिलत है जिनक १५) दृए दश मनुष्य खान

वाले एक बक्त बछन हैं इस समय बहुत बीमार इसी कारण से हैं दा मास स ब् दी
दनाज करवा रह हैं ।

योग ता मुन्सरमात क पिठठू हैं अधिकतर घाबड लाग और उनक नता
सब महादुखी ह किंतु आज की बिजोलिया तो पहल से भी गर्दीवीती है आपक
समय की बिजोलिया ता स्वप्न जसी बात हो गई है ।

यहाँ से काई नवग्याति या राजस्थान म समाचार देता है तो उमी
समाचार का पहले मुसरम के पास भेज देते हैं इसने कोई यहाँ क बार म प्रकाश
म भी नहीं लाता है । मुसरम वही गुनावसिहवी दरवार के मर्जागान हैं जाघे स
ज्याग समय उज्यपुर रहत हैं सुरादेवा के अहनिग उपासन है और सब उनकी
छत्रछाया म मनमानी धरजानी करते हैं काई बालन की हिम्मत भी नहीं करता—
यह यहा का हाल है ।

वहन जानकी नेवी को मादर बद् मरा और बच्चा-बच्ची और उनकी मा
का भी उत्तर की राह म ।

आपका

साधु (मीतागम नाम)

(13)

Sadhu Sitaram Das to B S Pathik

About munsirat in Bijolia

खादी भडान रामपुरा वाजार
काटा

12-1-40

धष्टेय

जा० वृ० 13 स 1997 वि०

॥ सादर बत् ॥

कृपा पत्र मिल गया हरिजी (अभिन हरि) भी पत्र लिख रहे हैं विशप
हाल उममे विदित हागा यहाँ क हाल प्रभुनाजजी कहग ही मैं बीजोलिया जाने
से पहल उधर आन म अर्थाभाव क कारण असमय हू और घर पर अब काम
काज की व्यवस्था भा करता है वहाँ जाकर चि वालक राम का भी उधर आपक
पाम भेजन ता तयार करे गा

बीजोलिया क ऊपर (पचायत क ऊपर) कुछ टिप्पणी कर सके तो इस पत्र (जा बीजोलिया से आज ही आया है भज रहा हू) के आधार पर कुछ लिपिए (बिजोलिया के पचा का सीडरा क कहन से यह जो प्रवृत्ति है के बीजोलिया से मुन्वरमात नही उठना चाहिए इस पर भी जरा लिखिय के यह प्रवृत्ति कहा तक योग्य है और मुन्वरम बगरह का किस टग से गोठ बगरह त्त है राजकी साहब के यह दुश्मन क्या ? इन दिना ऋषिदत्त भी जाया था और उसी दिन मागराल सठ मातीनाल जी से मिलने गया था

(14)

Maniklal Verma to B S Pathik

लक्ष्मी निवास
(बिजोलिया)
P मीगाला
खानियर राय
11-2-47

श्रद्ध पथियर जी

मवाड प्रजामण्डन का अधिवेशन 1 2 3 मार्च 1947 का गाव लक्ष्मी निवास (बिजोलिया) में हो रहा है । मवाड प्रजामण्डन की ओर से आपको ऊपर से मवाड में प्रवेश निषेध आना रद्द करने के विषय में सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है परिणाम की सूचना जल्दी दे दी जायगी अगर बघन उठ गया तो ऊपरमान आपका स्वागत करने का आयोजन करूंगा मुझे आप सूचित करें कि आप कौन सी तारीख का वहां होंगे—शप कुशन हैं

आपका
माणिक लाल वर्मा

श्री विजय सिंह पथिक

अध्यक्ष सूबास्टेट कांग्रेस कमटा

मन्दसौर

खानियर राज्य

(15)

Bijai Singh Pathik was jailed by Mewar Government in connection of Bijolia affair. He was imposed fine also. When he was asked whether would deposit fine or like to remain in Jail for some more days he replied very courageously

॥ श्रीकृष्णजी ॥

॥ श्रीरामजी ॥

मकल रिपॉर्ट दारागा हवालान बख्तिमत अदातत मन्त्र फौजदारी वाचे तारीख २५ २ १९०७ ई

सरकार मुहूर्स, विायसिंह पथिक मुल्जिम हत्तत राजद्रोह बगावत) मामले हाजा म मुल्जिम विजयसिंह से अनावे कंड के ५०० रुपये जुर्माना दिया जाना व अदम अदाये जुर्माना दा माहा और कद रहना गजबोज हुवा और मुल्जिम की तारीख रिपोर्ट १०, ३ मनु हाल की है इसलिये मन्त्र जेल लिखा देना परमावे मुल्जिम से दर्याप्त करा जवाब भेज के वा जरे जुमाना ग्राखिल करेगा या मजा भुगतगा ।

अज्ञान मद्र फौजदारी

नवर ५२७०

नकर इसकी माहव बहादुर मुफरिटेडेट सेट्टन जेल फाम भेजकर लिखी जात्र मुल्जिम से उसके बाबत दर्याप्त करा जा जवाब देव उसके दस्तखती लिखा कर भेज दवे स १० ५३ फागन वि ८ तारीख २२ २ २७ इ

जवाब पथिक विजयसिंह

तमाम दुनिया म अगर कपी जेल क बजायद के खिलाफ वाइ वाम न कर और जन हुकामा का उसके खिलाफ वाई शिवायत न हा तो वह कुछ छूट पान का ह्कार हो जाता है । मवाइ म भी मामूली मामला तक म फी माह दा राज स्थि जान है और भरे खिलाफ जन हुकामा का कोई शिवायत नहीं है । पर भर इम तक के ४२ महीना के ८८ दिन हात है । अगर भव न गिन कर मन्ट्र जन के ही गिन जाय तो भी १९ माह क ३८ दिन हात है । अनावा बरी मैन एक मात्र तक एक घट रोज चर्चा बनाया है और ज्या सूत काता वन् जल का पिया है मुमकिन है मरी सजा सानी हात म इस हिमाव का वायदा नहीं रखा गया हा लकिन इम

जानत सब हैं और यह एसी बात है जिसमें इनकाफन को भी नजर अंदाज नहीं कर सकता ।

एसी हालत में जुमाना वसूली का सवाल उठना ही तअज्जुब की बात है लेकिन अगर इन दाना बागा को सामने लान पर भी वसूली जरूरी समझी जाय या दा महीन और कद रखन की राज की मर्जी हो ता भरे पास इसके सिवाय कोई जबाब नहीं है कि न भरे पास जुमाना जमा करने का कोई मालियत है न अदा करना में कामाफन मुनामिव समझता हू और इसलिए दो माह वक्त भुगतन को तयार हू ।

हा उस हालत में एक बात और जज करूंगा । इन मकान की गर्मी भर लिए नाकाबिल बदाश्त साबित हुई है । इसके वार में बराबर शिकायत भी करता रहा हू लेकिन सुनाई नहा हुं । नतीजा यह है कि हर साल सारा पून खराब हा जाता है । पारमान भी छ माह इलाज कराना पडा था और इस बार भी छ माह न हा रहा है । हाथा की सारी चमडी एमटिय एसिड से जना देनी पडी है । इसलिए अगर यह तकलीफ दी ही भी सजा में शामिल न हा ता इन दा माह व त्रिए या तो मुझे किसी ठडी जगह तनील कर लिया जाय या यहा एमी सुमाना करा लिया जाय कि इस बार यह तकलीफ न हा । परत

अज सदूल जे

Peoples Movement in Rajasthan and Bijai Singh Pathik

(As depicted in the official fortnightly reports
of the British Government)

Few copies of fortnightly reports present a vivid picture about the Bhil unrest in Mewar peasants agitation in Bundi Shahpura Bijolia etc. The role of Bijai Singh Pathik in these movements had been reported. Some social conditions communal harmony is also noted in these reports. Bijai Singh Pathik's *Navin Rajasthan* was a constant source for the peoples movement in the Ajmer Merwara and Princely states. Bijai Singh Pathik and Narsingh Das (Babaji) were sentenced in connection of violation of salt Act. Some stray references on Arjun Lal Sethi and Congress movement are also available.

(1)

CONFIDENTIAL

D O No 92 P dated Camp Sirohi the 5th February 1923

From—The Hon ble Mr B E Holland C S I C I E Agent
to the Governor General in Rajputana and Chief
Commissioner of Ajmer Merwara

To—The Hon ble Mr J P Thompson C S I Political
Secretary to the Government of India in the Foreign
and Political Department Delhi

Fortnightly report

I enclose in triplicate two confidential memoranda on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara respectively for the period ending the 31st January 1923

**Fortnightly memorandum (No 85) of the internal
situation in Rajputana for the period ending
the 31st January 1923**

Mewar—Unrest is smouldering in the Jehazpur District of the State. The situation as far as open trouble goes is generally satisfactory and the Darbar have recently handled it well. They are also alive to the danger of allowing the agitation which is still going on in some parts of the State to continue.

Hilly Tracts—There was a large but apparently quite peaceable gathering of Bhils of Deola in Jura in the middle of January to discuss the affairs of the Bhils in the Jagir area of Wakal where *begar* was said to be a source of hardship. The meeting was probably summoned and attended by Kesa Tral the most active agent of the non co operators in the Bhumat whose arrest has been ordered by the Assistant Political Superintendent. The Mewar Darbar have been asked to help to keep him out of the Hilly Tracts if he is found in *Khalsa* territory. The Bhils about Khampa were unfriendly and refused to prepare the Assistant Political Superintendent's camp until his advance party arrived.

A settlement has been negotiated between the Rao of Pahara and the inhabitants of Kantarwas and other villages in which there has been discontent for 5 or 6 years.

Bundi—The agitation in the State is showing signs of decline but Ranbir Singh a Jagirdar of the State whose Jagir was some time ago placed under the management of the Court of Wards on account of his dissolute habits is trying to keep it alive. He is reported to have been touring in the Barar District with some 300 men and to be arrogating to himself the insignia of a Ruler.

Correspondence from Ajmer and Kotah and articles in the Navin Rajasthan Ajmer also tend to keep agitation alive in the State. The house of the editor of the Navin Rajasthan was recently searched by the police for revolutionary matter and a large mass of papers was taken away for examination which is now being conducted.

Shahpura—It is reported that a settlement has been arrived at with the dissatisfied element in the Kachola (No 82) Pargana of the Chiefship

An armed dakaiti occurred in the Chiefship in December last. The dakaitis seized a cart carrying silver utensils, clothes and ornaments belonging to the Chiefship. The special feature of the dakaiti was that the culprits shouted *Mahatma Gandhi ki—Jai Pathikji ki Jai*. They inflicted severe injuries on the persons with the cart, the contents of which were looted.

**Fortnightly memorandum (No 85) of the internal situation
Ajmer—Merwara for the period ending the
31st January 1923**

After Friday prayers at the Dargah at Ajmer Maulvi Masud ul-Hassan read out a letter from Mustapha Kemal to Chotani thanking Indian Muslims for their help to the Turks and hoping that Indians would one day win their independence.

(2)

CONFIDENTIAL

D O No 388 P dated Mount Abu the 19th July 1923

From—The Hon ble Mr C C Watson C I E Agent to the
Governor General in Rajputana

To—Major G D Ogilvie I A Offg Secretary to the
Government of India in the Foreign and Political
Department Simla

Fortnightly Report

I enclose in triplicate two confidential memoranda on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara respectively for the period ending the 15th July 1923

**Fortnightly Memorandum (No 96) of the internal situation
in Rajputana for the period ending the
15th July 1923**

Mewar—The Rao of Begun having agreed to appoint as Kamdar a man nominated by the Darbar has gone back on his word. A selected official has therefore been appointed manager and the estate placed under management. The Rao has come to Udaipur. The Commission has pronounced its decision after a long and careful enquiry *in situ* by Mr Chenevix Trench I C S and two specially chosen Darbar Commissioners. The recalcitrant cultivators have refused to take any cognizance of it and the Darbar will now probably proceed to the collection of revenue by distraint upon the property of the defaulters.

Bundi—Meetings were held in the Barrad district but no event of importance took place. At a meeting attended by over 1 500 persons the question of discontinuance of hostile activities was discussed and a written statement of demands was drawn up for the consideration of the Darbar. It is alleged that B S Pathik has sent a letter to the agitators telling them not to pitch their demands too high. It is thought that since the incident when the Superintendent of Police opened fire on the mob at Dabi the people are trying to sever connection with the agitators and the power of the Sabha is weakening.

**Fortnightly Memorandum (No 96) of the internal situation
in Ajmer Merwara for the period ending the
15th July 1923**

At a meeting in Ajmer which was attended by 3 500 persons Arjun Lal Sethi described how the Satyagrah movement was progressing at Nagpur and regretted that no volunteers had been sent from Rajputana and finally asked for 3 from Ajmer. At meetings of Mohammadans the speakers pleaded for unity among the Mohammadans and for funds to help the Moplahs and to rebuild the orphanage at Calcutta. At Beawar one Mool Chand delivered a lecture before 250 men on Hindu unity and organiza

tion Babu Behari Lal Vakil asked the Hindus whether they wanted to be friends with cow killers

(3)

CONFIDENTIAL

D O No 568-P dated Mount Abu the 3rd Nov 1923

From—The Hon ble Mr B B Holland C S I C I B
C V O Agent to the Governor General in Rajputana

To—The Hon ble Major G D Ogilvie I A Secretary of the
Government of India in the Foreign and Political
Department

Fortnightly Report

I enclose in triplicate two confidential memoranda on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara respectively for the period ending the 31st October 1923

**Fortnightly memorandum (No 103) of the internal situation
in Rajputana for the period ending the
31st October 1923**

Mewar—The Mewar Darbar propose to hand Bijai Singh Pathik (No 101) over to the Bundi Darbar for trial

Deoli—Three Sikhs recently arrived in Deoli for the purpose of selling cloth in the neighbouring State territory They wear black puggies and carry a weapon each somewhat ostentatiously presumably as Kirpans They are said to have once remarked in conversation that the British are afraid of the Khalsa and that this is the reason of the repression of them in the Punjab and Nabha They are being closely watched by the police and have not yet so far shown any signs of attempting active propaganda

**Fortnightly memorandum (No 103) of the internal situation
in Ajmer Merwara for the period ending the
31st October 1923**

Several political meetings were held in Ajmer during the fortnight under review

**Fortnightly Memorandum (No 96) of the internal situation
in Rajputana for the period ending the
15th July 1923**

Mewar—The Rao of Begun having agreed to appoint a Kamdar a man nominated by the Darbar has gone back on his word. A selected official has therefore been appointed manager and the estate placed under management. The Rao has come to Udaipur. The Commission has pronounced its decision after a long and careful enquiry *in situ* by Mr Chenevix Trench I C S and two specially chosen Darbar Commissioners. The recalcitrant cultivators have refused to take any cognizance of it and the Darbar will now probably proceed to the collection of revenue by distraint upon the property of the defaulters.

Bundi—Meetings were held in the Barrad district but no event of importance took place. At a meeting attended by over 1 500 persons the question of discontinuance of hostile activities was discussed and a written statement of demands was drawn up for the consideration of the Darbar. It is alleged that B S Pathik has sent a letter to the agitators telling them not to pitch their demands too high. It is thought that since the incident when the Superintendent of Police opened fire on the mob at Dabi the people are trying to sever connection with the agitators and the power of the Sabha is weakening.

**Fortnightly Memorandum (No 96) of the internal situation
in Ajmer Merwara for the period ending the
15th July 1923**

At a meeting in Ajmer which was attended by 3 500 persons Arjun Lal Sethi described how the Satyagrah movement was progressing at Nagpur and regretted that no volunteers had been sent from Rajputana and finally asked for 3 from Ajmer. At meetings of Mohammadans the speakers pleaded for unity among the Mohammadans and for funds to help the Moplahs and to rebuild the orphanage at Calcutta. At Beawar one Mool Chand delivered a lecture before 250 men on Hindu unity and organiza

tion Babu Behari Lal Vakil asked the Hindus whether they wanted to be friends with cow killers

(3)

CONFIDENTIAL

D O No 568-P dated Mount Abu the 3rd Nov 1923

From—The Hon ble Mr B B Holland C S I C I B

C V O Agent to the Governor General in Rajputana

To—The Hon ble Major G D Ogilvie I A Secretary of the Government of India in the Foreign and Political Department

Fortnightly Report

I enclose in triplicate two confidential memoranda on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara respectively for the period ending the 31st October 1923

Fortnightly memorandum (No 103) of the internal situation in Rajputana for the period ending the 31st October 1923

Mewar—The Mewar Darbar propose to hand Bijai Singh Pathik (No 101) over to the Bundi Darbar for trial

Deoli—Three Sikhs recently arrived in Deoli for the purpose of selling cloth in the neighbouring State territory They wear black puggies and carry a weapon each somewhat ostentatiously presumably as Kirpans They are said to have once remarked in conversation that the British are afraid of the Khalsa and that this is the reason of the repression of them in the Punjab and Nabha They are being closely watched by the police and have not yet so far shown any signs of attempting active propaganda

Fortnightly memorandum (No 103) of the internal situation in Ajmer Merwara for the period ending the 31st October 1923

Several political meetings were held in Ajmer during the fortnight under review

At one of the meetings one mirza Yusuf Beg expressed resentment and regret at the search and arrest of the leaders in connection with the Ajmer riots and at the Muhammadans giving evidence against the Maulvis. He also said at another meeting that the door of zulum was open and they were being harassed by the Police.

Arjun Lal Sethi, as usual, defined the Congress and said that it was the only institution which will free India from the chains of slavery and for that end all the communities of India should unite.

In a meeting held on the 21st October Ghisu Lal Vakil expressed his regret that the Dusserah festival could not be celebrated on account of the Superintendent of Police's imposing certain conditions which were not acceptable to the Hindus though the Commissioner had allowed the procession and music unconditionally in his order.

It may be remarked here that the superintendent of Police *duly gave the petitioner a written order after consulting the Commissioner that music would nowhere be stopped during the procession.*

At the same meeting one Kanshel Das Vakil moved a resolution expressing resentment and disappointment at the abandonment of Bharat Milap and Kam Lila owing to the imposition of unprecedented restrictions to their religious processions and not allowing them to be taken out according to the traditional usage.

In refutation of the above the Commissioner has reported that there are two parties who take out these processions. One party in spite of notice did not apply for permission to take out its procession probably on account of fear of Muhammadan attacks. The other party at first agreed to take out the procession the only condition imposed being that the time table should be drawn up by the police. Later however after a large meeting of Hindus they decided to abandon the procession. This decision seems to be due partly to fear of Muhammadan aggression and

partly to a desire to make the present a test case for an appeal to the Local Government or the Government of India against restrictions on their freedom of worship

G C P Delhi XI 291 (S) 9 11 23 50

(4)

Fortnightly Memorandum (No 4) on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara for the period ending the 30th April 1927

Rajputana

Mewar My Memorandum (No 101) of 30th September 1923 Bijay Singh Pathik was served with an order on the 27th April by the Mewar Darbar forbidding him to re enter Mewar He was then sent under Police escort to Bari and released on the 28th April The Darbar are also issuing orders directing that if Ram Narain Chaudhri (vide my Memorandum (No 9) of 15th July 1926) returns to Mewar an order is to be served on him forbidding his re entry into the State He was till lately residing at Bijolia and is believed to be in Ajmer at present

On the 19th April there was a riot at village Ajwas in Pochfna in the Idar State in the Bhu country which resulted in two deaths and some looting A separate report to Government has been made No further developments have so far seen reported and the riot appears to have been due to a quarrel resulting from the local authorities of the Idar State attempting to arrest some Mewar Bhils Ajmer Merwara There is nothing to report

(5)

Fortnightly memorandum (No 6) on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara for the period ending the 31st May 1927

Rajputana

Mewar My memorandum (No 4) of 30th April 1927 Bijay Singh Pathik is reported to have visited Gwalior territory

near Bijolian in Mewar on 18th may on an invitation from the Kisan Panchayet etc of Bijolian He was enthusiastically received Addresses of welcome were Presented In reply Bijey Singh advised the Kisan Panchayet to give up non irrigated holdings as a protest against the increase of land revenue and also to boycott State schools and conduct their own as a protest against official attacks on their independence The members of the Panchayet gave a pledge to observe the truth and non violence to wear khadi to abstain from intoxicants and to maintain the Panchayet at all costs Literate girls took a pledge each to teach three girls to read and write A coremony was carried out at which men who as a token of devotion to Bijey Singh Pathik had not cut their hair for the last four years cut their hair

Ajmer Merwara

The Arya Samaj have been holding meetings in Ajmer and Kekri The speeches made at these meetings and at counter meetings held by Muhammadans are keeping alive Hindu Moslim tension

(6)

Fortnightly memorandum (No 8) on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara for the period ending the 30th June 1927

Mewar My memorandum (No 6) of 31st may 1927 Mr G C Trench Settlement and Revenue Officer Mewar reports that the renewed activities of B S Pathik in Bijolian may result in a wholesale surrender of Mal lands by the Dhakars Should this occur he advocates the Thikana taking possession of the best lands surrendered and digging wells in them but believes that if this is done the Dhakars may offer violence He adds that a report that arms are being Imported appears to be untrue but that every Dhakar possesses a gun and ammunition The State troops are being held in readiness should occasion arise

The agitation is entirely engineered by Pathik to keep up his prestige and his subscriptions

Ajmer Merwara There is nothing to report

(7)

Fortnightly memorandum (No 9) on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara for the period ending 15th July 1927

Mewar My memorandum (No 8) of 15th June 1927 Mr G C Trench Settlement and Revenue Officer Mewar reports that as the result of a good deal of persuasion assisted by the presence of troops route marching in the Thikana the tenants withdrew their resignations and decided to appeal against their rents. Precautions will still be taken but it is hoped the trouble will blow over if Pathik can be kept out of the Gwalior and Indore villages in the neighbourhood. The political authorities concerned have been asked to move the Darbars concerned to assist Mewar in the matter.

The Moharram Passed off quietly in Rajputana and in the districts of Ajmer and Merwara

(8)

Fortnightly memorandum (No 10) on the internal situation in Rajputana and Ajmer Merwara for the period ending 31st July 1927

Rajputana

Bundi The death of His Highness the Maharao Raja took place on July 26th at 3 15 p m This has been separately reported

There is evidence that Bijay Singh Pathik is attempting to stir up trouble in the Bundi State. The Darbar have drawn attention to some offensive articles which appeared in the Tarun Rajasthan. They are not however prepared to take proceedings against the paper.

Ajmer Merwara Mohammodan feeling is stirred on the Rangila Rasul judgment and articles of the type which appeared in the Vartman

(9)

CONFIDENTIAL

From the Agent to the Governor General in Rajputana And Chief Commissioner Ajmer Merwara No 187 Conf Dated The 2nd May 1930

Report for the second half of April 1930

I enclose a confidential memorandum on the internal situation in Rajputana and Ajmer merwara for the period ending the 30th April 1930

MEMORRANDUM

Ajmer Merwara

(a) Ajmer—Meetings have continued to be held in Ajmer without raising enthusiasm. Since the 26th April small batches of volunteers have paraded the city at intervals and then proceeded to make salt. But the salt was produced so quickly that it seems more than probable it was brought ready made. The subsequent auctions produced bids from Congress members only and no money actually tendered. Genuine bids have not been noticed and the public interest has so far waned that uniformed police have now been withdrawn from the demonstrations which ceased from the 27th April. There have been no fresh enlistments and the situation in Ajmer is quiet.

(b) Beawar—There has been more excitement at Beawar where after the conviction of a leading citizen the police were assaulted by mill hands. The mob was dispersed by a baton charge from the police station and there have been no further development. There was a successful *hartal* on account of Jawahar Lal Nehru's arrest and a complete *hartal* of Hindu shops.

on the day of the disturbance mentioned. An armed police guard has been sent to Beawar in case of further trouble.

(c) Rural areas —Two parties of volunteers have been touring the villages. They have been turned out of some villages and there has been little response from others. Only in one area did they succeed in enlisting any volunteers. The tours ended a week ago and there are no signs that a single village has been stirred. Any response there was came from village *bannias* and not the agriculturists.

(d) General —On the 15th April Bijai Singh Pathik and Narsingh Dass two of the leading agitators were sentenced to two years rigorous imprisonment under sections 9 of the Salt Act and 117 I P C and subsequently other leaders including Ghisulal Jajodia of Beawar have been arrested. Only in Beawar was there any trouble in connection with their arrest, trial or imprisonment.

Rajputana

The States still appear to be unaffected. Seven volunteers came to Ajmer from Ujjain on the 26th April. The proposed attack on the Sambhar Lake Salt source has not materialised and the idea appears at any rate for the present to have been abandoned.

Rajasthan Seva Sangh

Rajasthan Seva Sangh was an organization for monitoring the activities of Bijai Singh Pathik and his associates. From economic point of view the workers were made self dependents. A worker was paid Rs 15/ per month and if he was living with family was to be paid Rs 30/ per month. For touring they were paid extra. There was very strict discipline maintained. Persons were given different jobs. These records deal with various organisational activities of Rajasthan Seva Sangh. This was founded by Bijai Singh Pathik details of it shall be given in one of the fourth coming volumes dealing with organisations.

(1)

Jnana Nand Mishra from Shujal Pur to B S Pathik

शुजालपुर

29-11-28

प्रिय पथिकजी

वन्देमातरम्

श्रीक लेरह महिन क बान इस काविल हुआ हू कि कुछ काम करन म धकावट का होना तथा ज्वर का होना जाता रहा है अब म कई महिने म शुजालपुर क पास किसौनी गाव म हू तीन महिने स एक जाम्श गुरुकुन नामक पाठ शाला स्थापित करके दम बारह लठका को पढ़ाना हू यथा शक्ति किसाना की सेवा करता हू इधर के किसाना की दशा खराब है तो भी उनको उदारता और प्रेम दोना प्रशसनीय है मैं इसी गाँव म आकर ठाडुस्त हुआ हू ।

इधर कुछ राज के पहल यह सुनने का मिला या कि हटोना (यह हर्गिभाउ उपाध्याय भी हो सकता है) शायद आपसे अनग होकर काम रहे हैं क्या यह मच है ? सध (राजस्थान सध) के तरफ से इस वक्त क्या काम हो रहा है पूव की तरफ हो नियम इत्यादि मौजूद हैं या परिवर्तन हुआ है ।

बल ही एक सज्जन द्वारा पता लगा कि आप श्रीधर ही भुपाल (Bhopal) आने वाले हैं अगर यह बात बिनकुन सध है तो शुजालपुर अवश्य उतरने की कृपा

करें यह झुजालपुर स्टेशन उज्जैन और भुपाल के बीच में खालियर राज्य में है यहाँ से मेरी कुटी १॥ (डेढ़) मील पर है मेरे लायक जा काम हो निर्धै ।

इस तरफ बिलकुल ठोस काम करने का विचार है इसीलिये गाव म रहना ठीक ज्यादा है

आपका अपना
ज्ञानानन्द मिश्र

(2)

रामकरण गौड़ From Indore on 2 12 28 writes to Pathik about their leaving Rajasthan Seva Sangh and Tarun by B S Pathik Chaudhary (Ramnarain) and Guptaji (Shobha Lal Gupta)

(3)

On 13 11 28 Ramnarain Gaur writes परकार न पट्ट म ही अपना पत्रा कायम रख छाडा है और नरेश वेममथी से समाप्त जा रहे हैं किन्तु अभीमता से अधिब आशय और धम की बात यह है कि भारतीय नता भी कमे पथ छप्ट हातर राजस्थानी 7 करोड भाइया का भूत रत् है (राजपूतहित वधक सभा के अधिवेशन म प्रस्ताव वावन्)

(4)

Daily diary of Rajasthan Seva Sangh about one of Works

दैनिक काय विवरण

राजस्थान सेवा सघ अजमेर

मारीख

काय विवरण

5-9-29

पद

पद म

राजस्थान सेवा सघ अजमेर मारीख ५-९-२९ काय विवरण
राजस्थान सेवा सघ अजमेर मारीख ५-९-२९ काय विवरण
राजस्थान सेवा सघ अजमेर मारीख ५-९-२९ काय विवरण
राजस्थान सेवा सघ अजमेर मारीख ५-९-२९ काय विवरण
राजस्थान सेवा सघ अजमेर मारीख ५-९-२९ काय विवरण

है। मन्व दखभाल मूलबदजी का आपकी आज्ञानुसार सविस्तार वणन मुताया वे विमी ढग सं सगठन करेंगे राजस्थान सदश के ग्राहक बढायेंगे।

वहाँ से जयपुर गया वहाँ लोका स मिलन के बाद पता लगा कि यहाँ अगर कार् सयता व शुद्धता के साथ काय करन वाला है ता एव मात्र चद्रभानजी हैं उही के पास गया उन्हाने भी मुझ देखत ही मिलन की इच्छा प्रकट की इनके मेर खूब लम्बी गीडी बातधीत हुई अवश्यमव ये आदमी उत्साहा और त्रियाशील मालूम हुआ इनका सब तरह तयार कर लिया है किन्तु प्रस्ट नपुन म सस्था करन के पक्ष म ये नहीं हैं क्याकि ग्राम्य सगठन म आघात होता है मैंन भी उह यहा सनाह दी है कि आप तो उधर ही जुटिय।

करोली गया वहाँ अछूत पाठशाला राज्य की जोर स बढ कर दी गई तारायणमिह जी न जाज अछूत पाठशाला स्थापित करन की दरखास्त दा इस पर कई अधिवारी व ग्राहण-में गया उस रोज दस्तउत करा रहे थ कि हम अछूत पाठ शाला यानन देना नहीं चाहते इसी क्षणडे म थ लोग लग हुए थ ज्यातर उनका न्द घनवाना के सटार चलन का पाया प्रेमसिंहजी नशी थ ता भी भीतरी सगठन करने को वे जरूर तयार हुए और न्द क्या को आपक पास भजत हुए आपम मिलन का वादा भी किया है।

झालावाड स्टेशन पर पहुँचा कि लक्ष्मी सहायजी आदि तो वहाँ नहा थे गुलानपार्टी आजकल किसी ऐसे आदमिया से मिलती नहीं है। खबर सुनकर पीछा नोट आया लक्ष्मीसहायजी क बिना मिनना कुछ लाभदायक नहा होगा।

वाद म बूदी गया वहाँ मुझे कोई तयार नहीं मिला न हाने की उम्मीद है। मुझे तो यहाँ कोई सामाजिक या धार्मिक सस्था स्थापित हा तब जनता सङ्गयोग दे तो द एसी स्थिति प्रनीत हुई कोटे एक मात्र भाई मोनोनानजी के कारण जागृति दिखाई दी मगर सस्था बनान के पक्ष म व भी न मिले। कुछ भी हा इस दौरे म मुझे ज्यादा काम यह दिखाई दिया हमारे मित्रा ने आप (के) प्रति दुभाव पदा कर रखा था प्रकट रूप म आपक प्रेमो दिखाई देते थ उन लोका के न्द म आपके प्रति सदभाव हुआ आगे ता ग्राहक भी बनेंगे ही और सब काम होगाही आवश्यकता उनको समय समय पर पत्र लिखन की है सस्या खोलने का कोई तयार नहीं।

केशवर को माय मिलन पर भेजू गा।

यहाँ महकमाखास म मेर वार म रिपोट हुई है कि वो पथिकजी क

पास पहुँच गया है। आपका सवाद कामदार सा को सुना दिया वे सावधान हैं।
और अभी तक उनकी महानुभूति है।

आपका

माणिकलाल

हिमाच हम्ने माणिकलाल 15-9-29

10 रुपय श्री पथिकजी महाराज

10 रुपय

रुपया

जाना

2

8 जेपुर स हिंडोन ता 17

2 ता 17 जेपुर से स्टेशन तगिा

1

ता 17 से करौली आत जात

3

3 ता 18 छत्रपुर तक टिकट 1

5 ता 19 भोजन शाम

4 ता 19 मुवह भोजन

14 ता 19 टिकट वाटा तक

4 भोजन शाम

2 तागा कोटा तक

2

वाटा वूदी तक आते जात

6 भाजन एक समय कोटा

4

12 छूटे

15

12

ह माणिकलाल वर्मा

(5)

Ram Narain to B S Pathik

राजपुताना हरिजन सेवक संघ

अजमेर ता 27-6-1935

प्रिय पथिक जी

सप्रेम बन्ने

एक मुद्दत के बाद आपका पत्र मिला उसमें भी पता निखना भूल गय खैर
उसमें आपका कुशल समाचार जानकर सन्तोष हुआ।

इंदौर के प्रचार की बात मुझे आपके मित्र और हितपी भण्डारीजी ने कहा थी इसीलिए मैंने आपको लिखना ठीक समझा था हरिभाऊ जी के कहने पर तो ऐसा न करता अब तो आपन जा कुछ लिखा है उसी का सही मानकर सन्ताप कर लेना ठीक समझता हूँ ।

दलबंदी की भावना प्रबल देखकर सीकर क मामले में कोई त्रियात्मक भाग नहीं ले रहा हूँ अब जब किसान या रतनमिहजी कोई बात पूछत हैं मलाह दे देता हूँ बेचार कपका के काय व्यथ ही जाते दीखत हैं मुझे तो कोई दायित्व लेना न था हाँ आप कमटी में रहते तो उस कमटी की प्रतिनिधिस्वरूप समझकर मैं परोक्ष सहायक यथा शक्ति अवश्य देना ।

जानकी बहिन को वदे कहिय अजनादेवी बच्चा सहित मालवे में गई हुई है प्रताप की एक आख बिगड गई है शायद बम्बई इलाज क लिए जुनाई के अन्त में मुझे भी जाना पड ।

माणिकलाल जी न हम तीना का लिखा कागज दिखाया था और इस सम्बन्ध में पिछले दिना अखनूर और आप (?) लागा न जो कुछ अखबारों में निकलवाया था उसे सबकी समझित कृति समझकर बिगड रहे थे कहत थे कानूनी अधिकार तो तुम लोग का कुछ है नहीं नतिक अधिकार अवश्य है । प्रेस का कज चुकाकर बखट और अखबार तो जिनके पास है उन्ही के पास रहने दो ।

सार यह कि सीधी अगुनी थी निकलता दिखता नहीं शप मिलने पर हा राजस्थान के नारा की वारी अब हमारे सिर जा गई है ।

आपका

रामनारायण (चौधरी)

{ 6 }

Shobhalal Gupta to B S Pathik

राजपुताना हरिजन सेवक संघ

अजमेर ता 20-9-1936

आदरणीय बंधु

सप्रेम वदे एक लम्बे अरम के बाद आपका 15 तारीख का पत्र मिला पिछला बार श्री मणिलाल जी आय उसक बाद तुरन्त ही श्री चौधरी जी

बलवत्त चल गये थे आपका पत्र लिखन का मुझ कह गये थे किन्तु दयानदास जी स बात हुआ कि आप शीघ्र हा अजमर आ रहे हैं इसीलिए आपको कोई पत्र नहीं लिखा फिर यह बात दिमाग स उत्तर ही गई आया है इसक लिए आप मुझ क्षमा करेंगे ।

श्री मणिलाल जी राजस्थान को लौटाने की माग करन क बाद हमारी उनम पहिला मुलाकात साजत म हुई आपकी गर मौजूदगा म कोई निणयात्मक बात ता हम कह ही नहीं सबत थ उन्हाने साजत म वह (Document) हमका बताया जिसम हमने उनको बिना किसी शत पत्र और सघ सापन की बान लिखी है हमन उनस यहा कहा कि इसम जो कुछ लिखा हा जिस बिशय स्थिति क कारण आपको वह सौपा गया था वह अब नहीं रही है अब हमार बीच म कोई मतभेद नहीं रहा है इसीलिए राजस्थान पत्र और प्रस आपको लौटा देन चाहिय उहान उत्तर में कहा कि प्रस पर 500-600 का कज है उमक बार में आप नाग विचार करलें इतनी बात हुई और हम लोग यह कह कर चन आय कि जब पधिक जी मौजूद रहंग तब इस बार में विचार कर लेंगे ।

बाद म चौधरी जी बम्बई और फिर मसूरी चल गये इस बीच राजस्थान मे हरिजन सघ और चौधरी जी के विरुद्ध कुछ बातें प्रनाशित हुई इस सम्बन्ध म मैंने आपका इन्दौर क पत्र पर एक पत्र लिखा था कि राजस्थान का लेने की शीघ्र वापवाही करनी चाहिय किन्तु उसका आपकी आर स कोई उत्तर नहीं मिला चौधरी जी न मसूरी म मणिलाल जी को लिखा कि अब आपको अबिलम्ब उम प्रश्न का निणय कर देना चाहिय चौधरी जी क मसूरी स वापस लौटा आने क बाद श्री मणिलाल जी इधर आय तब उनस फिर बातें हुई श्री मणिलाल जी ने कहा कि माजत म आप सोगा म जो बात चीत हुई उसमे मैं यह समझा कि आप प्रस ही वापस लेना चाहते हैं किन्तु अब मुझ मानूम हुआ कि पत्र और प्रस दाना ही वापिस मागत हैं किन्तु पत्र का वापिस लौटान क माग में भर मामन एसी मुश्किलें हैं कि आपका उन पर विचार करना चाहिय । ऋपिदत्त न पत्र क पीछ बहुत त्याग किया है मैं उसके प्रति एक प्रकार की जिम्मेवारी अनुभव करता हू और मैं उसका मझधार में नहीं छोड सकता ऋपिदत्त पत्र के चलाने में अपनी स्त्री के जवर तक गिरवी रख चुका है उमत् 2500/- के लगभग घाटा बरदास्त किया है अब मैं यह ता नहीं कहता कि मैं राजस्थान नहीं लौटाउगा किन्तु एक आत्मीय के नाते आप शीघ्र स मरा कठिनाइयां पर विचार करने क लिए कहता हू तब

यह तय पाया कि आप हम और वे सब एक जगह मिलें और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें

गत मास के तासर सप्ताह में श्री मणिक लालजी फिर अजमेर आयें और आपको भी उहान यहा आने के लिए तार दिया ही या आप परिस्थितिबन्ध यहाँ न आसकें तब उह न यह प्रस्ताव रखा कि राजस्थान का एफ बोर्ड बना लिया जाय जिसमें उनक अलावा हरिभाऊ जी ऋषिदत्त रहे और हमारा दांता का नाम भी रहे हमने उनस स्पष्ट ही कह दिया कि हम राजस्थान के बारे में ऐसी कोई ध्यवस्था स्वीकार नहा कर सकत जिसके लिए पथिक जी तयार न ह । हम तो उनके साथ बचन बद्ध हैं । हमने ऋषिदत्त वानी कठिनाइया का क्याल करके उनक सामने यह प्रस्ताव रखा कि पत्र आपका सौंप दिया जाय और ऋषिदत्त आपकी देख रेख में काम करता रहे श्री कोठारी जी ने कहा कि पथिक जी स में मिलूंगा और उनके सामने सब स्थिति रसूंगा ।

आपकी अनुपस्थिति में इस बार हम योगा न कोठारी जी से चर्चा अवश्य की है किन्तु इसमें सत्ता यही स्यात रखा है कि अन्तिम निर्णय आपके ही हाथ में है । अब भी वही स्थिति है इस बार में वही होगा जो आप चाहेंगे । कोठारी जी आपसे मिलना चाहते हैं आप उनसे मिल लें और जिस निष्पत्ति पर पहुँचें वही हमको मान्य होगा आपका पत्र स जो शका की ध्वनि प्रकट होती है उसके लिए कोई आधार मुझ प्रतीत नहीं होता हमने तो कोठारी जी से चर्चा करके वही काम किया है जो आपको करना चाहिय था हमारी यह इच्छा अवश्य है कि इस प्रश्न का जल्दी निबटारा हो जाय तो अच्छा होगा

श्री चौधरी जी अभी कतकत ही है व फरवरी तक यहाँ लौटने की संभावना है उनके आने पर ही निश्चय होगा कि नारीला वाला पत्र सब स जारी किया जाय उसके लिये आप समय समय पर कुछ लिखन रहेंगे

श्रीमानल गुप्त

(7)

Manilal Kothari to B S Pathik

मणिलाल कोठारी

जोरावर नगर (काठियावाड़)

My Dear Pathik Ji

10 Dec 1934

Your letter on 5th inst was received by me yesterday morning I wonder how it took 5 days to reach here

I am indeed much delighted to learn that Syt Ram Narain Chaudhary Sobhalal Ji and yourself have once again become friendly I sincerely congratulate you of your happy reunion and pray that united as you are now it may be possible for you brothers to serve the cause of Rajasthan more better

I have read the copy of the letter purporting to be signed by you brothers and I should like to meet you all some times before the end of this month at some convenient place such as Sojat Road or Kishangarh In the meantime I shall consider what I can do in the matter proposed by you In any case I must see you brother and some others also who are interested in this affair before I take the final decision

I have not heard anything from Syt Ram Narain Ji and I hope to hear from him

I often think of you and I hope this will find you and Shrimati in the enjoyment of excellent health

with kind regards

Your
M L

in another letter of same date we know that M B Bhargava stood in election with the support of Pathik is

(8)

Mool Chand Agarwal to B S Pathik

खादी आश्रम रीगस
(राजपूताना)
14-11-29

श्रीमान बिजयसिंह जी पथिक
अजमेर
माननीय महाशय

आपका अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र मिला मैं व्यक्ति रूप में आपके प्रस्ताव का

हासिक स्वागत करता हूँ। देशी राज्या में भी जड़ तक न मन में प्रयास का ह्रास नहीं होगा तब तक समस्त भारत में स्वराज ही लड़ा है लड़ा नहीं जाता जा सकता।

रहा समाज के लक्षण का प्रश्न तो यही लड़ा राज्य है जिस अर्थों में समाज की शक्ति के अनुसार लड़ी राज्या में राजनीतिक क्षेत्रों में सामूहिक रूप में भाग लेता लड़ा जा सकता है। अतएव इस प्रश्न को मार्क्सवादी रूप में समझना ही और भाग लेना ही लड़ा लक्ष्य प्राप्त है।

आपका

मूलक अक्षर

Shekhawati Movement

The whole Shekhawati was constituted under Jhunjhunu Nizamat Besides autonomus estates like Khetri and Sikar Kachh arabas Danta Ramgarh Khud Khadela Bisau Dundlod Nawa Igarh Mandawa Hirna Alisar Malsisar etc thikanas formed part of Shekhawati The position of the Kisans in these estates and Thikanas was very bad A tiller was at the mercy of the Jagirdar Like other parts of Rajasthan an agrarian movement started here also

In 1925 drawing inspiration from Arya Samaj the Sikar s Kisans organise their organisation against inequities under the organisation of Jat Panchayat which later on came to be known as Kisan Panchyat The leaders of the movement were Ch Gahsi Ram Har Lal Singh Net Ram Singh Tarkeswar Sharma Desh Raj Jagina and Ladu Ram Kisari is mentioned as a guiding sprit The three letters placed below are written by Ratan Singh and addressed to Joshi ji Perhaps the writer is Kunwar Ratan Singh of Bharatpur who was a Jat by caste and Joshi ji might be Ladhu Ram Joshi of Jhunjhunu who joined Pathik s Sangh According to these letters it is transpired that the trouble in Shekhawati was because of the Jat Rajput relationship The Rajputs were overlods and the Jats were peasants The another aspect is that there was rift between the leadership of the movement

(1)

Ratan Singh To Laduram Joshi

वनारस

15 5 35

श्री जोशी जी

हम लोग आज यहाँ पहुँचे विडला जी यही पर है आज शाम का हम यहाँ से चल देंगे मुबह कलकत्ता पहुँच जायेंगे कल आगरे में सबस मिले राव साहब आवागद में आघ घटा तक मेरी बातें सोकर के सम्बन्ध में हुई उह बहुत दुख हुआ

और उहान महाराजा भयया राना बहादुर कुशलपान सिंह राजा रामपाल सिंह महाराजा शहापुर राजा साहन शिवा महाराजा पद्मा बगरा सान जाट राजपूत महाराजा गण व नताअ का पत्र नियन का कहा है वह आज निप देंगे और जपुर द्वार मे सब मिनरर जार ग रेंगे कि वह जाटा के माथ याप कर जाट-राजपूत संधय की बचाये वह जापना बक्तय भी जाली पत्रा का भज दगे मुझ से सब हानान माग है मैं जल भेजू गा तब व वक्तव्य प्रम म देंगे अपा

अब आप का न ता खबर राज अनु त का है छोटी खबर है यदि याग खबरें न ह, तो थोडा थोडा करके उम दा तीन दिन म दें परन्तु ताता व न ह जिस गांव व ब्राह्मण व राजपूता स नमान हाथ पर बांधकर लिया है उन इन तरह दीजिय जाट व पश्चात ब्राह्मण राजपूता की वारी आगई मारकर लगान बमून किया गया इनके पश्चात बनिय का नम्बर धूमिमपलिटी पर आवगा-क्या अब भा अब जानिया जाय न छो रेंगा यह क्वाबत माफ सामन आ रहा है कि किसी किमान क मत म गने छे थ चार राजपूत ब्राह्मण बनिया व नाइ रास्ता जा रहे थ उहान गन्त नोइ निय किमान न मोवा चारा का एर साथ नही पीट सनू गा इगलिय एर एर का पीटन का डग गावा उमन ना का कटा कि तू गन्ते तोडन का क्या हक रखता था ब्राह्मण भरा गुन राजपूत जमीदार बनिया माहूकार तू नौन य बट्टरर उस हाथ बाध कर डाल दिया पीछे बनिय का निया तू क्या ध्याा छोड दना है जो मुफ्त म गना निया इत प्रकार उसन एर की तारीफ और डूमर की निला कर धीर धार चारा का पीटा और गने छोन निय यही बात सोवर म आज अग्र ज शामक कर रहे है दा प्रसार य खबरें राजिये खबरें छागी छानी हा एसा अनु न बाल बहने है ।

तारीख 26 का जजमर भरवाडा व गावा म मोकर त्विम अच्छी तरह मनान जी तयारी करान्य अगर तारीख 26 का शामका गावा क आस पाग क जाट जमर जा सकें और कुछ अजमर की जनता हा और कान मण् का जतूत जार जार म निकाला जा नर तो बडा अच्छा हो मखपूर साहब व सबकी मदायता ल ननी चाहिय

तारीख 19 का जाट किमी गाव म आ रहे हैं उनस वारें करन का प्रबध करके यही दिया जय कि व हजार पाचसी की तागान म जयपुर म द्वारि वार्स प्रमीट्ट और यग की काठिया पर पनें और अपनी जाच की माग करें सबकी बदन जाच का माग हा और उदमार का हाल बह न गुनें ता पड रहे खबरारें

नहीं दो चार दिन में मुझमें ही—यह बात मबन ठीक माना है विशेष कोई सूचना हो तो वही सर छाजुराम जी 12 चितरजन एबयू कलकत्ता के पत्र पर पत्र दें

देशराज ताडम्बर दत्ती में 1000 रुपये मोकर के जाटा के नाम ले आय हैं जाट पचायत की आर स पता में लिखा है कि उह एब पसा नहीं मित्रा है य आदमी अपन आप रुपया ला रे है हमारी तरफ स कु रतन सिंह ह

सरपंच मीकर जाट पचायत की तरफ स निकलवा दीजिय कि हमार नाम में कोई सज्जन दान दें ता वह कवल कुचर रतन सिंह जी का हैं दूमरे रागा का हम स कोई सम्बन्ध नहीं है देशराज जो न जो रुपया द्दनी या कदमत्तें में लिखा है उह नहीं भेजा है दानदाता उह पत्र लिख कर हमारा बह धन भिजवान को लिख दें

विशय बुझत

आपका
रतन सिंह

(2)

Ratan Singh To Ladaram Joshi

कलकत्ता
17 5 35

श्री पंडित ता नमस्त

वनारम का पत्र मिला हागा यहा जहा वही भा मित्र सबन बीच का मोग हा थो प्ठ बतलाया है । जल्दबाजी स सब काम धिगहन की आशका करत हैं यहा क पत्रा में काफी जागलन शुरू हा गया है तारीख 19 को सावजनिक मभा हागी उसमें हम सब हाज भुनायमें विडला जी न 1000, लिया है गुप्त लिया न नाम प्रकट करन स इन्कार कर लिया है । और अपन नाम स दिया भी नहीं है । वह रुपया वहां के पीडिता क लिए दिया ह । यहा स रिजिफ मामास्टी भी मोकर महायता करन का लिखा पनी कर री ह यन्ति उहानें महायता वहां न देन ली ता अत्रमेर ब द्दना में रिजिफ वमत्ता खान्धर महायता काय करमें आप देवनी क पत्रो का चप न रहन दें मखपूर माह्व इनना रहत थ जब एक चयान भा कून सम्बन्धी वत्तयार कर अत्रे नी अत्रवार। म त भिजवा पर जा आदमी सर हैं या गटे मय ह उनको पूगे निम्न स्थर विम्बमिष व लाइफान में आनी चाहिय चौधगी छाजुराम जी

को शिमला का जवाब मिला इसका नताजा भी आना चाहिये। बड़ा काम यही है कि तारीख 19 को ये लाग इन बात का पूरा भ्रमघ्न कर दें कि लाग तारीख 26 27 या 28 को कभी भी जयपुर में काफी सख्या में आ जावें और अपने दुखा को रखकर जाँच की माग करें जब तक जाँच का हुकम न हो तब तक बराबर निर्भीक हा उठे रहें यदि म जयपुर में पीटें जाय तो घमरावें नहीं इस पीटने पर आपका और जयपुर निवासियों का जा कतव्य है उसका आप प्रबन्ध कर दें मैं यह यत्न कर रहा हूँ कि तारीख 21 तक यहा से चल दूंगा जरूरत हुई तो पंडित जी का महा छोड़ूंगा वह पीछे आयेंगे लोगो को सहानुभूति काफी है। आप बम्बई अगर किसी को लिख सकें ता लिख दें कि वह सिवाय सीकर जाट पचायत और कुंवर रतन सिंह के किसी का रुपया न दें। शायद व लोग उधर भी गये हा यहाँ से ता हमार कारण चल दिये मालूम हाने है। ऐसा समाचार कि सीकर जाट पचायत जाट महा सभा क अतिरिक्त सीकर के नाम पर किसी को न धन दें हमार नाम से अय लाग भी चंदा करने लग हैं धन सम्बन्धी हमार विश्वास केवल कुंवर रतन सिंह जी में हैं सब लाग नाट कर दें एसी सूचना दहना बम्बई के पत्रा में निकल जानी चाहिये अथवा वे बम्बई से रुपया लायेंगे।

जाट मखपूर साहब के पास जान हाँगे आप देखते रह कि वह कोई गदती न कर बठें विशेष शुभ

Post Script

आपका

रतन सिंह

आप पत्रा में पचायत की आर से दा तिन तक छपवाइये कि ताराख 26 का न भूलें साकर गालीकाण्ड पर काल झण्डा का जलूम निकानो यह नव युग अजु न मव म दें।

(3)

Ratan Singh To Laduram Joshi

बम्बई

8 6 35

आ युन तागो जी

नमस्त !

यह प्रसन्नता है कि व्यास जी अजमेर आ गये आज वहाँ का समाचार देख भारी दुःख हुआ। उपाध्याय जी की हर समय बाट देख रहा हूँ। वस सब ठीक

है। पता अधिक क्या कुछ भी मिलन की भी आशा कम है। अधिवेशन का अभी तक निश्चय नहीं हो पाया कि कहा रखें मैं तो अजमेर ही चाहता हूँ मैं कह आया था फिर भी देखिय कोई मखपूर साहब के पास नहीं गया और वह सूचना तार की न आई न आती एमा निणय हा जाता कोई हज नहीं परन्तु किमी को उनसे मिल ता लेना था सबसे ही जा काम म सहायता मिल सकें ले लेनी चाहिये। दिनकर राव क आन स बम्बई सेंटिनल मे सब प्रकाशित हा हौनिमैन साहब ने सम्पादकीय निया है—भर लिए यह वह समय है कि मैं शत्रुता बढान के स्थान म मित्रता बढाने का यत्न कर रहा हूँ मीकर का काम ठीक हान पर इम पत्रिक के गन्द काम की तफ मैं निगाह भी न डालू गा जहाँ देश के दुभाग्य य स नता एक नही पाय जाते विशेष क्या लिखू शीघ्र लौटन का यत्न कर रहा हूँ यदि मैं न आ सका ता भजनलालजी यदि ता 11 की मीटीग म दहली जा सकें तो उह व्ययादि दे भज देना चाहिये नाकि वहा अधिवेशन का ठीक निणय हो सकें।

विशेष क्या ?

आपका
रतनसिंह

All India States Peoples Conference -Indian States

The policy adopted by the leaders of the Indian National Congress towards Indian states and their people has passed through various stages. The Congress attitude towards State's People's aspirations was sympathetic and helpful yet guided by calculated caution which the leaders could follow with the Congress gradually gaining strength and importance in the political scene of India. This attitude of the Congress towards the States and their people could be seen in three different phases. The first phase which goes up to 1919 A D is clearly marked with Congress's indifferent attitude towards the States People. The second phase from 1920 A D to 1937 A D showed the limited interest of the Congress in the affairs of the states and this was followed by the third and final phase between 1938 A D to 1947 A D when an attitude of total identification with the rising aspirations of the State's People merged. This resulted in the two organizations working with close co-operation Congress in British provinces and All India states People's Conference active in the Indian States respectively. Their combined power not only compelled the British to free India but also resulted in the establishment of a united India with a strong central Government.

Bijai Singh Pathik became the Vice-Chairman of Indian States Peoples Conference. He was incharge of Publicity Division of A I S P C. These records reflect his working conditions of Indian States and Round table conference etc. Over all the view of strong and united India is supreme in these records. The birth of A I S P C is due to amalgamation of two conferences. Bijai Singh Pathik had played an important role in it.

B S Pathik wrote a book on Indian States and through which he enlightened the elites of Britain U S A etc about the miserable conditions of the Indian States People. However this book forms the scope of a separate volume because this book attracted the attention of the friends of India and Indians who were fighting for Indian Independence basing themselves abroad.

(1)

B S Pathik to Abhyankar

Rajasthan Sevasangh

Ajmer

May 29 1928

Dear Mr Abhyankar

You know I have expressed my views on the merits of the question of preparing a constitution for the states in the executive meeting After the resolution was passed¹ I have considered the question very seriously and am convinced that it is totally unnecessary to frame any constitution at present In fact until the administration of states becomes representative and responsible and their citizens are granted the liberty of speech press and association to the extent enjoyed in British India no support can be given to any demand of the princes for any special facilities freedom or advantages and no constitution can be considered The hotbeds of autocracy that the states are the idea of their federation with British India is similar to the expectation of establishing a national government at the hands of people who regard music before mosques and cow killing alone of the subsequence boaniam of all religions It may be that at some time a federation of distant states with varying forms of government was possible but even then the people of each such unit had the inherent right to revolt If the member of the federation did not interfere into the internal administration of one another they also did not help their government against their people And the present day commerce and scientific means of communication have made mutual association of all states Too close to keep even the remotest of them untoune from outside influences It is therefore an essential condition for quality of status of states to day to introduce the most uptodate reforms in its administration All nations have to maintain advanced constitution of a more or less uniform nature and grant similar rights of citizenship Failure to fulfill these conditions had subjected Turkey China and even France to a long humiliation of conceding special privileges to foreigners As regard the Indian states they

are the integral part of the India and hence a constant source of influence upon British India under these circumstances and so long as the states do not reform their administration on modern and representative lines all their demands in the matter of their future political status and constitution etc should not only be excluded from all considerations but should be vigorously opposed by the people

Moreover I think even the British Government will be committing a blunder if it considered any such demand of the Princes before seeing that the latter have introduced reforms referred to for in that case it will become unavoidable for people of Indian states to make common cause with the people of British India against the British government

I hope you agree with my views and if other member of the sub committee also agree you will please inform all of them of the postponment sine die of the question of framing constitution so that they might be free to apply themselves to more useful work

Hoping to hear soon from you

Yours sincerely
B S Pathik

(2)

B S Pathik to Thakkar Baba (A V Thakkar)

From B S Pathik

1st June 1928

My dear Mr Thakkar

I am glad to receive your letter of the 29th May I still believe that only vigorous work in the country on the lines suggested in my statement before the committee for at least three months can produce a state of affairs which would make our deputation to England effective or useful But when I saw that friends insisted on their proposals alone and preferred to ignore all works unless these proposals were agreed upon I had to adopt a compromising attitude as a practical man The one thing to be plain that pained me the most was that friends seemed to think more of their personalities than the need of the hour and the duty entrusted thereby

There is no doubt nobody was opposit to work in the country for the country all appeared to recognise its importance But the question is that nobody was prepared to give it precedence over his preoccupations And may I enquire how will the deputation convince the British public of the soundness of their cause unless they have got documents literature and other material to substantiat their representation particularly in view of the fact that ours is an organisation nascent and not very representative and well known

There was no question of conversion what persuaded us to adopt the attitude of compromise was the two considerations viz that the energies of those of us who were not willing or prepared to devote themselves any work here will be utilised in some beneficial directions by joining the deputations and that we should give free scope to those who differed from us

As regards the personalls of the deputation I am not much concerned It is primarily for those to decide who have proposed the idea Besides it will be necessary to think seriously of the personalls when the required equipments has been secured Personally I have made my postion clear and I authorise you to affix my signature on any circular you might use keeping that position in view After the idea has materialised I shall whole heartedly support the deputation

A word about your remark regarding *action and talk* In my opinion it applies more to other quarters than to ours On our part we have been doing our bit ever since we realised the importance of the Conference work at considerable sacrifice of our Provincial engagements I may assure you that mere talk has always been nonsense to us and if our action in this particular respect has not been very fruitful I am sorry to admit that it is because friends have not given the co-operation that they ought to have given

With best regards

I am yours sincerely
B S Pathik

(3)

B S Pathik to Mr Mathur

The All India States Peoples Conference

Ajmer 14th June 1928

My Dear Mathur

Very glad to receive your letter of the 5th instant which was delivered to me on the 11th

I did not receive your letter about the committee I learnt of the appointment of the committee referred by you from Mr Manishankar Trivedi our residential secretary in Bombay Later I met two of your committee members namely Mr Ranghavevra Rao and Mr U R Naik who fortunately happened to be there in the executive committee We all discussed the situation and their suggestions and passed a resolution unanimously declaring there by both the conferences amalgamated under the title of the All India states Peoples conference and left all other things to be decided by the next joint meeting of the amalgamated executive The sense of the house as I inferred from the talks and circumstances was that in future both the executives should form and meet as a joint committee of one organisation In the same way the future session should also be a joint one and in a manner that will have no feelings of separatism I think this was and is also necessary in the interest of the country as a whole that we may rejoice in thinking and acting more as the members of one strong united body than of two mutually weakening each other But I fear and am also a bit surprised that you have not seen the resolution referred above despite its so wide publicity

However in these circumstances I think it will do if I quote some of the observations from my note book which I had written some times ago as my suggestions to make the amalgamation a success they run as follows -

- 1 Mr Mathur should be elected joint secretary
- 2 The finances and archives of the Madras Conference should

be handed over to the Bombay office in the next joint session of the two amalgamated executives

- 3 Till then Mr Mathur may spent and manage the finances of the Madras Conference on his own responsibility and should have it approved from the committee
- 4 Nothing should be done that will adversely effect any thing done or declared by any of the conferences and committees In other words till next meeting only points of agreement should be takenup and passed publicly
- 5 In the next meeting (Joint) General Programme and Policy may be rediscussed and decided by majority or unanimously as possible and then be followed unitedly and vigorously
- 6 The presidents either both of them may resign and some other elected instead or one must absent himself voluntarily when the other is attending the sitting of the Executive or both
- 7 The Madras provincial office should submit a scheme of provincial work before the committee and it should be approved and considered sympathetically giving it sufficient share in the Madras finances

As far as the question of future session it is between you and myself and therefore it can be decided by us after we have discussed it

As far the scheme adopted by your Conference personally I will suggest that it should not be pressed in the joint committee meeting for acceptance No doubt we all agree that our goal is a federation of Indian states and provinces on the basis of equality But a federation is a right of only the free people Slave states or people can not make a federation of self governing political units Nor a federation established with the help of the third Imperialist power is going to succeed Besides it is not only risky but injurious to our interest to put forward any detailed scheme before we have reached the stage of forming a federation It will divert

the attention of our people from the issue and they will begin in fact they have begun to think more of scheme and scheming than or doing real work of striking iron when it is hot I therefore having all these things in view am of opinion that in our prime organisations we should content ourselves by merely declaring that our goal is a real federation in true family spirit but we can consider and support any scheme of our princes for more rights and privileges only when the administration of our states and the share in it of their people has become real and equal to British India at least This will also save us from exposing opinions on many things which may be necessary in preparing a practical constitution but may be otherwise inopportune at this critical juncture

These are in short my suggestions I am sending a copy of this to the Bombay Office for being circulated among our members and hope you will also do the same and get your people consented to some practical terms

In the end I wish I would find words to express the joy I am enjoying when I feel that we are the soldiers of one and the same army that now we shall march shoulder to shoulder under one banner with the passionate desire for freedom and emancipation and God willing shall push through

Sincerely yours
B S Pathik
Vice Chairman

(4)

B S Pathik to the Editors of different News Papers—
A Press note

Ajmer 3rd May 1928

Dear Sir

After the illuminating and brilliant press note issued by that farsighted statesman Pt Moti Lal Nehru it does not require very much to say to what extent the activities of the Butler committee and the princes are inimical to the interests of the country as a whole Now practically all the leaders of the first rank have

begun to feel for a vigorous press campaign to combat this invidious move this menace So I will request you to reserve some space in your esteemed journal for this purpose

Though I will be trying to see that you are supplied with all the necessary material in the form of press notes and commniqués to find publicity in that space yet I feel that some remarks now and then from you will give impetus to this propaganda Bearing this in mind I trust you will not fail to write now and then in this connection

Thanking you in anticipation for the publicity you will give to our comminiqués etc

I remain
Yours Sincerely
B S Pathik

(5)

The Butler Committee and Indian Press

5 7 1928

(From publicity and information Bureau AISP Conference)

A gentleman from London writing to the Editor of Forward (Calcutta) says

There are indications which seem to confirm my previous prediction about the role which the Butler Commission is going to play in the coming political struggle in India The fact that a certain commission under presidency of Sir H Butler to recommend the basis of future relations between the crown and the native states was alarmingly significant and it was pandit Moti Lal Nehru who drew the attention of the public to this in a speech which he made at the Essex Hall The matter was no doubt noted in some subeditorial columns of the Indian Press but very little attention was really given to the whole matter It is most surprising that this matter is not receiving serious attention from Indian politicians for the Butler Commission is nothing but an instrument to force another or fortification for

British rule in India It is only human that Indian princes living in autocracy and depending for their existence on British rule will well-come all measures that will fortify them eternally in their strongholds First sign of democracy for favour of Publicity in the states for many of the princes mean the end of their present ideal careers

Any comment on this is superfluous But may I expect that our press will now realise the necessity of paying more attention to the problems of the Indian states

For favour of Publicity

B S Pathik
Vice Chairman
A I S P C

(6)

A synopsis of the Editorials on the scheme of Sir Leslie Scott which the princes intend submittings to the Butler Committee

Swarajya Its success if it succeeds would be brouht with incalculable mischief to the political future of the country It has always been the policy of our political rulers to makeup for a concession here with an exaction there As a set off against Indianisation in the administrative departments of British India these has been a late a too excessive Europinisation in the Government of the states To allow the states to have direct dealing with Crown would only cut off their link with Indian Nationalism and set them a drift in current of reactionism it is the business both of the Indian people and the subject of the states to prevent this catastrophe (May 12, 1928)

Indian Daily Mail Two schemes exhibit the some pre mature zest for constitution making as has been shown on British Indian side That the constitution of the British India and the states can not be treated as being in water tight compart ments (22 5 28)

Bombay Chronicle It betrays an unjustifiable distrust in the competence and impartiality of their fellow country men

There is little or nothing expressly safeguarding the rights of the people of the states. It is a mistake to think that the Indian states and British India occupy different positions. Their objectives are the same and unless both proceed hand in hand they can not achieve their common welfare. This identity of interests needs to be recognised both by the princes and the people of India (23 5 28)

Swarajya That the princes should think of fighting their battle on British soil is calculated to undo the effect of recent Indian Nationalist activities. The princes by themselves do not constitute the states, the subjects form no less vital and important part. In alliance with their subjects the rulers of Indian states can expect for their demands a compelling respect and certain weight and authority (21 5 28)

Forward Pandit Moti Lal Nehru has rightly emphasised that the future of the people of British India and the Indian states are interdependent. The underlying objective behind the appointment of a separate committee is no doubt to create a barrier between the people of British India and the people of the Indian States. Panditji has rightly contended that in any scheme of Responsible Government for British India which might be advised there must be four essential parties namely the British Government, the people of British India, the Indian Princes and the people of Indian states (24 5 28)

Civil counsel specialise in the display of tempting prospects. It is a pity they (the princes) should thus be led away into a fool's paradise. There can be no security for the princes except on the goodwill and suffrage of their own subjects.

Amrit Bazar Patrika A class of mischiefmongers in Britain have been constantly at work to create bad blood between British India and the Indian States. Their anxiety for securing to the princes their rank and dignity and freedom is not sincere. Their (princes) demand to be dealt with directly by the crown will never be acquiesced by the Indian people who are out to win

liberty for the country Because that means good bye to the Indian claim for full responsible Government even of the dominion type The British Government taking advantage of this demand of the princes will retain the control of the army the Military and some other important departments in their own hands And liberty or Home rule for a nation with the power over army and police in foreign hands is a thing which has as much reality of a square circle

May 28

(B S Pathik was Vice President of A I S P C and incharge of Publicity Bureau)

(7)

B S Pathik to Yagnik

6-7-28

Dear Mr Yagnik

Many thanks for your letter of 30th ultimo and the sentiments contained there in I shall await with eagerness your detailed answers

I shall also like to know whether there are any chances of organising the Masses and whether some wealthy people will be prepared to help if some workers were secured to do the task At present it has been thought essential that some literature should be prepared and published on Indian states and thus the people in the country and England will be enlightened and made aware of the realities

Accordingly the work has been commenced But we are handicapped due to the financial difficulties Therefore we shall feel obliged if you could collect some funds for the publicity department or arrange to have it collected by our men who can come your bidding as soon as possible

Thanking you in anticipation

Yours
B S Pathik

(8)

Surat Singh to Miss A Hodson
HINDUSTAN GADAR PARTY

5 Wood Street
San Francisco
California U S A
Dec 6 1928

Dear Miss Hodson

Your book the *Indian States* by Mr Pathik reached our library a few days ago It is very interesting reading in so far as it tries to expose the actual condition now prevailing in the native states However Mr Pathik does not very much project himself into the future of these innumerable states which form a stumbling block in the way of Indian national unity both territorial and political This does not mean that the book is not valuable in other respects we think that it is successful attempt to bring the question of the native states and their rulers before the Indian public when that thing is most needed

We thank you very much for your gift We shall be glad to review the book and shall send you the two copies of that review after ten days

Yours Sincerely
Surat Singh

(This letter was received by Pathik on 24 4 29 Miss Hodson writes on it I have not yet had the review I am writing him this week regarding same Will you also write to him tell him you hope latter on to get out an improved edition Thanks him for valuable criticism He is a niceman and may help)

(9)

Press note issued by Mr Pathik on the
Indian States and rulers

THE ALL INDIA STATES PEOPLES CONFERENCE
(Publicity and information Bureau)

Dear Sir

Ajmer 21st Aug 28

At a time when the Indian Princes are making vigorous attempts to have their status rights and privileges determined behind the back of their people when they are making certain

demands are clamouring for equality of status with the Government of India and are thinking of establishing direct relations with the British Crown and when they with their henchmen are squandering many right and left in subsidising the press in England as well as in India and are carrying on their propaganda in favour of their claims and measures it becomes imperative for every son of India interested in the emancipation of his country from the Yoke of British Imperialism to inquire into the credentials of the princes for their demands. It becomes necessary to inquire how they are ruling their own people? what are the conditions of theirs? what are their (princes) present demands? whether or not they are conducive to the best interest of India as a whole

Now the book which I am sending to you is an humble attempt in these directions. Questions like the above have been raised and discussed in it. How there in most of the states exists gross misrule and mal administration and how British Government not only conives but encourages them have been exposed on authoritative documentary evidence in chaps 1 to 16. The vexed question whether the princes are constitutionally in alliance with the British crown or with the Government of India is discussed in the chap 22. It has been shown there in that the claim of the princes that they are in alliance with the crown is based on flimsy grounds. Neither treaties nor subsequent historical unfoldment can warrant it. Finally in the chap 23 rd scheme as framed by Sir Leslie Scott has been examined. It is shown that it is not only against the interest of the princes themselves but also against the interest of India as a whole. It is more trap to entice the princes. It is a part of the wide skilful movement meant to perpetrate the grip of British domination over India. In short I have tried in the book to present the real conditions of the Indian states and peoples as impartially and dis-interestedly as possible and also to ventilate the opinion of the people on what the princes and the Government are doing.

But as the question of Indian states has now come to acquire unprecedented importance in view of its far reaching

effects on the destiny of this country and as the people of this country as well as of England will be very shortly called upon to give their final verdict over this matter it is quite natural that they want to know what the opinions of their spokesmen and leaders are Therefore I shall feel highly obliged if you will kindly go through the book and favour me with your opinion on the question of Indian states in the light of facts and observations brought to your notice by the book

Sincerely yours

B S Pathik

(10)

B S Pathik to Ernest Bairstow

20 2 29

My dear Comrade

I wish this letter could convey to you my sincerest thanks for the good wishes you have sent me through Miss Hodson

I am also grateful to you for the nice sentiments you have expressed in your letter to her about my book *what are Indian States* I hope the sentiment of responsibility and duty which the pathetic condition of our people and the exposure of the despotism done in your name in this country has awakened has not ended there and it has converted many others to his faith by the time this letter reaches your hands Perhaps it is the divine will that has presented this chance to enable Englishmen to prove that they are as much earnest for the principles of equity and justice for others as they are for themselves

I hope you will not forget to keep me regularly informed by sending your publications and writing occasionally of all your activities in this connection to enable me to have published the same in this country

With kindest regards

To
Ernest Bairstow
British Representative
Lalano guild ford Road
Farnhams Surrey England

Fraternally Yours
B S Pathik
Editor
Rajasthan Sandesh Ajmer

(11)

**Press note regarding Leslie Scott's Plan
on the Indian States**

For favour of Publication

What do our representative assemblies say

Herald June 2

Responsible Government our goal

Sir Leslie Scott's scheme is Mischievous and Perpetuates
princes slavery

Mysore May 31

The Mysore State Congress at its yesterday's sitting adopted
resolution urging responsible Government to be its goal

Mr Hossakappa Krishna who moved the resolution
condemned Sir Leslie Scott's scheme about Indian states as being
mischievous as it would perpetuate Indian states and princes
slavery

Other resolutions which were passed referred to the un-
reserved abolition of press law and prevention of cow slaughter

Kerala Political conference's resolution

Relation with Indian States

This conference is strongly of opinion runs the next
resolution that Indian states are an integral and indivisible part
of India and can not be politically or economically separate from
it. The conference is therefore of opinion that the constitution
of India must comprise the states. This Conference is further
of opinion that the present unlimited autocracy of Indian princes
is a standing menace both to the people of the states and of
British India and that the constitution of united India should
provide for a responsible government in the states

Further the president was authorised to communicate this
resolution to the All India Congress Committee and the All India
Conference

Movementous Resolutiou passed by Karnatak Conference
Chikmagalur, May 28

The fifth Karnatak political conference concluded yesterday 12 noon at Dharwar

Pandit Taranath moved a resolution urging Indian states rulers to give responsible Governments

Mr Hosakappa Krishna Rao Moved a resolution in an interesting and lengthy speech urging the All Parties/Conference to include Indian states in the Swaraj Constitution for India as Swaraj without the Indian states is unthinkable and unworkable His resolution was wormly debated in the subjects committee and in the open conference was unanimously adopted

With best regards

B S Pathik
Vice chairman
AISPC

(12)

Narvada Prasad Singh to B S Pathik

॥ श्री हरि ॥

विभव याग नहि राज मुख नहि स्वगृह मे काम ।

हिंदी हिंदु हिंद हिन बारों तन धन धाम ॥

न प्र सिंह

140 मुठ्ठीगज

प्रयाग

30-8-1928

श्रेष्ठय पब्लिकजी

देशी राज्या की प्रजा का ओर स आप तथा दा एक अय महानुभव बटलर कमटी के सामन सभबत गवाही देन के लिए जा रहे हैं

मध्यप्रदेश के राज्या म जो अत्याचार प्रजा पर होते हैं व वगनातीत हैं में स्वय (और यदि सभव हुआ तो एक अय सज्जन भी) बटलर कमटी के सामन

गवाही दन के लिए जाना चाहता हूँ इसलिए मुझ यह जानने की आवश्यकता है कि आप जा रहे हैं अथवा नहीं और यदि जा रहे हैं तो कब जहाज पर बैठेंगे इसका डेपुटेशन खच कहा मे दिया जायगा और क्या यह सभव हो सकता है कि उक्त डेपुटेशन मे हम दो व्यक्ति मध्यभारत से और बिठा लिय जायें हम लाग अपना व्ययभार स्वय उठा नेंगे

भवदीय

नमदा प्रसाद सिंह

(13)

B S Pathik to the Chamber of Princes

Rajasthan Sandesh Office

Ajmer 14th September 1929

The Chancellor

Chamber of Princes Patiala

Dear Sir

As I understand Mr Rushbrook William is the Foreign Secretary to the Patiala State he is responsible head of a responsible department and as such all the work that he does is probably done with the knowledge of the state So far as he has not resigned the said post the public may grant this It would be seen from the August issue of the number of Current History New York that he has written an article which he has attempted to say things that are far from being facts It apparently bears a propaganda colour and it would not at all be wrong to infer that there is some motive behind this May be he is deputed for the task and that he is doing it If this is allowed to go on far greater harm will be done to this land and the cause of the princes themselves Already irresponsible publicities have done this dirty work and it would not be quite fair if the princes are to lend their share in the task The states have a responsibility of their own and as such it would be better if some definite communique is issued on the point in order to clear doubt that are bound to gain ground in the public minds here as a consequence of this irresponsible propaganda I am anxiously awaiting

your reply which I hope you will not fail looking to the importance of the affair

Yours faithfully
Editor
(B S Pathik)

(14)

**Press note about Rushbrook William s
Propaganda on the States**

16th September 1929

Rajasthan Sandesh Office Ajmer

Mr B S Pathik Ex Vice Chairman of the Indian States Peoples Conference and editor Rajasthan Sandesh has issued the following to the Indian Press through Rajasthan Press Service

I think the pernicious propaganda carried on by Mr Rushbrook William Foreign Secretary Patials State the representative of the Chamber of Princes in America and other countries demands rather serious attention from our publice men and press especially in view of the harmful nature of things emanating there of I shall quote here only two paragraphs from one of the articles contributed to the August number of Current History New York to substantiat what I have said about In that article Mr Rushbrook William says

Each of the important states stands in a definite relation ship to British Crown which is regulated by a series of mutually binding treaties and engagements In their internal affairs the important states are autonomous possess their own laws and machinary their own police their terms and their own troops the states keep so quite and manage their own affairs so satis factory that they very rarely get into the newspapers

The way out of the difficulty would seen to be in the direction of federation The Indian states have no desire to cut themselves apart from the rest of India When once their peculiar

position has been recognise they will be prepared with these compromise and adjustments which will make possible the general control of federal matters by a government representatives of three parties involved—Britain British India and themselves But they are not prepared to indorse the desire of extreme Indian Nationalism for independence and for the government of the ties between Britain and India They know that if by some conceivable chance Britain were to depart from India the British India would be at the mercy of their armies But they also realise that the partition of the British India by the Indian states would be but a preliminary to a period of anarchy which would terminate only with the advent of some great power whether Eastern or Western

In the first part he exploits the indifference of our nationalist press towards the question of Indian states in order to show to the world that they rarely are mentioned in the press because they are far advanced and independent and or such need no such treatment

In the second paragraph he makes a mischievous suggestion that if Britain were to depart from India the British India will be shared by the states amongst themselves The statement would have been ignored had it come from an irresponsible Anglo Indian but as it comes from an authorised agent of the states I think it would be almost criminal let it pass unchallenged

In fact the people of British India as well as all Indian states have a right to demand and explanation from Princes and their Chamber as to whether the propagation of this sort is authorised by them and if they really entertain such intentions

(15)

**B S Pathik to to Editors of Various newspapers about
Rushbrook William s views on the States**

14th September 1929

Rajasthan Sandesh Office Ajmer

Dear Sir

From the August number of Current History Newyork you must have noticed that the lying propaganda has now found

its way even to countries out side England Probably it has done its work in England and to creat similar atmosphere all over the world it has gone naturally to America which is supposed to be most advanced country in the world English men have opinion to lose in so far as the Americans are concerned and as such they give great prominence in their doings with respect to the countries that are under their heels At present the question of Indian states is in the melting pot and as such they have been doing their best in order to creat opinion out side and bring every possible pressure to mould their problems in most advantageous fashion This task has been entrusted to Dr Rushbrook William the late editor of Indian Year Book but now in the employ (ment) of the Patiala State as the foreign secretary He has been paid fabulous sums for doing propoganda work and it goes without saying that he has done the work with a vengeance He is presently touring America and with all the wealth in his bulging pocket and with all the tilts that the tail end of his name drags behind him American Journalists fall easy victims to his coloured articles But it need not be granted that the colour is natural It is of course artificial with purposeful white washing In the recent article he has made bold to suggest that english rule in India is an unqualified boon to the country and that if their hand be withdrawn at any time the natural sequence should be that the dominion should be parted between the adjoining States Here in he has said many things with which we are familiar as they so often enumeate from any rabid Anglo Indian mentality But then keeping with the spirit of profession we owe a task to the public We should expose the falsehood here as well as try our best that the exposition find its way out side if possible even out side where poison breeds Thus letter particulary is addressed to you with a view that you would do your turn

Yours faithfully
B S Pathik
Editor

(16)

From Man Singh of Jogapura of Sirohi State to the
Prime Minister of Britain

To

The Prime Minister of British
White Hall London SW1 England

From

Maharaj Mansingh of Jogapura Sirohi State Rajputana
uncle and Fuedatory of His Highness the Maharao Sirohi
State in Rajputana India

Jogapura P O Erinpura Rajputana India
14th November 1929

May it Please your excellency

I your excellency s most obedient and humble servant beg
leav most respectfully and humbly to submit that I have read with
keenest interest the latest viceregal announcement in this country
and echoed in England I welcome it from the bottom of my
heart and take it of a sincere gesture of the labour government s
most sympathetic attitude towards this country

But I rather pained to see no reference to the Jagirdars
and feudataries of the Indian States in it and it is needless to
submit that this group form a most powerful political unity
within the states In fact this group can safely be termed as
the back bone in the structure of the Indian States Therefore
though the language of the announcement is ambiguous enough
to invite suspicion yet I am reluctant to think that the
government means really to ignore such a loyal and significant
political unit in a conference of such vital importance On the
Contrary I am incient to think that the phrase presentatives of
the Indian States covers every thing that is desirable but in case
it does not I deem it as my sincerest duty to farewarn (forworn) a
sympathetic government of the grave consequences and discontent
of the said unit with which the action is fraught Because I
realise that the government aim at pacifying but this commission
is sure to lead contrary consequences and hence this request

(17)

B S Pathik's statement-on Maharaja Bikaner's Statement on Round Table Conference

We strongly protest against the absence of any reference to the people of the Indian States both in the Viceroy's statement and in the reply given to it by the nationalist leaders. The interview given to the A P I by the Maharaja of Bikaner makes it abundantly clear that the representatives of States Peoples shall have no place in the proposed Round Table Conference. In the fact he considers it to be a sinequanon of the conference in which the Princes can take Part.

It is both regrettable and astonishing that the Seventy Million significant population of the Indian States has so unjustifiably been ignored not only by the powers that be but also by the Indian Leaders whom they have always and unhesitatingly backed in their struggle for freedom.

Now let it be made clear once for all that they are not going to take this insult lying down. From their point of view the Viceroy's statement is highly disappointing and totally unacceptable in this respect which the interpretation put on it by the Maharaja of Bikaner cannot be too strongly condemned. It would be nothing short of betrayal on the part of the British Indian Leaders if they co-operated in any scheme of settlement of India's future in which the representatives of the Indian States Peoples were not allowed to have any voice.

(18)

TO THE NATIONS OF THE WORLD

A Manifesto on behalf of the People of the States

The people of Indian States having been denied representation at the Round Table Conference they are obliged to place their views before the public both in India and outside. This manifesto is specially intended for the information of the people of Great Britain who in the last resort are responsible for a just

and equitable settlement with India including the Indian states It is hoped that it will attract the attention of people in all lands who realise that the Indian problem is a world problem and will help to secure the support of world opinion which is such a tremendous force in our time to the claim of the people of Indian States to have the present autocratic personal rule of the Princes brought under constitutional checks vested in representative institutions and exercised through responsible ministers The reason for issuing this manifesto at this juncture is that the adoption of a Federal system comprising British India and the States is imminent and that the entry of the States into Federation as they are will have the effect of stercotyping the present personal rule and fixing the yoke of autocracy more firmly than ever on the necks of States people The present type of Government in most of the States is vividly described by Mr P L Chudgar one of the Leaders of the States people's movement in his book on the Indian Princes under British Protection He says

Laws are issued in the form of orders decrees or firmans either by the Prince or by action taken under his instructions They have no broader foundation than the mere caprice of the ruling Prince In some States British Indian legislation is adopted with such modification as the Prince pleases but these so-called laws are in no way binding on the Prince He can repeal amend and suspend them at his will and pleasure and deprive any man of his liberty commit him to prison for an indefinite period and banish him from his birth place at will without reason charge or trial He can confiscate anybody's property withdraw cases pending in courts and pass such orders as he likes regardless of the law A subject can not sue the Prince or his officials in the Courts for breach of contract or infringement of their rights If an official however low commits a criminal offence in his private capacity and even if the act constituting the offence is not in any way connected with his duty as an official he cannot be prosecuted without the Chief's sanction Even if there is no definite law prohibi

ting public meetings the publication of newspapers or the forming of associations no public meeting even of a social nature can be held no paper can be started no association formed without the Chief's sanction previously obtained If these are held started or formed the police can at any time step in and interfere Against the police there is no remedy

That this picture is not by any means overdrawn is shown by the admonitions of successive Viceroys addressed to the Princes from time to time Speaking at the Chamber of Princes last March Lord Irwin told the Princes —

There must be a reign of law and order based either expressly or tacitly on the broad goodwill of the community Individual liberty and rights must be protected and the equality of all the members of the State before the law be recognised To secure this an efficiently organised police force must be maintained and a strong and competent judiciary secure from arbitrary interference by the Executive and irremovable so long as they do their duty Taxation should be light as circumstances permit easy of collection and certain and proportionate to the means of the tax payer to pay The personal expenditure of the ruler should be as moderate as will suffice to maintain his position and dignity so that as large a proportion as possible of the State revenues may be available for the development of the community such as communications education health and social services agriculture housing and other kindred matters There should be some effective means of ascertaining the needs and desires of the subjects and of keeping close touch between the Government and the Governed Religious toleration and conciliation in all disputes between the subjects are important and last but not the least is the need to choose and trust good counsellors By this perhaps more than ought else is a wise ruler Known and the fullness of his trust in competent advisers will in great part be the

measure of the confidence which his people repose in him

This passage from the Viceroy's address embodies substantially the demands of the States' people as expressed in their provincial and All India conferences. The only difference is that while Lord Irwin would leave it to the Princes themselves to accept or reject his wholesome advice the States' people want that his main suggestions should be carried out by the States as a preliminary to their admission to the Federation or in the alternative only such States should be admitted as have adopted them or are willing to adopt them without loss of time. The following list of minimum demands of the people of the States was adopted at the third Indian States People's Conference held in Bombay last month

(b) Without Prejudice to the above this Conference puts forward the following as the minimum demands of the people of the States without fulfilment of which all or any of the decisions arrived at the R T C will be unacceptable to them —

(1) Federal citizenship and fundamental rights for the people of the States to be embodied in the new constitution

(2) Federal judicial machinery to be provided in the constitution to protect the fundamental rights of the People of the States

(3) Direct representation of the people of States in Central Legislatures by the same system of election and power of voting as may prevail at the time for the people of British India

(4) The judiciary in the Indian States should be linked with the Federal Supreme Court

In conclusion we appeal to all concerned to come to the help of the 80 millions States' people who have been refused represen

tation at the Round Table Conference where their future is to be decided perhaps for centuries. The Princes can in no case be regarded as representing the interests of their people. The representatives from British India at the R T C have a special responsibility in this matter. They know the problem of the Indian States people at close quarters. For the sake of some power for themselves they will not we trust allow the interests of 80 millions of States people to be permanently sacrificed. They and the States people are kith and kin with a heritage of common culture and it is an anachronism that autocracy and democracy should be allowed to flourish side by side in the same country.

Date	Signature
	State

With a request to sign this Manifesto and return it to—The Secretary The Indian States People's Conference Princess Street Bombay

—
B V Press

(19)

Records made and Broken (at Round Table Conference)

London

9th January 1931

LENGTHY SPEECHES
RECORDS MADE AND BROKEN

The Round Table Conference has been marked by a series of Record Speeches

It may be remembered that the king opened the Conference with a speech which was later made into a gramophone record

Now Sir Tej Bahadur Sapru has made a record speech of another kind. It is officially reported that he made a speech which occupied a part of the morning and the whole of the afternoon sitting. Incidentally he broke his own previous record which he

set up in the first plenary session and which occasioned the cutting down of other delegates time to ten minutes

Sir Tej acted as he always does in the best tradition of the liberals Lord Reading may be known to you as the third most prominent and Sir John Simon His speech at the Round Table was only a little shorter than that of Sir Sapru It was described as having lasted part of the morning and most of the afternoon

The political fire of these modern Liberals is drawn from Mr Gladstone He once spoke for five hours without interruption and said I am almost afraid to look at the clock shamefully reminding me as it must how long I have trespassed on the time of the House with that apology he went on for several minutes more before he finished

The speeches of Sir Tej and Lord Reading have I believe been cabled to India It is not known whether they Like Gladstone were afraid to Look at the clock The speeches have been welcomed in the British Press especially in the Liberal section of the Press as definite Landmarks in Indian History But in India they would be known merely to have trespassed on the time of the Conference and of the nation

DISAGREEMENTS INSIDE THE CONGRESS

The long speech of Sir Tej was an appeal to British statesmanship to introduce Dyarchy into the Indian Central Government But the introduction of Dyarchy needed neither an appeal nor a speech British statesmanship is dying to introduce it for very good reasons

Mr Isaac Foot M P one of the British delegates to the Round Table spoke during this week as follows The extremist elements in India could yet be defeated but the defeat must come not from the British machine guns but from the responsible politicians among the Indians themselves By wise and timely con

cession British statesmanship might yet enable the Korenskys in India to crush the potential Lenins

It was expected in Britain that the progress made in the Round Table Conference would create a division in the Congress ranks. A large section of the Congress was looked forward to detach itself from the Organisation and declare in favour of working such concessions as might be obtained.

Sensational news of disagreements within the Congress were reported many times. It was published that acute dissensions had broken out in the Congress ranks in Bombay. One section of the Congress nicknamed Kingmakers was said to wield authority including the control of Congress funds, the nomination of successive War Councils and the management of volunteers corps. Another section was said to consist of members who had been discharged from prison but were denied the rights and privileges in the Congress *raj* which their stay at home rivals had monopolized.

One section accused the other of betrayal of the Congress cause and it was expected these differences were likely to manifest themselves openly.

Another graphic report described a hand-to-hand fight in the street on which Congress members took part on both sides.

These reports are now known to be false. They were inspired not by facts but by the unfulfilled wish of the Diehard press.

Next week there will be a declaration of policy by the Prime Minister. It remains to be seen whether that declaration will achieve what British statesmanship has so far failed to accomplish.

BRITISH LABOUR SUPPORTS INDIAN LABOUR

Meanwhile disappointment is expressed in Labour circles that the claims of Indian Labour have been ignored at the Round Table.

The sub-committee which dealt with Franchise has recommended to put only 25 per cent of the population on the electoral list

It is pointed out by Labourites that this will still leave the bulk of the labour force outside the list. Propertied classes will still have the power. Dissatisfied Labour may be driven to violent extremes. It will be safer to enfranchise it than to make it follow the lines of the Russian Revolution.

The fact that the Indian Labour delegate did not vote with the subcommittee but stood for adult suffrage is said to be significant. It is asked if in Ceylon there can be adult suffrage why not in India?

Tagore With Indian Students

The poet Rabindranath Tagore was given a social by the Round Table delegate. It was however at the Indian Students Central Association that the poet found himself in his elements.

One notices that age has told on him considerably since his last Western tour. He no longer holds himself erect with his towering height to distribute smiles—and autographs—to an admiring crowd. He is bent with years. He finds it a strain to keep standing and is eager to sit and rest. At the opening of the function at the Association it was announced that he had become a life-member of it as a mark of affection to the Indian students abroad.

The President of the Association said that Indians living in foreign countries have a special reason to be proud of him.

Where ever they went they were asked about Gandhi and Tagore. Other names might be very distinguished but to the general public outside India they were unknown. In foreign countries felt an inch taller at the mention of the two names. This in spite of the political position of India which would entitle them to feel nothing better than dust.

The poet was seated while he made his answer. He said that he was very glad to be with Indian students. He was not going to make any allusion to politics. He had just had his dinner and he disliked afterdinner speeches.

He then quoted a Sanskrit passage and said it meant that a man felt like a king after a meal. He had the same feeling but he would not make a speech.

For such speeches reminded him of certain animals kept by primitive peoples. The animals were groomed, decorated, fed and—killed. He personally would not be the animal. He refused to go through the counter part of killing, namely speechmaking. But he was in for a pleasant evening.

In such jovial words which showed he enjoyed young company he called for the next item of music. Among those who took part in that item were some who had been with him at Shan tiketan. But with none was he more pleased than the English lady who sang excellent Indian songs. He showed his appreciation by rolling his head during the song and vigorously clapping his hands at the end.

The function closed with dinning shouts of Vande Mata ram. Those words have never been shouted louder in London.

BLAME ON INDIAN NEWSPAPERS

Why is the British Raj an object of dislike to the Indian masses? This question was answered in London five years ago by a flat denial of the Government's unpopularity. Lord Birkenhead was the first to give a new turn to the answer. He said that the heart of the masses was sound but poisoned by the Indian press which he rather uncharitably described as the most illiterate press in the world.

From that time onwards it became usual for the English political circles to attribute all sorts of vices to the Indian Press and to

advocate counter measures by the Government The question was raised in the House of Commons this week

THE TIMES commenting said that the question was fundamental and everyone who knew anything of the Indian problem realised that the fatal lack of honest publicity was very near its root It had ceased to be true that the nationalist movement was limited to a small educated minority That minority had unquestionably succeeded during the last few years in rousing the masses and its success had been due very largely to a vernacular press of almost incredible violence and dishonesty With rare exceptions there was nothing to counteract the misrepresentation perversion and sheer invention all anti British and anti Government which poured from those newspapers

An English newspapers preaching this to India savours something of the humourous Anyone who has had intimate knowledge of Indian and English newspapers could not but come to the conclusion that the Indian Press is far superior in honesty impartiality and fair dealing No Indian paper could have misrepresented a political enemy as the English newspapers did in showing up Mahatma Gandhi as the villain

TO TELL INDIANS OF BRITISH BLESSINGS

It would have been in the fitness of things if the Indian Government could use its influence with the Government over here to check the deliberate and mischievous lies that appear in the British Press But it is going to be the other way The Secretary of State for India announced in Parliament that the Indian Government was considering the measures put forward by Professor Coatman Late Director of Public Information in India

The measures detailed by the ex Director are in the first place those Government servants whose official positions bring them into politics must really be in politics That is to say they must go into the rough and tumble of stumping the country explaining refuting getting support Members of the Executive

Council Central and Provincial British and Indian must act up to their true characters as Leaders of the Government Party

Secondly the question of broadcasting should be taken up energetically Sometime ago the ex-Director submitted a scheme for the establishment of a transmitting station for each linguistic area and the maintenance of loud speakers in the villages

Thirdly the Government Department should afford facilities to the Press for dissemination of news and views concerning them The Departments should withdraw new facilities and advertisements from offending papers

Lastly Press legislation should be introduced against the newspapers which offend the elementary canons of honest journalism The Posts and Telegraphs Act must be amended so as to make it possible for the Government to refuse to allow cheap postal rates to such newspapers

While the result of the Indian Government's consideration of these four measures was eagerly awaited there was yet another suggestion from a Conservative member of Parliament He asked the Secretary of State for India whether any efforts were being made through the Indian schools or otherwise to educate the Indians in the advantages that had accrued to India from the British Raj Mr Benn gave a reply in his (illegible)

MAKING THE SAFEGUARDS SAFE

The present and immediate anxiety of (illegible) only about keeping the Safeguards evolved at the last Round Table Conference intact Lord Zetland emphasised this in a meeting of the East India Association held at the Caxton Hall this week. He said that his agreement and the agreement of the Conservative delegation to the Round Table Conference to the scheme of Provincial autonomy and responsibility at Centre was dependent upon the reservations and safeguards being made effective

The Conservative Lord said that it was important to make that point clear because he had noticed a tendency on the part of Mr Gandhi and other members of the Congress to question the necessity of reservations to minimize the importance of safeguards and generally to display a certain lack of sincerity in their desire to come to any real agreement with the British. The constructive work already done at the Round Table Conference could not be blotted out merely in order to provide the Congress with a clean slate to write on. The Congress had every opportunity offered them to taking part in the Conference last autumn had they desired to do so. They declined the invitation and thereby showed themselves to be singularly lacking in political wisdom. If they wished now to repair the blunder which they had committed then by all means let them do it. But let it be clear that if they come into the Conference they came in where the Conference left off and not at a fresh beginning.

Lord Irwin tried in a long speech at the British Indian Union to calm the doubting voice of the Conservatives with the assurance that the Safeguards were safe he said when he read of fears that Mr Gandhi if he came to London would ask for complete abandonment of safeguards he was entitled to remind them of what Mr Gandhi formally accepted in the Agreement with him in respect to safeguards as the basis of further discussion at the Round Table Conference.

The Diehard anxiety over the Safeguards found expression also in the House of Commons. Mr Bracken a Conservative member of Parliament asked the Secretary of State for India (for the tenth time or so) whether His Majesty's Government would obtain from the Congress delegate to the R T C an assurance that he accepted the safeguards formulated at the first session of the Round Table Conference before he was invite to attend the forthcoming session or the Federal Structure Committee. Mr Benn pointed (for the tenth time) to paragraph 2 of the Irwin Gandhi Agreement and said he could not add anything.

GANDHI WILL HELP AND NOT DESTROY

Indeed the forthcoming visit of Mahatma Gandhi was considered by the Diehards as the chief danger to their beloved Safe guards It was no wonder therefore that they were attacking him Lord Zetland for instance said in the course of the speech mentioned above that while he had the greatest admiration for Mr Gandhi as a prophet he had no such opinion of his political ability

Mr Gandhi he said had committed one act of political folly for which history surely would never forgive him in that he had faught the people by nature law abiding to hold in contempt the sanctity of Law A man who had proved himself capable of one such blunder might easily prove capable of perpetrating another

The Mahatma was also the object of Mr Churchill attack in the 1900 Club which he addressed this week Mr Churchill said that two mistakes had been committed in the past namely the Dominion Status declaration and the Irwin Gandhi agreemant The third blunder was that Mr Gandhi was now elevated to a position of almost being chief plenipotentiary to deal with Great Britain What a monstrous disaster cried Mr Churchill Where are we going ? We are approaching a position where there will be a violent collision

In view of such speeches therefore the Rt Hon Srinivasa Shastri might be said to have done a service in the short talk he give at Caxton Hall He said that Mr Gandhi would come to the Conference with the resolve to help so far as he could and certainly not to destroy He had had opportunities of discussing the entire work of the Conference with Mr Gandhi and he was confirmed in the belief which he strongly held that when Mr Gandhi came to the Conference although he might desire many matters to be discussed again he would seek for the work of the Conference to be strengthened and placed beyond the hazards of the political situation in India

(20)

Bijai Singh Pathik's Statement before Mewar Court

भावी राजस्थान का रूप

यह प्रश्न अब दिनाग्नि देश के सम्मुख भी अधिकाधिक गम्भीर रूप में उपस्थित होता जाता है कि स्वतंत्र भारत में राजस्थान (राजस्थानिया) का पद क्या होगा ? इस बात पर शासक और शासित गवर्नमेंट और नरेश सभी विचार करते हैं । जब स्वराज्य का प्रश्न उठता है तभी देशी राज्या का नाम लिया जाता है । जब ब्रिटिश भारत में राजनतिक सुधार का प्रश्न उठता है तभी राज्या के सम्बन्ध का प्रश्न उठ खाना होता है । यह आवश्यक भी है कि यह प्रश्न शीघ्र हल हो और उमक अनुसार अभी से प्रयत्न आरम्भ हो जाय । नरेश मण्डल और ब्रिटिश भारत में अब तक इस सम्बन्ध में जो विचार प्रकट हुए हैं उनमें से अधिकांश मत जमनी की शक्ती के पक्ष में हैं । परन्तु उम में भी एक कठिनाई है नए ढंग के शासन सुधारों में खच बहतर बनना है और रियामते किसी भी दृष्टि से उसका सामना करने को प्रस्तुत नहीं है । व्यापार संरक्षण में भी वे असमर्थ हैं । यदि संरक्षण करें तो मित्र अप्रसन्न हो जाय न करें तो विदेशी उन्नत शिल्प कौशल के सामने उन के प्रयत्न निष्फल हो जाय । इसीलिए यह भी सम्मति दी जाती है कि छोटी रियासतों को बड़ी में मिला कुछ बड़े राज्यों बना दिये जाय जो उम व्यय भार का सहन कर सकें । किन्तु इस अवस्था में भी अनेक अपवाद हैं । प्रथम तो कोई छोटा से छोटा राज्य भी अपने स्वातंत्र्य का इस प्रकार खाने को तयार नहीं होगा और यदि उसे बाध्य किया गया तो वह सत्ता स्वतंत्र होने का प्रयत्न करता रहेगा एवं इस आपसी बमनस्य से राज्य वर्तमान समय की तरह कमजोर बन रहेंगे । उदाहरण के लिए घौलपुर राज्य में सरमयुरा और गवालियर में शिवपुर-बड़ौदा आदि राज्या को मिलान के परिणाम आखा के सामने है । हमारे जब वर्तमान व्यय शीतता के कारण इग्लण्ड जैसे लट निपुण साम्राज्या की ही दुदशा हो रही है तब इन पिछड़े हुये राजस्थान एसा कर के भी मुखी हो सकेंगे इस में सन्देह ही है । फिर मैं तो छोटे से छोट राज्यों और ठिकानों की भी स्वतंत्रता का नाश होना पसन्द नहीं करता । इसी अवस्था में राजस्थानों के लिए नवीन उन्नति शीलता का अनुकरण छोड़ कर अपनी पुरानी मन्धता के ही ऊंचे और सरल सिद्धान्तों का अनुगमन श्रयस्कर हो सकता है और मेरी कुछ बुद्धि के अनुसार उस का उपाय उपरोक्त बातों को दृष्टि में रखकर निम्न बातों को काय रूप देना हो सकता है —

१—ग्राम पंचायतों का पुनर्जीवन कर उन के द्वारा जुमों और दुगुणा की सख्या कम कराना ।

२—उही के द्वारा ग्राम के स्वास्थ्य रक्षण शिक्षण स्वच्छता और शान्त का प्रबन्ध कराना ।

३—ज्या २ जनता योग्य बनती जाय उस पर शासन प्रबन्ध का अधिकारिक दोष डालते जाना ।

४—पुरातन ढंग की धार्मिक और जातीय विद्वेष शून्य शिक्षा का प्रचार करना और इसके लिए योग्य शिक्षक एवं अधिकारी तयार करने की व्यवस्था करना ।

५—स्वयं अपने राज्य की बनी वस्तुओं का व्यवहार करना और अधिकारियां जागीरदार एवं जनता से कराना ।

६—इसी प्रकार जीवन के सब विभागों की आवश्यकतायें घटाना और सादगी बढ़ाना ।

७—कल-कारखाना और अन्य दरिद्रता या विलासिता बढाने वाली बाहर की वस्तुओं को रोक्ना और सरकारी लगान भरने कज चुकाने या दान के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में निसा भा प्रकार का कच्चा माल राज्य से बाहर न आने देना ।

८—ग्रामों में महयोग समितियां स्थापित कराना और उन के उत्तम (Efficient) संचालन की व्यवस्था व निरीक्षण ।

९—अपने धर्म की अपेक्षा कृषि को उत्तेजन एवं सम्मान देना ।

१०—इस व्यवस्था की वाय रूप देने में विशेष योग्यता दिखलाने वाले और अधिक दायित्व देने वाले ग्राम ताल्लुका जिला और प्रांतों तथा उनके हाकिमों को छूट (लगान में बर्गी) एवं तरबकी देने का नियम करना ।

और भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है किन्तु जज महादय स्वयं विद्वान हैं और इसलिए वे जो कुछ भी इस प्रकरण में और इस के उपर कह चुका है उस ही से मेरे आशय को समझ सकते हैं । अस्तु । मेरा आदर्श वही सफल हो सकता है तो वह राजस्थान में ही । क्या कि यहा राजा और प्रजा दान भारतीय हैं दोनों में भारत के प्राचीन आदर्श के विचार—यद्यपि वाय रूप में उनका अभाव

हैं-किसी अश म वतमान है और उनका विनास वहा सरलता से हो सस्ता है । साथ ही एक यद्वा मार्ग है जिससे राजस्थानी प्रत्येक भय से निभय हा सकते हैं । अथवा पथ ग्रहण करने स उह निश्चय ही उन सब सामाजिन और राजनतिक श्रातिया म स गुतरा पडेगा जिन म से अय देश गुजर रहे हैं और जिन का ससार के उल्लिखित आर्श पर पडैचन तक जारी रहना अनिवाय ह ।

यह सब विचार है जिन्हान मरा उद्देश्य राजस्थान सबा बनाया । इस उद्देश्य की पूर्ति क लिए राजस्थानीया क महयोग की आवश्यकता थी और उसके लिए मैंने प्रयत्न किया किन्तु मफरता नही मिली । कारण कई थ जिन मे से कुछ का वणन ऊपर आ चुका है । इस पर मैंने पहन कुछ काय करके उसकी उपयोगिता प्रमाणित करन और फिर सहयाग के लिए प्रयत्न करना निश्चय किया । शक्ति और साधना क अभाव के कारण सारी आवश्यक बाता को एक दम काय रूप देना असम्भव था फिर भी मरी और राजस्थान सेवासघ की सलाह के अनुसार जितना काम ठीक ठीक हुआ है उस पर और उस के पत्र पर द्रष्टि डालने स उस की हमारे उद्देश्य स वनानिकता भली भानि प्रमाणित हो जाती है ।

(21)

Publicity Committee formed to give authentic accounts about Indian States

An adhoc publicity Committee has been organised under the auspices of the All India States People's Conference organisation Department with Mr B S Pathik as its President The Committee will supply the press with authorised and authenticated accounts about the administration of Indian States and activities of the Indian Princess and the Buttler Committee in this country as well as in England

The Committee appeals to all the British Indian Newspapers to cooperate and help it in discharging its arduous duties

(22)

CONGRESS AND THE NATIVE STATES

Vallabh Bhai Patel Chairman Kathiawar Political Conference on Congress and Native States

श्रीमत् वल्लभ भाई पटेल का कथन

काठियावाड की राजनीतिक परिपद व अध्यक्ष की हैमिमन ने धायुन पटन न जो भाषण दिया उसने कुछ जश ठम नीचे देत है -

कांग्रेस और देशी राज्यें

राष्ट्रीय महासभा का ध्यय इस समन्त भारत का मन्सघ बनान का रहा है एमी लिय उमन इस समय देशी राज्या को भी साथ लिया है। पर इस समय इन उन्नेश्य का पूरा हाना जहा वृटिश भारत के नेताआ पर निभर करत है बहा दमना अधिक आघार देशी शासक जीर उनकी प्रजा है। देशा राज्या की प्रजा की भलाद का प्रश्न राष्ट्रीय महा सभा का हाय म लना चाहिय ऐसा रज्या की चर्चा महासभा म घरेलू बात चीत की तरह ही होनी चाहिय। देशी राज्या व राजाआ जीर प्रजा म कितना भी भेद क्या न हो पर राजाआ का कतवय प्रजा का हित करना ही है। यदि कांग्रेस देशी राज्या की समस्या हल कर लेगी तो मुझे विश्वास है कि वहा की प्रजा देश की भलाई मे अपना कतव्य पानन म पीछे नहीं रहेगी प्रजा म दग भक्ति व भाव पर कर चुक है पर मुझे बडा दु ख है कि राजाआ न इन भावा व बटान म कुछ भी भाग नहीं लिया है। मुझे विश्वास है कि कुछ एम देश भक्त शासन हैं जो समय पडन पर देश के लिय सवस्व योछावर करन म पीछे नहीं रहेंगे। यह स्पष्ट है कि देशा राज्य तिन पर तिन पराधिन होने जात है और उह याद नहीं रहा कि कुछ ही समय पन्ने ये नितने शक्तिशाली थ। मिवाय दो एम व काई भी गाय अपने वा आत्म बतान का यत्न नहीं करत शासन की समजायिया हा इह पराजित बनाना है। इनक दूर करने का उद्योग हाना ही चाहिय एव राजा प्रजा म उल्पन दुआ इ धा भाव दूर किया ही जाना चाहिय। शासन का मन शक्तिर बनान व लिय मनाधिनार विभन होना चाहिय।

राजाओं का कतव्य (Rulers duty)

भारत के लाग इस समय बेवन स्वराज्य चाहत है। यह कां मुकम काम नहीं है प्रथम भारतीय चाहे वह राजा हा या रयन एम कतवय स बध गया है।

और वह स्वराज्य प्राप्ति के लिये जा कुछ भी कर सकता है करें। उसी मातृभूमि की सन्तान होने में राजाशा का कर्तव्य है कि वे अपने भाइया को स्वराज्य प्राप्ति में यथाशक्ति निमग्न हो महायत्न दें। सभी राजाओं को चाहिए कि पिछले इतिहास का देखकर देश के उद्वार के लिये आगे बढ़ें। यदि भारत स्वराज्य प्राप्त करेगा तो वह लागू के प्रति ही उत्तरदायी होगा इंग्लण्ड के प्रांत नहीं। चेम्बर आफ प्रिंस (नरेंद्र मण्डन) की याचना कुछ भी अर्थ नहीं रखती। सत्तार में इस जैसी शायद ही कोई दूसरी मस्यौदा मिले।

बेगार (Forced Labour)

काठियावाड़ की बेगार के अत्याचारों का सुन कर आमू वही बिना नहीं रह सकते। किसी भी श्रेणी के लोग इस अत्याचार से बचे नहीं हैं। मैं देशी राज्य के शासकों का चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि वे इस प्रथा का एक दम अन्त नहीं करेगा तो प्रविष्य में इससे भयकर हानि की सम्भावना है शासन सुधार के लिये निम्न लिखित बातें अति आवश्यक हैं। बेगार का अन्त होना चाहिए नहीं तो जनता स्वयं इसका अन्त करेगी, निःशुल्क और शांति शिक्षा राष्ट्रीय ढंग पर प्रत्येक राज्य में प्रारम्भ होनी चाहिये स्थानीय स्वायत्त सत्ता की स्थापना तुरन्त होनी चाहिये। बंद करने सम्पत्ति जप्त करने और देश बदर की प्रथा एक दम बन्द हो। प्रिंस एक्ट आदि हटा लेने चाहिये। सावजनिक सभाओं में राक टोक न हो। कौटिल्य से काम न लेकर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध हो। मृत्युदण्ड बिलकुल ही हटा दिया जाय।

शासन का सब हितकर और रुचि कर बनाना चाहिए इसी में राज्य की प्रतिष्ठा और राज प्रजा दोनों का भला है। भय और सन्तोच का त्याग कर नताशा का भी उन्नति की राह दिखाय।

देशी राजाशा का कर्तव्य है कि वे प्रजा के असहयोग के उत्तम अंश के पालन में सहायक हो मदिरापान नियंत्रण विदेशी वस्तु त्याग इत्यादि का उत्तेजना दें। देशी राज्यो में राजा प्रजा का हित विरागी नहीं होने चाहिये। इसी नियम काय में एक मत होकर ही चलना चाहिये। स्वाभाविक अवस्थाओं से प्रेरित होकर ही देशी राजाशा को इस काय में पूरा मनावाग देना चाहिये और ब्रिटिश भारत की जनता के आन्दोलन में सहायक होना चाहिये।

(23)

B S Pathik to W T Kelly

Rajasthan Sandesh Office Ajmer
Camp Kushalgarh 24th January 1929

My dear friend

Many thanks for your kind letter and the assurance contained in it

No doubt you are doing everything to see that the path for C B U is cleared but—workers on this side wish me to ask you to take a little deep interest in the questions of the people of Indian States Not only because as a responsible representative of your people you must carefully study the problem for which you are going to be asked to vote but also because the workers and peasants in Indian States are in a most miserable and helpless condition They have neither freedom of speech nor of press person association(association)and property You can have a little idea of their pitiable condition from my lately published book What are Indian States Thus your Yes and Nos will make or mar the destiny of seventy millions of our people It is therefore the duty of everybody workers representative to try to make the other members of the House of Commons interested in the question and then form a group to have the desired Changes affected when the labours of the Butler Committee come before them in the shape of a bill

As for the necessary material for the work I shall be ready to supply it to you and others when you will recommend whenever commanded

Thanking you once more and anticipating an early reply

Yours Sincerely

B S Pathik

To

Mr W T Kelly M P
B 179
26 Croften Road
Camberwell
S E 5 Eng

Congress-Organisation

Congress organisation in Rajasthan was working since 1914 Arjunlal Seth Bijai Singh Pathik etc were responsible for its formative consolidation This was at three footings —

Rajputana MadhyaBharat Provincial Congress^o Committee
Rajputana Provincial Congress committee and Ajmer
Merwara Congress Committee Ajmer being centrally
governed province was the centre of all these political
activities

The records placed below are about Congress elections
amendment in Rajputana Madhya Bharat Prantiya Congress Com
mittee assembly elections etc The most interesting is about
the relations between Congress and Harijan Sevak Sangh in
Rajputana A detailed report of Lahore Congress of 1929 is also
appended in these records

(1)

Congress Bulletin regarding Election of Provincial
Congress and representatives to A I C C

काँग्रेस कमिटी द्वारा प्रकाशित

काँग्रेस बुलेटिन

प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी द्वारा प्रकाशित

काँग्रेस बुलेटिन

प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी का चुनाव

नई प्रांतीय कमिटी बन गई

और

अनिरिक्त सदस्या का कोप्पन

राजपूताना मध्यभारत प्राविशियल काँग्रेस कमिटी का चुनाव ता 9-9-
1934 को निविघ्न हुआ । भिन्न जिला क 32 मन्स्या न चुनाव म भाग लिया

इन 10 वर्षों में यह पहला ही अवसर था जिसमें इतने सभामद जिला में आय और दिन चस्पी ली प्रान्त व लिंग सारे जिला से 41 सदस्य चुने जाते हैं और व 41 सदस्य 10 सत्रस्यो को कोआप्ट करते हैं अबके केकडी में चुनाव नहीं हुआ इसलिए 6 सत्रस्य वहाँ के नहीं आ सके अत 35 का ही चुनाव हुआ इन 35 में भापाल के विठ्ठलदास जी ने अपना सदस्यता का शुल्क जमा नहीं कराया और न वहाँ उपस्थित हुए इसके अतिरिक्त लक्ष्मी इशुरेन्म बम्पनी व एजेट मि बौल और ननचाल अब की बार कांग्रेस में चुने गये हम कह या न कहें इस शहर व तमाम नागरिक जानते हैं कि इन हमारे मित्रों को कांग्रेस में जान का माह अब की बार क्या उत्पन्न हुआ? मि बौल मि रजमी मि मुतजा हुसन मि इनयात हुसन मि अब्दुल अजीज मि कटैयालाल आजाद आदि 12 इस प्रकार उपरोक्त 12 और ब्याबर के सठ धीमूनाल जी जाजोनिया इस प्रकार 13 सदस्यों का अनुपस्थिति थी।

सबसम्मति से इस मोटोग के अध्यक्ष माननीय गौरीशंकर जी भागव चुन गये इसके बाद भूतपूर्वमंत्री श्री बजनाथ जी महोदय ने पिछले तीन वर्षों का हिमाव पढ़ सुनाया तत्पश्चात् 10 मैम्बर काआप्ट हुए और कायबनाओ का चुनाव हुआ

1 श्री प अजु नलाल जी सठी	अध्यक्ष
2 श्री प हरिभाऊ जी उपाध्याय	उपाध्यक्ष
3 श्री प गौरीशंकर जी भागव	मंत्री
4 श्री नृसिंह दासजी (बाबाजी)	सयुक्त मंत्री
5 श्री जयनारायण जी व्यास	
6 श्री बलवत सावलराम देशपाण्डे	खजाची
7 भगवानराम जी गार्गी ब्याबर	हिसाब निरीक्षण

इनके सिवाय 10 सत्रस्य कायबाराणी के और चुने गये

(1) श्री गायान कृष्ण पौरालिक (2) मि अतरमोहम्मद (3) छानेवान शीपति (4) स्वा ब्वनत्रा नन्नी (5) कपिलदेव जा शम्मा (6) बजनाथजी महोदय (7) हजारीनान ऊडिया (8) सादूराम जोगी (9) श्रीमती गामती देवी भागव (10) मुख सन्तराज भण्डारी

इसके बाद 17 आई सी सी का चुनाव हुआ

- (1) प अजु नलाल सेठी (2) गौरीशंकर भागव (3) विजयसिंह पंथक
 (4) नयमल चोरडिया (5) नृसिंह दास बाबाजी (6) हरीभाऊ उपाध्याय
 (7) कुमारानंद ।

दूसरे रोज की कायवाही —

श्री प अजु नलाल जी सेठी की अध्यक्षता में सभा शुरू हुई अतः पूर्व मंत्री जी ने अपने तीन वष का काय की रिपोर्ट पढ़ी रिपोर्ट में बहुत से सशोधन आय और उन सशोधनों को जो स्वीकृत हुए मिलाकर जब दूसरी बार मीटिंग हुआ तब रिपोर्ट स्वीकृति के लिए पेश करना निश्चित हुआ ।

अखिल भारतीय महासभा के सभापति कौन है इसके लिए 5 नाम आये थे (1) बाबू राजेन्द्र प्रसादजी बिहार (2) प जवाहरलाल नेहरू (3) सुभाष बोस (4) अब्दुल गफ्फारखा (5) अजु नलाल सेठी श्री या राजेन्द्र प्रसाद जी बिहार और प जवाहरलाल जी नेहरू के लिए आठ आठ वोट आये श्री प अजु नलाल जी सेठी ने अपना कास्टिंग वोट बाबू राजेन्द्र प्रसाद को दिया और इस प्रकार हमारे प्रांत से राजेन्द्र बाबू का नाम आ गया

पुरानी बकिंग कमेटी ने जा नियम सशोधन किये उनकी स्वीकृति —

श्री जयनारायण जी व्यास ने अरना विरोध नोट कराया नियम सशोधन करने की आवश्यकता स्तान के लिये निम्नलिखित मजजना की कमेटी बनाई है ।
 (1) श्री प गौरीशंकर भागव (2) नृसिंह दास बाबाजी (3) गोकुललाल जी असावा
 (4) श्री गोखल चौदरी (5) श्री जयनारायण व्यास

इनमें श्री जयनारायण जी व्यास कनवीनर हैं ।

देशी राजाजा की जनता के अधिकारों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति क्या है ? दूसरे देवली के नजरबन्दा तथा काकोरी केस और समस्तिवादी नीति के प्रस्ताव उपस्थित हुये परंतु प्रस्तावों की महत्ता का देखते हुए सभापति महान्य न बकिंग कमेटी के सिफुद कर दिया और बकिंग कमेटी के द्वारा आंगामी बैठक में उठे पेश करने का आदेश दिया

इसके बाद प अजु नलाल जी सेठी का आजस्वी व हृदय स्पर्शी भाषण हुआ ।

श्री सेठी ने प्रान्त की दुरावस्था का चित्र प्रान्तवासियों के सम्मुख हृदय स्पर्शी शब्दों में पेश किया भाषण का दिवंगन श्री जयनारायण जी व्यास व्यावर ले गये हैं जो राजस्थान व्यावर के आगामी अंक में प्रकाशित होगा ।

बम्बई जाने वाले प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में

क्या आप अ भारतीय कांग्रेस कमेटी के ४८ वें अधिवेशन में शरीक होना बम्बई जाना चाहते हैं ?

यह अधिवेशन ता 24 25 26 अक्टूबर को बम्बई नगरी में होगा कार्यक्रम ने यह तय किया है कि ता 24 सितम्बर तक जो कांग्रेस के चार आना मेम्बर नहीं बनेंगे वे प्रतिनिधि नहीं हो सकेंगे

इसलिए हम अपने प्रान्त कांग्रेसवादियों और जिला के अधिकारियों का सूचित कर देते हैं कि वे अपने इलाका में (डेप्युटी) प्रतिनिधि होकर जान वाला जो चार आने के मेम्बर उक्त तारीख के भीतर बना लें ।

यह भी ध्यान रखा जाय कि खर्च की पोशाक बनें जा प्रतिनिधि न हों उनका वोट स्वीकार न होगा

हम हैं आपके हितचिन्तक
मन्त्रीगण

(2)

Amendment in the constitution of Rajputana Madhya Bharat provincial Congress Committee

राजपूताना—मध्यभारत प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के विधान में मशोधन

4 अधिकार क्षेत्र

इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में सम्पूर्ण अजमेर मेरवाड़ा राजपूताना (भरतपुर और अलवर को छोड़कर) मध्यभारत (बघेलखण्ड और बुन्देलखण्ड को छोड़कर) और खानिपर शामिल होगा

- 6 प्रांतीय कांग्रेस कमेटी - प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में पदेन सदस्या के अतिरिक्त 51 सदस्य हांग इनमें से (क) 41 सदस्य जिला कांग्रेस कमेटियां द्वारा नीचे लिखे अनुसार चुने जायेंगे -

जजमेर (अजमेर जयपुर किशनगढ़ नावा उदयपुर शाहपुरा डूंगरपुर वासवाडा और प्रतापगढ़)	17
मेरवाडा (ध्यावर आबू बीकानेर जाधपुर जसलमेर सिराहा)	9
केकडी (केकडी धौलपुर करीनी बूंदी कोटा धानावाड टाक)	6
महू (महू भोपाल एजेन्सी (भोपाल राजगढ़ इत्यादि) इंदौर एजेन्सी दक्षिण राज्य एजेन्सी (अभी राजपुर धार इत्यादि) रतलाम सलाना और देवाम दोना)	4
नीमच (नीमच खालियर खलियाघान मानवा एजेन्सी (जावरा सीतामऊ)	5

- 37 प्रतिनिधि - प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महा सभा के जिन 340 प्रतिनिधियों को भजन का अधिकार प्राप्त है उनका चुनाव परिशिष्ट क में लिखे नियमों के अनुसार होगा -

परिशिष्ट क-9 (अ) राजपूताना मध्यभारत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी पत्न सदस्या क अलावा राष्ट्रीय महामभा में जो 340 प्रतिनिधि भेज सकती है उनका प्रान्त के कांग्रेस संगठन में इस प्रकार बटवारा होगा

जिला -	प्रतिनिधि संख्या
अजमेर	97
मेरवाडा	67
केकडी	44
महू	65
नीमच	67

(3)

Internal rivalry in the Congress

अजु न 23 जुलाई 1934

राजपूताना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झपट

हरिभाउजी का पृथक सगठन

सेठ जमनलाल बजाज की सलाह

अजमेर 20 जुलाई

राजपूताना और मध्यभारत की रियासतों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक कल हितनन्नी (हट्टूडी) के गांधी आश्रम में बाद बमर में सेठ जमनलाल बजाज की अध्यक्षता में हुई 170 के लगभग आदमी उपस्थित थे इसका उद्देश्य प्रान्त में कांग्रेस का पुनः सगठन और परस्पर भ्रातृभाव उत्पन्न करना था लोग यह समझकर कि इस बैठक में डा. मयद महमूद की सलाहों के आधार पर सहयोगपूर्वक काम होगा दूर दूर में जाय थे किंतु बैठक में श्री हरिभाउ उपाध्याय की घोषणा से सब स्तम्भित हो गये उपाध्यायजी ने कहा कि—

मैंने आठ अन्य व्यक्तियों के साथ एक पृथक स्वतंत्र सगठन बना लिया है और उनका उद्देश्य भी शान्तिमय प्रयासों में पूनः स्वतंत्रता प्राप्त करना है -

आपने कहा कि

इस नवीन सगठन के प्रश्न को कोई न छेदे क्योंकि यह तो बन चुका है और बावजूद मद्र प्रतिकूल परिस्थिति के भी कायम रहगा बीच बीच में लागू बिल्ना उठते थे कि हम इन ९ हिंदुस्तानी और मुसोलिनियों का नहीं चाहते यह नवीन सगठन राजपूताना में कांग्रेस की कद खालन वाला होगा

प्रा. शांकर लाल (गोकुल लाल अमावा) श्री विशम्भरनाथ भागवत स्वामी कुमारानन्द आदि न सभा में कांग्रेस की एकता आदि के लिए अनवरत जारदार भाषण दिये और कांग्रेस के नाम पर अपनी ही सेठ जमनलाल बजाज न उपस्थित जनता का समझाया कि मेरे साथ अलग में इस नवीन सगठन के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी और आश्वासन दिया गया था कि वह कांग्रेस में भेदभाव दूर करने और सम्भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य में बनाया गया है आगे सेठ जी ने कहा कि मेरी सम्मति में इसका

परिणाम उभटा होगा किंतु आपको इसका स्वयं निणय करना चाहिये मत लिये जाने पर 3 ने पक्ष में और 28 ने विपक्ष में मत दिये कांग्रेस संगठन के सम्बन्ध में दोपहर को बजाजजी से वार्तालाप करने के लिए 15 व्यक्तियों की एक उपमिति बना दी गई।

बजाज जी वन ब्यावर जायेंगे और 22 का जिल्दी के लिए खाना हाँगे।

(4)

Haribhau to B S Pathik

बर्दई 22/8/84

प्रिय भाई श्री पथिक जी

मझे बड़े आशा है आप कलकत्ते से मफन होकर लौट आये होंगे बाबाजी इन्तैर में मिन गये थे आपका कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है कांग्रेस चुनाव में ता वे कोई दिनचर्या न लें किंतु स्थिति उनके अनुकूल कर लिये जाने पर एमम्बरी चुनाव में योग लेंगे मवान यह है कि वे वान ब बाहर रहकर यादह उपयोगी हाँगे या अन्दर रह कर इसका निणय आप मुकुटजी और बाबाजी मिलकर कर लें।

कांग्रेस चुनाव के सम्बन्ध में मरा और देशपाण्ड जी का पत्र आपका महोदय जी न बता दिया है मैं हम लाग की स्थिति इस विषय में पहले भी साफ कर चुका हूँ बाबाजी को भी इस सम्बन्ध में कोई गलत फहमी नहीं है। हम सिर्फ चुनाव में हानि बानी अनुचित और गलती कायवाहिया में साथी बनना नहीं चाहते यह अवश्य चाहते हैं कि कांग्रेस में वास्तव में काम करने वाला का प्राबल्य रहे मेरी तो यही राय और मलाह है कि आः अपन हाथ पाँव जितना साफ रखेंगे उतना ही अच्छा होगा पहली बार आप कांग्रेस और एमम्बला चुनाव में आम बंद रहे हैं इसलिए सब तरह आपका श्रेय ही मिले और आपके हाथ मजबूत ही हाँ ऐमा मांग अंगीकार करना ठीक होगा आपके जमे अनुभवों को यह कहने की जरूरत नहीं है कि राजनतिक मित्रता क्षणस्थायी होती है और इसका फल इन चुनावों में दिखायी दे रहा है।

मुझे अफमास है कि कांग्रेस की लड़ाई में हम लोग इस बार तटस्थ रहे हैं और इसलिए आप अकेले पड रहे हैं किंतु मुझे आशा है कि आप हमारी स्थिति का गलत न समझेंगे।

सेठ जी का आपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है घाव भी धीरे धीरे अच्छा हा रहा है मिलन जुलने की छुट्टी नहीं के बराबर है मेरी अभी बात चीत भी नहीं हो पाई है

एक दा रोज-म मेरे एकसरे फोटो का प्रवच हो जायगा तब मालूम होगा कि मुझे कोई नया आपरेशन कराना होगा या नहीं और कितने दिन वहाँ ठहरना हागा

आशा है आप अच्छे होंगे

स्नेहाधीन
हरिभाउ

(3)

G R Sharma to Motilal Bhargava Dist Congress Ajmer

The New weaving and Trading co ltd

Anasagar — ghate
Ajmer 25 1939

Ref No 288

श्रीमान मातीलाल भागव व श्रीमान बशीरनबीमाहिब
पिकेटिंग प्रवचक जिला काग्रेस कमेटी-अजमेर

महाशयजी

नमस्त !

मालुम हुआ कि आप मील की दुकान पर पिकेटिंग कर रहे हैं इस बुनयाद पर कि इस मिल म विदेशी सूत इस्तेमाल किया जाता है ।

यह आपको सूचित रह कि हम लोग जा कुछ काम कर रहे हैं वह काग्रेस की तथा आलइ डिया स्पिनस एसोसिएशन की आनानुसार कर रह हैं उनकी चिठिया की नेत्रल श्रीमाना का मूचनाथ भेजी जाती है इसम जिस जिस सूत क बोम्ते इस्तेमाल की आज्ञा दी है उमकी विगत नीचे लिख मुताबिक है—

52 गांठे हरक—गांठ 210 रतन नोयल यान (Noil yarn)
10 पत्ती—हरेक पत्ती मे 110 रतन स्पन मिक्स फासका मिलक
इटली व फान्म का

67 पेटी 3 तथा 2 पेटी मन्मराइड डान न 2/64 की

यह सूत हमारा पहले का खरीटा हुआ है व हम अब कोई नया सूत नहीं खरीद रहे हैं और प्रतीक्षा करती हैं कि जब तक माफ मामला नहीं हा जाय हम किसी प्रकार का नया सूत नहीं खरीदेंगे ।

हम का का कांग्रेस में माफ की वित्री म मन्म व उत्पाह मिलना चाहिये और उल्टा आप पिक्केटिंग कर रहे हैं ।

जत आपम विनय है कि कृपाकर मील की दुकान में पिक्केटिंग जल्द हटा दें तथा सूचित करके कृताथ करें ।

यह मान हम 8 स 12 महिन के अन्तर मगाकर बुन सकेंगे और थीमान का अधिकार है चाहे जिस वक्त मील में जाकर देख लें कि इन सूता क अलावा या देशी सूता व अलावा का हमारा विदेशी सूत चपता है या नहा ।

अगर आप दूसरी किसम का विदेशी सूत चलता देखें तो फौरन बन्द कर दें और उम वक्त अगर आपके हुकम की तामीन न हो तो रिक्केटिंग शुरू करा दें ।

क्षमाकाशी

G R Sharma

for managing Agent

Similar declaraiion was made
by Krishna Mills Beawar also

(6)

A memorandum on Congress matters

ता को हम नीचे हस्ताक्षर करने वाल 5 मेम्बरा की एक समिति हटू डा में हुई कायकर्त्ता का की मीटींग द्वारा इसलिये मुर्कारर की गई थी कि वह एक मत से जिला कांग्रेस कमटी अजमेर व प्रान्तीय कांग्रेस कमटी राजपुताना मध्य भारत की कायकारिणी और उनका पदाधिकारिया की पहुरिस्त तयार करें जो आगामी चुनाव में हाने चाहिये यदि एकमत से यह सूची बन गई तो सबको स्वीकृत होगी बहुमत से कुछ निश्चय हाने की अवस्था में रिपोट वापिस उक्त मीटींग के सामने रखी जाय

उक्त विनय के अनुसार 24-7-34 को हम लोग की पहली मीटींग श्री गौरीशंकर जी भागवत के मकान पर हुई जिसमें पहुरिस्त बनाने के आधारभूत

मिहान्ता पर विचार किया गया यह भी तय हुआ कि जो मन्स्य सूची में किसी नाम को स्वीकार करना चाहे वह वसा कर देगा पर किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई बात बुरी या अच्छी नहीं कही जायगी।

ता 27-7-34 का फिर हम लोग शाम का ८ बजे भागव जी के यहाँ एकत्र हुए और यह तय हुआ कि 26 तारीख को 5 बजे यही सब इकट्ठे हों और प्रत्येक सदस्य एक 2 फहरिश्च बनाकर लायें।

उपरोक्त निश्चय के अनुसार 26-7-34 को 5 बजे फिर हम लोग एकत्र हुए श्री हरिभाउ और गोकुललाल जी सूची बनाकर नहीं लाय थे अतः कुछ बहस के बाद उसी समय सम्मिलित सूची बनाना तय हुआ और शेष सदस्यों की सूची पक्ष की गई श्री गोकुललाल जी ने सूची के बारे में कई बार अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया उन्होंने श्री भागव जी पर भी खुला आक्षेप किया जब इस बात को ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि 'मैं इस शत को स्वीकार नहीं किया था' श्री हरिभाउ जी ने कहा कि 'आप गलती करत हैं हम सबने यह शत स्वीकार की थी परन्तु गोकुललाल जी ने नहीं माना'

इसके बाद श्री हरिभाउ जी ने 7 नाम अपनी ओर में शामिल करने के लिए बताया इनमें से 5 दूसरे सदस्यों ने अपने दिए नामों से हटाकर उनकी जगह शामिल कर लिये गोकुललाल जी से पूछा जाने पर भी उन्होंने अपनी ओर से कोई नाम बताया नहीं परन्तु बराबर सूची पर आक्षेप करत रहे। श्री हरिभाउ जी ने उन्हें समझाया कि जब दूसरे मन्स्य इतनी accomodating Spirit से काम कर रहे हैं तब आपका यह रव्य अनुचित है परन्तु न जान क्या गोकुललाल जी ने अपना रव्य नहीं बदला अस्तु

उदात्ता करके जिले की सूची पूरी की गई और प्रान्त की सूची पत्नी गई इस पत्र पर श्री गोकुललाल जी ने उम्मी प्रकार आक्षेप जारी रखा फिर भी प्रान्त की सूची सुनी गई और दो तीन नाम नये जोड़ने का प्रस्ताव श्री हरिभाउ जी ने किया एवं सोहनलाल जी का मरा गोकुललाल जी ने सुझाया ये नाम भी दूसरे नाम काट कर शामिल किया जा रहे थे। जब गोकुललाल जी ने कहा 'मैं तो प्रान्त की सूची बनाने के ही पक्ष में नहीं हूँ' दूसरे सदस्यों ने कहा कि यह आपका समिति की नियुक्ति के लिये ही बनना चाहिये था। गोकुललाल जी ने कहा कि मैं तो यह दिया था श्री हरिभाउ जी ने कहा 'मुझे तो आपका कहना याद नहीं है फिर दूसरे

लाग गया मूख थे जा यह कहन पर भी आपको चुनते ' गोकुललाल जी न कहा नि चुनने याने मूख बने तो मैं इसका क्या करू ' मैं तो इसम गिद्वानत सहमत नहीं हूँ इस पर समिति की कायबाही हम लागाने समाप्त कर दी ।

(No signatures are affixed on this memorandum in the last It is not certain who five members were but three Gauri Shankar Bhargava Gokul Lal Asava and Haribhau can be identified by this report itself)

(7)

Ajmer Merwara
Congress Parliamentary Board's Office
AJMER

No 648

To

Dated 5th October 1934

Mr K M Munshi
Propaganda Secretary
All India Congress
Parliamentary Board
111 Kaplaneade Road Fort Bombay

Dear Mr Munshi

We were informed by Mr Bhula Bhai J Desai that we will get all the help and necessary instructions regarding publicity and propaganda to be done in this constituency for the success of the Congress nominee But we are sorry that we have received no communication from you upto this time We are feeling very urgently the need of some prominent Hindu and Muslim Leaders touring and addressing in this constituency

May I hope that you will now send all the necessary information and material in this connection and let us know whether you can arrange to send Maulana Abdul Kalam Azad or Khan Abdul Gaffar Khan and Mr Bhula Bhai J Desai for a couple of days to Ajmer before 15th of this month

Thanking you in anticipation and expecting an early reply

Yours Sincerely

B S Pathik
General Secretary Ajmer

(8)
Ajmer Merwara
Congress Parliamentary Board's Office

No 649

Dated 5th October 1934

To

Mr Bhula Bhai J Desai
General Secretary
All India Parliamentary Board
65 Explande Road
Bombay

Dear Sir

I am sorry to inform you that inspite of my repeated requests and reminders we have not only received no monetary or other wise help from authorities of All India Parliamentary Board and no reply to our numerous communications I am enclosing herewith the copies of some urgent letters addressed to the Board's different offices and authorities which were never replied From these you will be able to judge how much our work must have suffered and what dire consequences can be expected if we donot get immediate assistance from you to strenghten our activities even at this last stage

The main question is of financial help In view of the backwardness of our Province I think what we have already been able to do is many times more than what could ever be expected from us But now the limit has come and I fear if no immediate help is forthcoming from you the ground that we have gained so far will be lost and the Congress prestige which has been re established with great difficulty in this province shall receive a *sever set back*

- Hoping that you will pay immediate attention to the problem of our constituency and expecting an early reply

5 Copies of the previous
letters were also
enclosed with this letter

Yours Sincerely
B S Pathik
General Secretary

(9)

Delhi

Whither Delhi

(Bijai Singh Pathik released this letter asking all congress workers in the state to rise on the occasion. All India Congress Committee appointed one K Sardul Singh to reorganise the Provincial Congress. Pathik took it as an insult to the provincial workers. He also admits infighting in the rank and files of the local Provincial Congress Committee. He issued this statement when he was returning from A I C C meeting held at Patna)

Sir

As a nationalist I have been reading with unusual interest the proceedings of the working committee of the All India Congress Committee held at Patna. But I was pained rather than surprised to read between the lines that along with Rajputana and Bengal for Delhi too a leader from outside i.e. K. Sardul Singh has been appointed by the working committee to re-organise the local Provincial Congress Committee. Evidently it has been done at the instance of some of the representatives from this Province who in hot haste must not have been able to judge the implications thereof and presumably the reason given for it was that the workers in this Province were divided among themselves.

People of Delhi know it fullwell that after the turn-over of this scales in the congress elections of 1931 against me and my friend. I have always tried not to dabble in the local congress politics except for the only occasion of holding the congress session in 1932 when I found it impossible to restrain myself in face of the challenge thrown by the Govt. by declaring our premier national institution illegal and at the idea what discredit it must bring to my province if we could not hold that session successfully. Besides that no instance can be quoted of my interference in the local politics. The reason for this attitude of mine was the inference that I had drawn from the congress elections of 1931. At that time I felt that some of my colleagues have begun to feel

my presence in that field as a hinderence to their rise and though the presumption was wholly unjustified one in as much as really speaking, the idea in question had never crossed my mind yet in order to remove even the possibility of such a suspicion in the minds of my comrades and to avoid the bad impression upon the public of divisions among ourselves I thought it best to retire from the field altogether and at the same time to be ready to place my services at the disposal of my comrades whenever I may feel that I must do so in the interest of my province and the country

Even now I had no wish to poke my nose in these matters in which I have really ceased to take interest But for the insult that the resolution in question I feel implies for our province I would have never opened my lips I have no doubt that the working committee passed this resolution with best of intentions and that none but we alone can be held responsible And it is only this feeling that has forced me to draw the attention of my comrades in this province towards this fact through this letter at this juncture In fact I feel that it is only an addition to the humiliation which our local national life has suffered during the last municipal elections But does this all behove our province and our national workers? Is it not a slur on our ability and fast sightedness that a leader from so far a province may have to come over here and organise our congress committees while in other provinces it is only local workers who have been given charge of this work

May I hope that they will rise equal to the demand of occasion and act in a manner which will not only dispense with the necessity of troubling K Sardul Singh Ji but at the same time will reinstate the credit of our beloved province and raise it in the estimation of the public outside

Yours

(B S Pathik)

(10)

**Vaijyanath Mahodaya to B S Pathik asking him
to attend the meeting of A I C C**

Brahmpuri Civil Lines
Ajmer 13 5 34

Dear Brother (Bijai Singh Pathik)

In connection with the meeting of the All India Congress Committee to be held at Patna (Behar) on the 18th May 1934 I have the honour to inform you that you are a duly elected member of the A I C C from this Province As the decision to be reached in the meeting are bound to be very important and of far reaching consequences I hope you will make it convenient to attend it

Yours Sincerely

Vaijyanath Mahodaya
Secretary
Provincial Congress Committee
Ajmer

(11)

**The three letters placed below throw the light on
the relationship between Harijan Sevak Sangh
and Congress in the Rajputana**

**B S Pathik to A V Thakkar regarding Harijan Sevak
Sangh role in the elections**

7th October 1934
The General Secretary
All India Harijan Sevak Sangh
Birla Mills Delhi

Dear Sir

Having come to know that certain members of the executive committee and the office bearers of your local branch are openly

working against the congress nominee We have referred the matter to your Rajputana Harijan Savak Sangh asking them whether their members and workers were free to do so according to the policy and constitution of the Sangh In reply we are informed by Mr Ram Narain Choudhary the General Secretary that while the paid workers of the sangh are forbidden from taking part in the current politics the honorary members and office bearers are free to participate in any political movement of their choice

Where as the Harijan movement being sponsored and conducted by the prominent congress leaders is taken by the masses as the part and parcel of the congress programme and of this sort of activities can effect the relations of both the organisations adversely If the prominent workers of both the organisations are left free to come into conflict on the thorny issues like that of Assembly elections the executive committee of my board could not believe that Freedom referred to by your provincial secretary could cover even that interpretation

I am therefore troubling you with this letter in order to know unambiguous whether the freedom of your honorary workers to participate in political movements means only that they can participate in any congress movement if they like or it also means that they are free to participate even in anti-congress activities of any non congress group

May I hope that in the interest of mutual relations and goodwill of both these organisations you will kindly send me an immediate reply explaining the real position and also send a copy of that letter to your provincial secretary here that the disputed question may be settled amicably

Thanking you in anticipation and expecting an early reply

Yours Sincerely
B S Pathik

General Secretary
Ajmer Merwara Congress Parliamentary Bo

(12)

A V Thakkar to B S Pathik reply to the above letter**HARIJAN SEAVAK SANGH HEAD OFFICE DELHI**

President Sri G D Birla
 General Secretary A V Thakkar
 (of the Servants of India Society)

Birlamills
 Delhi Oct 8/9
 1934

Dear Mr Pathik

Your letter dated the 7th inst is to hand

In reply I may state that the principle mentioned by Mr Ram Narain Chowdhary is correct. The honorary office bearers are free to follow whatever political party they like in their political opinions.

I am afraid you are working under a mis-conception when you believe that the Harijan movement is sponsored and conducted by prominent congress leaders as such. The movement is conducted by reformist hindus of all political opinions—congress men liberals and noncongress men and others. This sangh has no organic connection with the congress organisation as such. The office bearers don't bring in their politics in the working of the Sangh nor can the Sangh ask any but its paid men to forego their political opinions.

You know that D B Harbilas Sarda who is President of our Rajputana Board is a candidate for the Assembly. The Sangh can not ask him nor is it any principle of it to ask him not to work for himself.

B S Pathik Esquire
 General Secretary
 Ajmer-Merwara Congress
 Parliamentary Board

Yours Sincerely
 Sd/-A V Thakkar
 General secretary

(13)

**Regarding Congress and Harijan Sevak
Sangh relationship**

भरेती
(undated)

प्रिय भाई साहब

मम्रेम प्रणाम् में जानबूझ कर मतलहतन ही धार नहीं आया या कुछ म्याल नहीं करे

कृष्णगोपान और दुर्गाप्रसात् के मामले को हरिजन सेवक सघ के मिता देन म सिवाय प्रान्त की पेचीदा स्थिति को और उलझा देने क और कोई परिणाम् नहीं हागा सघ का वस्तुत अपने अवतनित कायकर्ताआ पर सिवाय इसवे कि वे अस्पृश्यता को न मारें और कोई भी नियत्रण नहीं है बस प्रधान कार्यालय से आपन पूछ लिया ठीक ही है मैं तो इससे अधिक कुछ कह ही नहीं मकता

मित्रा की उछनकूद की खबर मुझे बर्षों से मिनी है ।

मा

(14)

(By April 1929 125 Members were enlisted in Kekri On 6th August a hartal was observed It also mentions that Mochi Koll Raigar, Mehtar, Khatik, Balal, Daroga etc scheduled castes have given up liquor drinking)

केकड़ी-यहा की म्युनिसिपन कमेटी के फोअरमैन सब डिवीजनन अफसर हैं और उन्ही द्वारा मनानीत 8 खुशामदी मेम्बर । इस लिये गला का पसा मतमानी पत्रल खर्ची म उदाया जाता है । कमेटी की गाडिया से घरू का काम लिया जाता है । किन्तु अब आशा है कि कांग्रेस कमेटी के स्थापन के हाने से म पोले अधिक दिन न चल सकणी । कांग्रेस कमेटी क मेम्बर 125 हो गये है 6 अप्रेन के दिन अद्भुत पूव हड़तान हुई । किमाना तफ ने सब कारजार बंद रथा । जूलूस निकाला गया ।

मन्दिर मस्जिदों में स्वराज्य प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई। महत्तर खटाव रगर भोची काली बलाई व दरगा ने शराब पीना सबका त्याग कर दिया है। अब भी कोई इन जातियों में शराब पियगा ता जानि बहिष्कार के अतिरिक्त 22) स 51) तक के दण्ड का भागी होगा। अन्य जातियों के भी शास्त्र ही इन का अनुकरण करने की आज्ञा है।

सुन्दर सिंह

सहकारी मंत्री कांग्रेस कमिटी

(15)

It is about Ajmer s awakened ? conditions on Tilak Jayanti

अजमेर में उत्साह। (सिर्फ अजमेर वासियों के त्रिय)

अजमेर राजस्थान का हृदय है। मैं समझता था राजस्थान में उत्साह नहीं था न सही उसकी राजधानी अजमेर में पूर्ण उत्साह से परिपूर्ण है।

अजमेर में भीषण दमन

अजमेर में उत्साह

मैं देख के फूटा न समाता। आह हमारे अजमेर के विषय में लिखा है 'भीषण दमन' अजमेर में भीषण दमन हा रहा है। वहाँ की प्रजा शान्त है। वहाँ उत्साह से देश का काम हा रहा है।

किन्तु अब वह बात गढ़। चाहे लाख उत्साह से कार्यकर्ता काम करें पर जनता में वह उत्साह नहीं। उत्साह तभी होता है जब लोग का बतलाया जाय कि उनके ऊपर क्या हा रहा है और क्या होगा। लेकिन अब तो आंगिक अली माहब व दशन भी नहीं गेन।

और तो और सबसे बड़ा खतरा और आवश्यकता बात तो यह है कि तमाम भारत वष में तिलाक जयन्ती मनाई गई पर अजमेर में जाय भी नहीं उस दिन मैंने कई-या में पूछा भाई आज क्या हा उत्तर मिला—हा तो कोई फना तारीख है।

मैन कहा आज तिलन जयती है। उत्तर क्या मिनता है मरग्या बापडो निलक। ये तो है यहा की जनता के विचार।

मै अजमेर के नेताओं की निंदा नहीं करता मरा मुँह ही कौनसा है। हम पन्निक् की सुराई अवश्य करूंगा। देखोता मितने जी से शराब का पिक्केटिंग हो रहा है पर लोग शराब पीत है क्या करें? विदेशी वस्त्रा पर पिक्केटिंग घडाघड हा रहा ह परतु लोग पुरानी मण्डी जना रहे ह।

नेताआ का कसूर ही क्या ह—तोम क्या उस वस्तु को बरतते ह जा हानि कारक ह। जनता को जानना चाहिय कि अमून वस्तु अच्छी है या बुरी ह। यह को नेताआ क सिर नही ह कि वे ही सब कुछ बतात फिरें।

योगा को चाहिय व अखबारा को माल लेकर पढें। यदि उनके पास पस नही है या वे पढना नही जानते तो वे क्या भारत म रहत है। अस्तु मै बी ए पाम नेताआ म सदा मे डरता हँ किंतु कम पढी जनता म मरा कहना है कि जरा उत्साह से काम करें के अजमेर को दूसरे नगरा के समुख मुँह दिखान के लायक बताना। इन का मुँह दपता छोडा य तो मिफ प्लेटफाम पर उफनना जानते हैं।

एम एम पगल।

(16)

People of Beawar burnt some items of court at time of
Ghisoo Lal Jajodiyas's case (a press cutting)

अदानत की चिकें जला दी गई।

जनता जीर पुलिस म मुठभेड

पुलिस और जनता के कई जादमी घायल

ज्यावर का समाचार है कि ता 21 (1930) को रात के 8-30 बजे वहा की काँग्रेस के प्रमुख नेता श्रीयुत घीसूगाल जी जाजोदिया गिरफ्तार कर लिय गय। आप अजमेर आने क लिए घर से चल ये। अब आप स्टेशन पहुचे तो बही पकड निमे गये। आप पर ताजौरात हिंद की 117 वी धारा लगाई गई है। जब कन उनके मुकदमे को मुनवाई ज्यावर म हूइ ता उस समय अदालत म हजारों की

सख्या म भीड थी और जनता म काफी जाश था । अदालत क चौक मे नमक भी तयार किया जा रहा था उस टुकड़ी के अध्यक्ष श्रीयुत नित्यानन्द जी को गिरफ्तार कर लिया गया । उनही गिरफ्तारी के समाचार से जनता म काफी उत्तजना पदा हो गई और जनता न अदालत को कौमी नार व जयघोष से गुजा किया परंतु पीछे स पुलिस ने जनता पर लाठी प्रहार किया जिससे जनता मे बेचनी पदा हो गई इसके पलस्वरूप अदालत पर कबडा और पत्थरा की वर्षा हुई और अदालत की चिक भी जला दी गई पुलिस ने जनता का हटाने के लिये हवाई फायर किया बाद का समाचार है कि जनता और पुलिस की मुठभेड मे एक मिपाही के हाथ म चाकू की चोट व एक थानेदार का सर फट गया । जनता पक्ष के कई आदमियों का सख्त चोट आई है शहर म कामिल हडताल है मिल मालिना व मजदूरान भी मिला म हडताल रखी अब शांति है ।

(17)

**Accounts of Rajputana Madhya Bharat Sabha from
5 2 1920 to 5 3 1921**

राजपूताना मध्य भारत सभा का हिसाब

राजपूताना मध्य भारत सभा की कार्यकारिणी सभा की बठक राजस्थान मध्य भारत राजनतिष काफेस क साथ अजमेर म सभा की रिपोर्ट व हिसाब पर विचार करने के लिये हुई थी । सब सम्मति स रिपाट व हिसाब पाम किया जो छपाकर शीघ्र हा सभासदा की सेवा म भेजा जायगा ता 5-2-20 स 5 माच सन् 1921 तक का हिसाब इस प्रकार है -

पिछल बष का शेष	26	र	14	आ	0	पा
दान व चन्दा	3673	-	5	-	0	
कुल	3700	-	3	-	0	

कुल आय 3700 = 3 हुई और व्यय तार-यय दफ्तर खच कलक वतन उपदेशक वतन चपरसी अलमारे छपाई तथा अजडर कलकता व नागपुर के अधिवेशना आदि का कुल व्यच मिलाकर 2226) हुए । सभा के वाप म 1473 बाकी रहे थे उन म स सभा न राजस्थान प्रान्त म से बेगार की कुरिया का दूर करने के त्रिए

डेपूटेशन व जाच के लिये 500 मजूर किये हैं उस में से दो सौ रुपये राजस्थान सभा को दिये जा चुके हैं इस लिये सभा के पास 500 रु दे देने के बाद 673 ही है। सभा का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है इस लिये राजस्थान मध्यभारत सभा के निवासियों से नम्र निवेदन है कि वे यथा शक्ति सभा को सहायता दें नहीं तो सभा का कार्य घनाभाव के कारण रुक पायगा

आपका तुच्छ सेवक

चाद करण शारदा

मंत्री

राजपूताना मध्यभारत सभा अजमेर

(Detailed report of Rajputana Madhya Bharat Sabha have been published in volume One on pages 51-87)

(18)

Accounts of First Rajputana Political Conference (1921)

प्रथम राजपूताना राजनतिक काँग्रेस का हिसाब

सब साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रथम राजपूताना कांग्रेस का हिसाब आडिटर साहब से चक होकर आ गया है। कांग्रेस में प्रवेश होने के सब प्रकार के टिकटा की आमदनी 6131 रु 4 आं और 965 रु 2 आं दान में आया इस प्रकार कुल आय 7096 रु 6 आं हुई और पडाल वाघन में प्रतिनिधी व स्वयं सेवका के भोजन व्यय छपाई तागा रेल दरिया का किराया राशनो तार स्टेशनरी जलूस सजावट का सामान आदि में कुल व्यय 6130 रुपये हुए। बाल्सेम में 966 रु 6 आं बडे जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कोर में जमा है। जलिया वाला बाग के लिये जितना धन एकत्रित हुआ था वह प चंद्रिकाप्रसाद जी डाक्टर शर्मा जी और डाक्टर छाडवाला जी की माफत अमतसर भेज दिया गया था। जिन भाइयो को व्यरेवार हिसाब देखना हा व कांग्रेस कमेटी के लफ्तर में आकर देख सकते हैं।

चाद करण शारदा

प्रधान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी

अजमेर राजपूताना।

(19)

Congress leaders were welcomed at Indore Donation was collected enthusiastically

राजस्थान-कांग्रेस समाचार

राजस्थान मध्यभारत की प्रांतीय कांग्रेस बैठक के प्रधान कुंवर चानू वरुण शारदा व मंत्री पं. गीरा शर्माजी भागवत व महायज्ञ मन्ना स्वामी नरसिंह देव मुरमुरती नीमच जावग हात हूय इंदौर पहुँचे। वहाँ पर मर हुक्मचंदजी ने स्फुटेशन का स्वागत किया। इंदौर की छावनी व नगर का जनता न अपूव उल्ला वीर स्वयं प्रेम दर्शाया। हिन्दी के प्रसिद्ध लखर श्रीमान मुष मन्गति राजजी भणारी मूरजमदजी जन कहेया लान जी नमा मनादकरजी नागरमलजी मानाराम जी मेधा जी गगानि जी शर्मा नल्लान हावना नवटिया जी नाथूलानका घोसावाननी मोना चदूलान जी तथा अन्य उमाही युवका न अपूव उमाह तथा कर चला एकत्रित करन म पूण महायज्ञा प्रदान की।

(20)

Homage to Martyr Jatin Dass

अजमेर वामिय राजस्थानिया

अमर जहीन जतीन्द्र के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाओ।

दिनांक 22 सितम्बर 1929

बन्धुवर

जतान्द्र न अपने अपूव आत्मबलिदान म जिम प्रकार भारतीय युवकी का गौरव बढाया है उस पर कुछ निखना पिष्टपेपण मात्र होगा आज प्रत्येक हृदय उसका अनुभव कर रहा है। ऐसी अवस्था म यह उचित ही है कि देश भर की आर स उनका एक स्मारक स्थापित करने और उनके छेडे दुण मगाम को जारी रखन का प्रयत्न हा रहा है।

राजस्थान युवक सघ न भा अपनी 19 ता की बैठक म निश्चय किया है कि वह राजस्थानी युवका और राजस्थानिया का नाम भी इस कृत्य की दौल म नव की उरावर रखन का प्रयत्न करें। इसके लिय अजमेर म ता धन सग्रहाय नगर

के युवका जोर कायकर्ताओं के दल रविवार का धूमैगें ही बाहर वाला को भी अपनी शक्ति अनुसार अवश्य भाग लेना चाहिये। व अपने पत्र पुष्प वधराज राम चन्द्रजी कागध्याक्ष रात्रस्थान युवक सघ पुरानी मण्डी के पते पर भेजें।

इस सम्बन्ध में हमारा—राजस्थानी युवका का कर्तव्य क्या है इस पर हम अपनी ओर से कुछ न कह कर केवल युवक श्रेष्ठ जवाहिर लालजी महार के शब्द उद्धृत कर देते हैं। उद्दान जतीन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहा है —

किन्तु हमारा—जिन के लिये जतीन्द्र ने अपने प्राण दिये हैं क्या कर्तव्य है ? क्या हम बड़े बड़े आमू टपकावेगें प्रशंसा प्राप्त करेंगे और बाता से विरोध करके अपने घड़े में लग जायेंगे ? इसके बाद उम कष्ट को भूँ जायेंगे जो जतीन्द्र ने सहा ? उसके बलिदान को भूल जायेंगे ? इस भूमि की दरिद्रता और दुदशा भूल जायेंगे ? यह भूल जायेंगे कि हम पर विदेशी शासन कर रहे हैं और हेल के डंडे से शासन कर रहे हैं ? क्या हम इस लाखा की टूट को भूल जायेंगे ? केवल अपनी मातृभूमि का प्यार करने के कारण जेल में पड़े और अमानुषिक व्यवहार पाने वाले युवका का भूल जायेंगे।

नही कभी नही बधुआ हमार कष्टा का प्याला भर चुका है हमार अपमान की सीमा हा चुकी है। हमारी सदन शक्ति घट गई है अत आश्य हम कमर बाध कर खड़े हों जाय और यह निश्चय करें कि आज से हमारा सबस्व देश का आजात करन और जतीन्द्र की स्मृति को कायम रखन के लिये है। अब हम इन अत्याचारा का अंत करके ही दम लेंगे। ध्यान रखिये कि गवद हम चाहे जम चमत्कारिक और बड़ें दूढ़ लावें व जतीन्द्र के महान् अति महान बलिदान के सामने तुच्छ है। अत आश्य हम उन महानता के सामने नम्रता और श्रद्धा पूर्वक मिर झुकाव और प्रार्थना करें कि हम इस मयाम का अन्त तद्व जारी रखन की शक्ति प्राप्त हों।

विनीत—

रामचन्द्र पथ गाविन्द प्रमाण वरिस्टर नरमानारायण वर नरमोनागयल
 ५० मास्टर दापी स्त्रूल मानीमिह कागारा हरिगणेश वर हमीरगन मूनिया
 काग गापाव रग नरगिराम अग्रवान विजयतिरु पथिया

गरीब जतीन्द्र माघ दास को अजमेर को धरतीजती

अजमेर के बरफ की तरह ठण्ड बन हुए रक्त को भी तीहरसाही क अया चारा और जतीन्द्र के विशुद्ध बलिदान न खीसा लिया। वह पहला ही अजमेर का जब यहा क विद्यार्थिया और युवका म अमहयाग क बाण इतना जाग देया गया। युवक सभ क अधिकारी तो विचार कर ही रह थ कि युवका और विद्यार्थिया को आर से पत्र आने शुरू हा गया। प्रत्यय यह जानन को उत्सुक था कि क्या किया जायगा।

काम भी यम ही उल्गाह स हुआ। जिन -3 बने की छूप मे अजमेर क आरामानुव नागरिक बाहर निकलना पाप समझत है उमी म पून से विद्यार्थिया और युवको क शुण्ड युवक सभ कार्यालय क बहर आ आ कर एतत्र हान सगें। एक समय पर काल शण्ड और उल्गाह बद्ध क बाक्य निमित्त पट्ट क माघ नगें मिर जन्म खाना हुआ। प्रयाग मन जतीन्द्र बाबू को शशाक्त क बार म बन हुए पथ गाता हुआ जाता था। गाथा-यबाण का शय जालि मिरजीवी हा जतीन्द्र नाथ की जय भारत क गहीन की जय आदि क जय घोष से बाजार गूजने सगें। श्रेष्ठ 2 भीड़ बढ़ने सगी। यहा तक कि नए बाजार म निकलन पर तो जन्म का पार कर के किमी का निकल जाना दु सम्भव हा गया निस्सन्देह इस सफलता का श्रेय अकसे युवका को ही लिया जा सकता है।

कुछ भ्रुटिया भी थी जिहे युवक और नागरिक क साम क निय यहा निख दना अनुचित न हागा। पहली बात तो यह है कि श्रणिया प्राय अव्यवस्थित हा जाती थी यद्यपि उन्हे ठीक करने का बार 2 प्रयत्न किया जाता था। इसम गौण कारण ता हमारा किसी काम का मनिन यवस्था के साथ न करन का स्वभाव था और प्रधान कारण था गाता गुनने और उसम सहयोग देने की इच्छा पर। इसम जन्म की जो व्यवस्था बिगडती थी उमम उमक उद्देश्य को हानि पहुँचती थी। फिर युवका का तो प्रत्येक कार्य सनिय की तरह मुख्यवस्थित हाना चाहिए इनक लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ पहल ही स कर लेनी चाहिए थी।

प्लकाइस और झण्डिया की भी व्यवस्था ठीक न रहती थी। कभी वे सब एक जगह एतत्र दिखाई देत थ कभी बिखत हुए। दलों का भी यही हाल था। कभी एक दल बहुत पाछ रह जाता था ता कभी जरा चीनी जगह मिलते हा सब श्रणिया टअ कर एक भीड़ बना लेती थी। आन जाने याना क लिय जगह ही न

छूटती थी। मैं इन सब बातों को इनलिये लिख रहा हूँ कि अभी हमारा युवका का बड़े 2 काय करने हैं और ऐसी त्रुटिया बनी हैं तो उससे काफी परिश्रम करके भी उसका आधा फन खो सकते हैं। साथ ही इसलिये भी कि दूसरा जो हमारा युवका को समालोचना करने का अवसर न मिले।

नागरिका की भी कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। नि सन्देह बहुत म नागरिक जलूस देख अपनी सवारियों आदि से उतर पड़ते हाथ और सिर नगा कर कम स कम कुछ दूर तक साथ चलत थे। यह उनके लिये शामा और उनके राष्ट्रभिमान की घोटक बात थी पर दूकानदारा और मुसलमान भाइया स और तो क्या यह भी न होता था कि ये शोक जलूस के निकलने तक अपनी दूकाना पर न ग सिर खड़े भी हो जाते। हम यह तो नहीं मानते कि वीर जतीन्द्र जम देश पर मरने वाले व्यक्ति के बलिदान का महत्व के सभी न ममणत थे। सम्भव है कुछ को पता न रहा हो। पर यह उनके लिये शोभा की बात न थी हम यह आशा करना चाहिये कि आगे इन बातों पर ध्यान रखा जायगा। कारण इही बातों से राष्ट्र के जीवन आत्म-सम्मान का प्रमाण मिलता है। अरतु।

जलूस अपनी उसी धूमधाम से सारे खास 2 बाजरा म घूमा छना पर जगह 2 पुष्टपा स्त्रिया और बच्चा की भीड़ थी। कितन ही लोग जतीन्द्र की स्मृतिया से द्रवित दिखाई देत थे। कईक मुसलमान भाई भी गाने और जलूस म साथ दे रहे थे। भाई हरिभाउजी उपाध्याय डा अम्बानालजी जीयालालजी विद्या-रामजी आदि भी आ पहुँचे थे ठीक 6 बजे जलूस चक्कर पर पहुँचा। उसी समय सभा की गई। यहा भी खूब भीड़ हो गई थी। सेठ जमनालालजी वजाज ने समापति का आसन ग्रहण किया। आपने कहा कि जतीन्द्र की मृत्यु का दिन भारत म एक एतिहासिक दिन गिना जायगा। वसे हमारे युवको म देश भक्ति की कमी नहीं है परतु जतीन्द्र जैसे युवक बिरले ही होते हैं। वसे तो देश मे लोग नित्य मरते हैं पर जो देश के लिये मरत हैं उही का मरना साथक है। आज यह प्रश्न नहीं है कि उनके सत्याग्रह क वारे मे मरे क्या विचार हैं। आज तो प्रश्न उम वीर के बलिदान पर अपने भाव प्रकट करना है। मैं जतीन्द्र की इसलिये इज्जत करता हूँ कि वह केवल जोशीला युवक न था जो जोश म आ कर काम तो शुरू कर देता है पर उस पर द्रढ नहीं रहता। जतीन्द्र मे जाश भी था और द्रढता भी थी। उसने जो अनशन शुरू किया था उसे मृत्यु तक निभाया। यदि जतीन्द्र ने गोली से आत्महत्या की होती तो मैं उसकी प्रशंसा न करता वह बड़ी वीरता न हानी।

पर उमन शान्ति पूर्वक वृष्ट सहकर और असहयोग करके मृत्यु का आनिमान किया। यह सच्ची वारता थी।

सभापति के बाद प गौरीशंकर जी न भाषण दिया और युवक से जतीद्र क बलिदान स शि ता ल देश क निय कुवानी करन का तयार हाने का आग्रह किया।

तत्पश्चात् श्री क्षेमानन्दजी रावत ने निम्न प्रस्ताव रखा -

अजमेर क नागरिका और युवका की यह सभा लाहौर जन क बहादुर शहीद श्री जतीन्द्रनाथ दास की गौरवमयी और स्फूर्तिदायिनी मृत्यु पर गव करती है और वीरप्रभूता भारत भूमि और श्री दास के सौभाग्य शाली परिवार का प्रार्थना देती है। साथ ही पंजाब सरकार ने अपने व्यवहार म जिस हृदय-हीनता का परिचय दिया ह उसके प्रति अपनी आंतरिक अरुचि प्रकट करती ह। इस सभा का विश्वास ह कि जतीन्द्र की बहादुराना मौत न देश को आज्ञानी की आर अवश्य ही एक कदम आग वला लिया ह।'

प्रस्ताव को रखत हुए रावत जी ने युवका को सी आई डी की चाला से सायधान होते हुए आग बढने की चेतावनी द कर अपने आजम्बा उगार प्रकट किय उसका मुख्य भाग अग्र दिया गया ह। आपका समर्थन श्री रामनाथलालजी सुमन न किया और अन्त म श्री हरिकृष्ण जी प्रेमी न जोरदार धात्ता म प्रस्ताव का पक्ष नत हुए युवको से जतीन्द्र का बाकी रहा हुआ काम पूरा करने की अपील की और नौकरशाही को चेनवानी दी कि यदि उमरा दुर्गाग्रह इसी प्रकार जारी रहा तो भारतीय युवक अपने बलिदाना से स्याह गगन स भा अधिक अपना माता की गा को लाल करन का तयार है।

इसके बाद जब सभापति सभा सहित खड हो कर प्रस्ताव पाम करा रहे थे तब एक सज्जन उम म यह जुडाने का अनुरोध करने लग कि यह सभा सरकार और कांग्रेस के नेता-स भा इस ओर ध्यान धन का अनुरोध करती है सभापति न कहा कि प्रथम तो आपन लिखकर सुधार पत्र नही किया है दगर कोई हम का समर्थन नही करता। फिर जिस सरकार का ध्यान जतीन्द्र जम वीर युवा का 63 दिन का उपवास करते 2 मरना आर्कषित न कर सका उसका ध्यान हमार अनुरोध से आर्कषित हागा वस भी पमा करना मृतवीर रा अपमान करना है तत्पश्चात् मारी सभा न खडे हाकर गम्भीर मति क साथ प्रस्ताव स्वीकार

किया। अन्त में मुबक मध के प्रधान मंत्री श्री नृसिंहदासजी के आजस्वी भाषण के बाद समा विमर्जित हुई।

(21)

Lahore Congress of 1929—A detailed report

लाहौर में क्या हुआ

ता 29 दिसम्बर सन 1929 का लाहौर में राजपतराय नगर में 44 वीं राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन बड़ी धूमधाम के साथ प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस के मनातीन सभापति पं. जवाहरलाल नेहरू ठीक 10 बजे लाजपतराय नगर में पधार। लगभग एक लाख जन समूह के गगन भेदी जयघोष द्वारा आपका स्वागत किया गया। सब में प्रथम आपने राष्ट्रीय झन्डा फहराया। मेनापति सदारा मंगनमिह ने आपको हम प्रकार प्रणाम किया जैसे कि सम्राटा को किया जाता है। पश्चात् राष्ट्रीयपति ने स्वयं सबको का सम्वाधन करते हुए एक प्रभावशाली वक्तव्य किया।

स्वागताध्यक्ष डा. किचलू ने कांग्रेस के विशाल पण्डान में लगभग 12 हजार प्रतिनिधियां और देशका का स्वागत करते हुए कहा कि हमारा भविष्य का कायनम सधप और युद्ध से परिपूर्ण जाना चाहिए। सबदत्त सम्मेलन न ग्ग का वाई काम नहीं हो सकता। दा वप के अमहयाग आन्दोलन ने ही अंग्रेजी शासन की जड़ को हिना दिया था।

आपके भाषण के पश्चात् कांग्रेस के सभापति पं. जवाहर लाल नेहरू का प्रभावशाली और एतिहासिक भाषण हुआ जो अत्यन्त किया गया है। आपने अपन भाषण के अन्त में कहा प्रान्ति चिरजीवी है। हम के बाद शहीद मतीन्द्रदास और फुगी यू विजाया के बलिदान की प्रशान्ता की गई तथा उनके परिवारा के साथ महानु-भूति प्रगट की गई। इसके अनिरीक्त पं. मोक्षराम नाथ मिश्र प्रो. पराजप आदि की मृत्यु पर शोक प्रगट किया गया। हम के बाद कांग्रेस की उम दिन की कायवाही ममाप्त हुई। ता 30 दिसम्बर का विषय निर्धारण समिति की बटन हो रही थी। ता 31 का कांग्रेस की कायवाही पुन प्रारम्भ हुई। अनक प्रस्ताव पाम हुए। सबसे महात्मा गांधी का ही बालबाना लिखाई पढ़ना था। आपने एक प्रस्ताव पाम किया जिसमें वापतराय की गादी पर हम फेंके जान की निन्दा करते हुए उन का तथा उन के माधिय का बाद 2 बजे जान के निय बघाई गे हम प्रस्ताव पर बने

घब 2 रही गरमा-गरम बन्स हुई और सागा न बडे राप के साथ इस का विराध किया । स्वामी गोविंदानन्द ने महात्माजी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस का अहिंसा का सिद्धान्त केवल कांग्रेस व हम लोग ही के लिय है । डा जालम न प्रस्ताव का विराध करत हुए कहा कि महा पर प्रश्न हिंसा-अहिंसा का नहा है । बल्कि मैं इस प्रस्ताव का अनुचित अनावश्यक और हानिकारक समझता हूँ । मैंने निय में महात्मा भाषा स अनुरोध करता हूँ कि ये अपना प्रस्ताव सोटा लें क्या हम में स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं रहा ? क्या पुनिस द्वारा जब लालाजी पर लाठिया पड़ी और जिसके कारण उन का मृत्यु हो गई तब सरकार न भी कोई सहानुभूति प्रदर्शित की थी ? इनना ही नहीं इस घटना की जाच के लिए एक कमिटी नियुक्त करन की हमारी प्राथना तब को ठुकरा दिया गया था । ऐसी दशा में कांग्रेस का इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना चाहिये । डा अंसारी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए फरमाया कि सत्तार के इतिहास में विराा भी देश का बम फेंक कर स्वाधीनता प्राप्त नहीं हुई । इस पर छिन्नार 2 की आवाज आई श्री पुष्पोत्तम दामजी टण्डन ने प्रस्ताव का समर्थन किया । बाबा गुरुदत्तसिंह न प्रस्ताव का विराध करने हुए कहा कि केवल सरकार को प्रमत्त करन के लिए इस प्रस्ताव को कांग्रेस स क्या पास किया जाय ? क्याकि इस के पास करन में हम अनेक नौजवाना का अस-तुष्ट कर गठेंगे । कांग्रेस की उन लोग के काय की निंदा करने का काद अधिकार नहीं है जा का प्रसर्गमें नहा है । इगक बाद महात्माजी ने एतराजा का उत्तर दिया । फिर सभापति न प्रस्ताव का प्ग प्रकार रक्खा ।

यह कांग्रेस कायदाशरिणा कमेटी के उन काय का समर्थन करती ह जा कि उसन 31 अक्टूबर की वायसराय की धापणा के उत्तर में सरदला के नताआ की औपनिवेशिक स्वराय की भाग क वक्तव्य के सम्बन्ध में किया तथा वायसराय ने हमारे स्वराज्य प्राप्ति के राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्ना के निबटारें के लिये जा उद्योग किया उसकी सराहना करती है ।

लकिन यह कांग्रेस तब से जा घटनायें घटी हैं तथा वायसराय से महात्मा गांधी और प० मोतीलालजी आदि नताआ का जो वार्ते हुई है उन सब पर विचार करत है कि वतमान परिस्थिति में कांग्रेस क राउण्ड टेबल कांफरेन्स में भाग लन स देश को कुछ भी लाभ नहीं हो सक्ता इमनिये यह कांग्रेस क निणय ने अनुमार यह धापित करती है कि कांग्रेस विधान क प्रथम नियम में स्वराय शास्त्र का अधूथ स्वाधीनता समझा जाय । और साथ ही यह भी धापित करती है कि केहू

रिपोर्ट का रट किया हुआ माना जाय तथा यह आशा करती है कि सार कांग्रेस-
वाणी अत्र अपना पूण शक्ति पूण स्वाधीनता की प्राप्ति में ही लगावे। पूण स्वधीनता
प्राप्ति के लिय प्रथम उपाय जा काम में लाया और जा कांग्रेस से के ध्यय के अनुकूल
हा वह यह है कि सारा व्यवस्थापिका सभाआ का बहिष्कार किया जाय और उन
कमिष्णिया का भी बहिष्कार किया जाय जिन्हे गवर्नमट नियुक्ति करें या बुलावे।
और भविष्य में कोई भी कांग्रेस में प्रत्यक्ष भा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी चुनाव
में भाग न लें। साथ ही आज कल जो कांग्रेसी सदस्य व्यवस्थापिका सभाआ में हैं
उनका आदेश कर कि वे तुरन्त अपनी मरजी से व्यवस्थापिका सभाआ में स्वीका
र दें।

यह कांग्रेस देश से अनुरोध करती है कि रचनात्मक वायत्रम को पूण रूप
से काय रूप में परिणित कर आर आन इण्डिया कांग्रेस कमेटी को इस बात का
का अधिकार देती है कि वह जब कभी उचित समझे तब सत्याग्रह—जिस में कर का
न देना भी शामिल हो का प्रारम्भ करे। फिर यह इस सत्याग्रह को कुछ चुने
हुए स्थानों में प्रारम्भ कर अथवा जैसा उचित समझे कभी सावधानी रखे।

इस प्रस्ताव पर महात्माजी हिन्दी में बहुत धाड़ी दर तक हो गाले। इस
प्रस्ताव का समचन पण्डित मातीलालजी नेहरू ने बड़ा जारदार शब्दों में किया।
आपने कहा कि भरा कौंसिल का यह कट्टा अनुभव है कि कौंसिलो द्वारा देश का
कुछ भी हित नहीं किया जा सकता। बल्कि इसमें उल्टी यह हानि हानी है कि इन
व्यवस्थापिका सभाआ के काम में जो हजार आदमी फस जाते हैं जो यदि बाहर रह
तो देश का स्वतंत्र करने के काम में हाथ बटा सकते हैं। अशुभता के बहिष्कार के
बार में आपने कहा कि हमारा पिछला अनुभव है कि हम कभीत लागा को उनका
जीवन-यापन के एक मात्र जरिये का छोड़ देने के लिये यह कर सपन नहीं हो
सकत। रही अपनी बात सा मैं तो अब बकानत करने का नहा रहा हूँ।

प. मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना एक
नया प्रस्ताव ही कांग्रेस के सामने रख दिया। उसका आशय था कि कांग्रेस के
सभापति को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह मन्सून सम्मेलन की एक बैठक
देहली में मार्च या अप्रैल मास में बुलावे जा राउण्ड टेबल कांग्रेस सम्बन्धी प्रश्नों
पर विचार करें और तब तक के लिये कांग्रेस का ध्यय-परिवर्तन सबधी प्रश्न
स्थगित कर दिया जाय। आपने अपन भाषण में यह भी कहा कि सन् 1928 में
राउण्ड टेबल कान्फेरेन्स बुलाया की हमारी राश्याय मांग थी। और तब से अब

वही माग बराबर बनी हुई है। बटलर कमीशन के सम्बन्ध में आपने कहा कि उसकी नियुक्ति इमरिय की गई थी वह देशी नरशा और अंग्रेजी प्रजा को लडाव। इसके बाद मि केलर ने भी मून प्रस्ताव में इसी आशय का सशोधन पेश किया कि कांग्रेस का सभापति सर्वदन-सम्मेलन की बैठक बुलाकर कांग्रेस के ध्येय परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्न को तय करें। पंजाब के मि अफजल हक ने कहा कि आगामी 30 अप्रैल तक या इसी के आम-पास की कोई तिथि तय जिसे का का कमेटी तय करें इस प्रस्ताव पर विचार न किया जाय। आपन यह भी परमाया कि तीना बहिष्कार पहले भी जमफल रहे। आप की समझ में कौमिन बहिष्कार की उपयागिता न आई और न आप यह भी समझ सके कि अहिंसात्मक उपाया से पूण स्वराज्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

इसके पश्चात् मि सुभाष बोस ने अपना सशोधन पेश किया। उसका आशय था कांग्रेस का ध्येय पूण स्वतन्त्रता और साथ ही साथ अपनी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। आपके प्रस्ताव में युवक समुदाय किसान और मजदूरों के संघटन को ध्यान में रखा। साथ ही कौमिन बाड़ों और अत्यालना के बहिष्कार का भी उल्लेख किया। आपने अपने भाषण में कहा कि मरी समझ में यह नहीं आता कि त्रिना राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के हम कम पूण स्वाधानता प्राप्त हो सकती है। राउड टविल काफरेन्स के सम्बन्ध में आपन कहा कि क्या आप लोगो का यह पूरा विश्वास है कि इस काफरेन्स में जा होगा उसे पानियामेंट अवश्य मान लेगी। मैं सुना हूँ कि देशी नरशा और अंग्रेजी व्यापारी-संघ भी अपने 2 प्रतिनिधि इस काफरेन्स में भेजेंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि आज कल अंग्रेजों और देशी नरशों या अंग्रेज व्यापारियों और अंग्रेज जाति में कोई युद्ध हो रहा है? क्या आज कल राजभक्ता और अंग्रेजों सरकार में कोई युद्ध हो रहा है यदि नहीं तो राउड टविल काफरेन्स में इनके प्रतिनिधि क्या तुलाय जा रहे हैं? इसके बाद डाक्टर आलम ने अपना सशोधन किया कि मूल प्रस्ताव में वायसराय के कार्य की सराहना शक की निकाल लिया जाय। आपन इस सशोधन पर विषय निर्धारिणी कमेटी में महात्माजी केवल एक बोट में जीत थे। इसके बाद मि एच डी राजा ने अपना सशोधन पेश किया। इस पर किमी मन्स्य ने आपत्ति की कि मि राजा नियमानुसार प्रतिनिधि नहीं है। इस पर सभापति महोदय ने कहा कि इस विषय पर मैं अपना निणय बाद में दूंगा। आपन मि राजा को धानने की आना दया। मि राजा ने दहली से प्रकाशित हुई नताशा की विनक्ति के समर्थन सम्बन्धी पत्र को निकालने के निय कहा और नोबल बाड़ों के बहिष्कार पर भी ध्यान दिया। साथ ही

भजदूग का समठित कर के जाम हडताल की बात भी मूल प्रस्ताव में जोड़ देने की राय दी। मि माधव नयर ने कौंसिल बहिष्कार सम्बन्धी बात को मूल प्रस्ताव में निवाल देन को कहा। आपन कहा कि मद्रास में कौंसिल बहिष्कार की बात बहर वान मुनी जायगी। मि गोविंदा चाय न सशोधन पेश किया कि बहिष्कार उन सारी कमेटिया का भी किया जाय जिस को सरकार बुलावे या नियुक्त करें। आपन अकेल कौंसिल बहिष्कारो की बात कही मि मत्यमूर्ति न सशोधन पेश किया कि मूल प्रस्ताव से राउड टेबिल काफरेस में भाग लेने वाली बात में निवाल किया जाय। मि प्रकाशम् ने कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प माती-रालजी और महात्माजी न अपनी दहली की विनक्ति सम्बन्धी भूल को स्वीकार कर लिया जिसमें राउड टेबिल काफरेस में सम्मिलित होने की बात थी। मि अणें न कांग्रेस के ध्येय परिवर्तन सम्बन्धी प्रश्न का विषय कांग्रेस तक स्थगित करन के लिए सशोधन पेश किया। और साथ ही राउड टेबिल काफरेस में सम्मिलित होने की बात भी कही। आपने कहा कि यदि काफरेस में कांग्रेस का अच्छा प्रतिनिधित्व है तो सारे राजनतिक कदी छूट जायेंगे और औपनिवेशिक स्वाधीनता की स्वीक भी काफरेस के सामने रख दी जायगी। मौलाना जपर अनी खा ने पूरी तरह और सधप वाने प्रस्ताव को रखने का सशोधन पेश किया। आपन कहा कि जब पूरा अहिंसावादी रहूंगा। आपने कांग्रेस से नीना बहिष्कार का अपनान का अनरोध किया। मि महता ने कहा कि मूल प्रस्ताव अशत अच्छा बुरा और न बुरा—न अच्छा है। कौंसिल बहिष्कार के सम्बन्ध में आपन कहा कि मिथ आयरलैंड और इस ने भी कौंसिल में जाना पूण स्वाधीनता के सिद्धांत के विपरीत बात नहीं है। आपने कहा कि मि शाही को कोस्टल विन बड़ी व्यवस्था पिका सभा में आन की है। इसके पाम हा जाने में देश का कराट स्पये का लाभ हागा।

इसके पश्चात् महात्मा गांधी मर के एनराजा का उत्तर देन के लिए उठे और अपना भाषण हिंदी में प्रारम्भ किया। फिर कुछ अणोजी में भी बोले। आपन कहा कि यह प्रस्ताव तो पूणता एक है। इसका तीन भागों में नहीं बाटा जा सकता। आपन आग चल कर कहा कि पूण स्वाधीनता का ध्यय रख कर ऐसा काफरेस में जाना जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की बात पर बहस है असंगत है। अब से आग कांग्रेसवाणी उगी काफरेस में सम्मिलित हामेंगे जिसमें पूण स्वाधीनता की बात पर विचार हो। (हय ध्वनि और वन्मानरम् की ध्वनि) आग चल कर आपन कहा कि वायगराय के वाय को सराहना वाली बात को मूल प्रस्ताव

स निवाल देने के सशोधना के उत्तर म मैं इतना ही कहता हू कि मैं और पण्डित मातीलालजी नेहरू देश के आदेशानुसार देश के प्रतिनिधि की हैमियत से वायसराय स मिलने गये थे । वहा से लौट कर हम आप मे यह कहने है कि वायसराय न एक मनुष्य के नात हमारी सहायता क लिय पूरा उद्योग किया है । मेरी सम्मति म स्वतंत्र हाने की इच्छा रखने वाला को सम्म्यता को तिलाजलि न देना चाहिये । वास्तव म सच्चे बहादुर तो वही है जो सदब उत्तर रहत हैं और भी अपन प्रतिर्दांड के प्रति । हम दोनो ने वायसराय की सच्चाई का आपको मवूत दिया है । जगर आपका हमारी बात का विग्र्नास है तब ता वायसराय के काय को सराहना अवश्य करनी चाहिय जयवा हमारी बात को झूठ माननी चाहिये । हम आपकी ओर स गय थे इसलिये या तो आपको हमारी बात मच माननी चाहिए अथवा नही ।

आप लोग यह कह सकते हैं कि वायसराय अग्रज है और एक विदेशी सरकार का एजेंट है । ऐसी दशा म उमने हमार भले के लिय कुछ किया होगा इस पर विश्वास कसे करें ? परंतु आपको या तो हमारी बात सही माननी चाहिये या फिर नही । यह भी कहा गया है कि वायसराय के काय की सराहना करना कायरता ह । लेकिन मैं कहना हू कि अपने सच्चे भाव का प्रगट न करना भी कायरता है ।

स्कूल कालेज और अस्पतालो के बहिष्कार मे भी मरा पूण विश्वास है । लेकिन मैं देश की नाडी का भत्री प्रकार दखता रहा हूँ । मैं प मोतीलालजी तथा कायकाग्िणी कमटी तीना ही पिछल अनुभव के आधार पर इसी नतीजे पर पहुचे है कि स्कूला और अस्पतालो के बहिष्कार को अभी देश के सामने न रखा जाय हमारा पिछला अनुभव ह कि बहुत कम कवीस इम देश म गसे है जो अपन पेशे को छोडकर देश का काम करत हुए अपना गुजारा कर सरते हैं । लेकिन हमारा विश्वास है कि देश धीर 2 इन लो बहिष्कारा क लिये भी तयार हा जायगा ।

Some Native States

Miscellaneous Matters

These are the different subject records such as corruption in the administration of Bharatpur Bikaner Gwalior repression of peoples movement in Madhya Pradesh (Gwalior and Indore States) Panchayat system peasants movement famines in different places prevailing system of bondage and bonded labour in Kota and other States Jubliant Victory of Bhils in Palanpur banning States Peoples Conference meet in Jodhpur State British Government s ban or restrictions on Press and Printers and some other miscellenous matters Adoption of Man Singh II of Jaipur is quite interesting

(1)

B S Ptahtk to the Prime Minister of Bharatpur State

To

The Prime Minister

Bharatpur State

Bharatpur

Sir

18 6 28

For a long time past we are receiving adverse criticism and complaints against the present regime in Bharatpur state But knowing that you have very recently assumed the reigns of administration and that as it would take some time to study the situation we refrained ourselves from taking any action whatsoever even at the risk of obloquy But now it has become well nigh impossible for us to assume silence in the face of daily increase in volume of feelings against the present administration and the demand of the public to know our views about it Yet at the same time we feel that before we invite anything one way or the other it would be better for us to study the situation personally and to

come in touch with all opinions public as well as official. Therefore I would like to know whether you agree with our proposal and will give every facility to study the situation on the spot and consult every shade of opinion.

(2)

Bhanwar Lal Patwari to B S Pathik (Tells about his transfer because of acquaintancy with the later. The Letter also tells that in 1928 B S Pathik's entry was forbidden in Gwalior State also)

ओउम्

पटेल राम बरुण आय जमीदार

सरपंच पंचायत वीड नयागाव ब मेम्बर परगना वाड व जमीदारी वाड परगना तीमच व सेन्सर सेशन अदालत भालवा उज्जैन

तारीख 12 सितम्बर 1928

महोदय

श्रीमान महात्मा जी की पवित्र सवाम दामातुणस भवर लाल पटवारी की सादर ब

अत्र कुशलम् तत्राम्तु नीवन्त है कि जम स आपका वृषा पत्र नहीं सो क्या कारण है क्या दास म कोई अपराध हुआ है जिसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ

आज मरे लिय मुहम्मद अख्तर खाँ सुवा जिला मन्सौर न बहसिमत अमोस्टेट जनरल पुलिस की हसिमत म मद्र हुकूम जारी परमाया कि भवर लाल पटवारी की अक्सर व पश्तर यह शिक्षायतें पश आ रही हैं कि यह पटवारी कि एस पथिक से मिला हुआ है जिसका रियायत हाजा म आन की मनाई है। जिसके साथ सत्ता खितावत करना है और रियाया को बरगला कर बदअमना पदा करता है इसलिये इसको मसलहनन परगन सुवासडे मे तलील किया जाय इस पर स व हुकूम नायब हुवात न $\frac{274}{9 \ 5 \ 28}$ परगन सुवासडे म हलका नाटाराम पर तलीनी होकर मैं वास्ते सने चाज नाटाराम जा रहा हूँ अगर तावेदार लायक कोई काय हो ता वास्ट क्यामपुर मुकाम नाटाराम क पत से पत्र दें मैं दीपमालिका पर निगोडी

जाऊगा मरा विचार इन इस गुलाबी का एक बरन का है आप मुझे अपनी सेवा म
रख सकते हैं मैं मुलतवी तवादन की अपील डार बटरी महकम बागान देही म
की हैं अगर हम्य रब्बाहिश मुलतवी हा गया ता ठोग बरना अन्तिम कौमिश इस्तीफा
है आगे क्या जरिया तजवीज किमा जाम जिसम बाल बच्चा का भी निर्वाह हाता
रहे और सेवा काय भी न रुके कृपिया अपनी राय से आना प्रदान करें अब्दुल
हमन पगर का वहाँ स हटाने के क्या-क्या उपाम हागे यह दुस्त सबका मता
रहा है

कृपा रहे

भवदीय

भवर लाल

मुकाम विशारपुरा

(3)

Abhinna Hari to Bijai Singh Pathik (Tells about
fgmine in Kota and Seth Moti Lal's resignation
from Panchayat on Principle issue)

स्वागत समिति

पंचम अधिवेशन काटा राज्य प्रजा मण्डल

स्वागताध्यक्ष—बाबू मदनमोहन शर्मा

B Sc B T

स्वागतमन्त्री—सेठ मोतीलाल जन विशारद

काटा (राजपूताना)

13-6-1940

मा पयिक जी

आपका कृपा पत्र मिला यहाँ तो वही नजारे सामन आरहे हैं जिनका
आभास आपने पहिने ही दे दिया था लेकिन सेठ जी की इन्ता और तत्परता के
सहार नाव चल रही है मैं अप्रत्यक्ष रूप से पीर बवर्ची भिश्तीखर बन रहा हूँ
मझे अमली स्वल्प सामन आगये हैं लेकिन हमने सब पर धूल डाल रखी हैं ।

इन झगटा स मैं अभी तक भाषण नहीं लिख सका हूँ रात दिन जुटा
रहना पडता है अभी तक मैं और सेठ जी ही जुटे हुये हैं आपने लाडलीकर ब
बाने म कुछ नहीं लिखा अब तक आप प्रजा मण्डल के निये लागा को प्रोत्साहन

जीर मर वावत बहुत प्रभावशाली टिप्पणी इसी अब म दीजीऐगा मरी विचार धारा सिद्धांत प्रियता वस्तु सहिष्णुता आपसे छिपी नहीं है म आत्म विनष्टि से विलकुल ही दूर रहा हूँ अब तक मैने अपना दिल दिमाग स्पया के लिय आज तक किसी को बेचा नहीं है सेठ जी के लिये भी

समयत म कल रात को उधर आऊंगा आपके पास प्रेम म भाषण वही लिखना और छपाना भी यहाँ जब तक रूँगा फसा रूँगा

यहाँ नीगोद म एक काश्तकार पानी करते 2 मर गया अकाल पडने से पानी कुआ मे नहीं रहा था सरकारी कर्मचारिया के लिय सरकार की जार से टकिया द्वारा पानी भेजा जाता है टकिया से जल किसी प्रजाजन को नहीं मिलता मुनत हैं टकिया म पानी होत हुअे भी किसान को पानी नहीं दिया गया

सेठ मोनीलाल न भागराल की ग्राम पचायत म त्यागपत्र दे दिया हैं सब पचा ने भी पचायता व माथ राज्य अधिकारियो का व्यवहार अशिष्ट गर कानूनों तथा स्वाभिमान को धक्का लगाने वाला हाता है । पच प्रजा के निर्वाचित होते हैं अधिकारी उह उनका गुलाम ममयते हैं ।

भवदीय

अभिन्न (हरि)

on margin आपको माग व्यय दिया ही जायगा निश्चिन्त रह

अभिन्न

(4)

From Abhinna Hari to Bijai Singh Pathik undated tells about personal life and about some news papers and local politics of Kota Probably it is written after Pathik's differences with some of his colleagues Abhinna Hari tells that he has no faith in Ahimsa

शुद्धेय पयिज जी

आपका पत्र यथा अवसर प्राप्त हो गया था मुझ ना दयान था—स्यात आप नाराज हा गये हैं पर इम पत्र ने मरे विचार परिवर्तित कर लिय हैं प्रगटना है कि आप पूर्ववत प्रेम व विश्वास मुझ पर बनाय हुअे हैं ।

आप निश्चय जानिये म उन परमाणुआ स बना हुआ नहीं हूँ जा हवा के साक स आन्तलित होउठू और इत स्तत परिश्रमित हुने लगू आपन जो विचार धारा मुय म प्रवाहित करदी है वह अघावधि अजम्न रूपेण अन्न स्थल म प्रवाहित हो मकता है वह मरस्वती रूपेण अद्रष्टमान रही हो पर विलुप्त तो नहीं हो सकी आपमे विनग हाकर मने इस काल मे कितना कस्ट कितनी बाधायेँ झेली हैं हृण्य ही जानता है विरोध और विपत्ति ता म्यान मरे साथ ही जम है पर आप यह जानकर गौरव अनुभव करेंगे कि इनके बीच अपन विचार स्वातंत्र्य का लेकर अगिग डटा घडा हूँ यह भी हा सकता है कि कुछ काय और भी स्पष्टत प्रत्यक्षत आपके साथ कधा न भिन्ना सकू पर कौन कह सकता है कि म तत्काल आपकी साग्य गगा म यमुना या ब्रह्मपुत्र होकर न आमिलू और आपक उद्देश्य की पूर्ति न कर डालू

पूज्य पथिक जी मुझे आप अपना हृदय ही ममजें आपका अनुयायी हान स हा मन अछनादि किसी काय मे भाग नहीं लिया मन्त पार्टी तो बराबर अपन प्रचार म दत्तचित्त है हम ही है जा एक दूसरे स खिचे दूर पडे हैं—रया बाबाजी (नर्मिहृण्यम) आपम मिलकर काम नहीं करना चाहत ? यह भेद मरी समय म नहीं आरहा है—साफ लिखकर भजियगा मेरी सम्मति म ता हम सबका मिलकर देहली स किमो पत्र का मचालन करना चाहिये यदि उद्देश्य पूण करना है या रिपामत क सम्पादक नवम्बर स जा राजेन्द्र नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी म निकालन जा रह है उसे अपनाना चाहिये जा हो अब चुपचाप रहना ठीक नहीं

मन शादी के विषय म जो भाव प्रकट किय थे आप जानत हैं उस समय आपस ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने का कहा था पर ससुराल न जा कल्पनायेँ कुस्मित भावनायेँ मुय पर जडी घी इसी से म विरत हो गया और मांगराल म आप मरी पत्नी की प्रकृति और मेर स्वभाव का आजीवन अनमन रहने का परिचय सवाद मरे ग्राम वामिया स पाही चुके थ उस पर मनुस्यता बें नाते मने एक माम सन् 32 म मर ससुराल म रहकर समुर स्त्री आदि को ममजाया—काई परिणाम नहीं निकला—वे कहते थ म अपन विचार छोड हूँ ता व (ममुर पक्का मकान बना देंगे—व्योपार क लिय रुपय थ देंगे—यह मन हृण्य का वचना स्वीकार नहा किया और हमेशा क निय विदा लेकर चन दिया तमाम मित्र परिवारिक म सब वान कटनी—मैने प्राग्मम स ही जिस कारण पत्नी म विरोध हुआ था स लगाकर आज तक की घटनायेँ सबका बतादी और कह दिया—म मनुस्यता के नात

दस वष प्रयत्न कर चका तुम्हारे आगे शिर झुका चुन अब जिम मेरी आत्मा नहीं मानती उस सब बप्टा विरोध म भी स्वीकार करन के लिय तयार नहीं तो अब लोग दूसरी शांती तत्काल कर लेने पर जोर दे रहे हैं कुटुम्बी भी इसस सहमत है भर विचारा का अब कोई विराध नहीं करता और मुझे विचारा पर चलने के लिये छोड चुने हैं अभी मैंने कोई निणय नहीं लिया है शांति लखनऊ म पढ रही है नाजिम महाराजसिंह जी सब भाति भर महायर है ही हमारा बही पिता पुत्र का मवध समीचीन है और आजीवन रहेगा

बाबाजी का भी पत्र लिखा या उत्तर नहीं मिला यन्ि आप मुझ सन्देश के सम्पादन काय का अच्छा सटिफिकेट भेज दें और उसम जिज्ञासु भावना ड्रवला लम्नादि का नित्र कर दें ता इमी वष सम्पादन कलारत्न म बठ जाऊ आशा है आप इतनी कृपा अवश्य करेगें आप तो सब भाति भर ही हैं मक्षार की मुझे किंचित भी पराहि नहीं है वीनिये अब क्या करना है ।

भाई राजेद्र आरहा है यह अभी म बडा राष्ट्र प्रमी सेवा परायन और बलिदानी भावनाआ स ओन प्रोत है मुन पूण आशा है आगे चनकर वह बडा राष्ट्र भवी मिद्ध हागा इस M D कराने का विचार है इनके पिताजी नाजिर हैं और भाई इद्रसन जी M A L L B जिहान मुझे इगनिअ पलार् है इनके बडे भाई हैं उहनि दो पुस्तकें त्रियो हैं समालोचनाथ उताहरणाय भेज रहा हू ये दोनो पुस्तकें आपके मर व उनके सबघा का और भी मुद्रक करेगी राजेद्र को अजमेर के सब दर्शनीय स्थल दिखा दी जीएगा मेरा सब सामान राजेद्र को दे भीजीएगा वह सुरक्षित ले आयगा अवश्य ही बम्बई कांग्रेस के अवसर पर आप सबके दर्शन करूंगा वहाँ ही हृदय की सब कहूंगा पत्र व्यवहार बनाए रहियगा

बहिन जानकी देवी को नमस्ते

आपका

अभिन्न

Post script

मैं अहिंसा को नीति के तौर पर मानता हू वसे कभी भरा उस पर विश्वास ही नहीं हाता । मैं इसके प्रचार द्वारा पुन नपुसक बना देन का पक्षपाती हूँ यहाँ भी मत पार्टी क पडा मे मेरी मुठ भेड होती ही रहती है मैं बराबर उनकी नीति की

छीछाल करेता आरहा हूँ अब इस दल का आपने प्रति क्या व्यवहार है आपका नतव की नष्ट करन के निये इसन क्या उठाकर रखा ।

आपका ही हृदय
अभिन्न

सयनिवाम काटा

(5)

R P Parsai From Khandwa (M B) to B S Pathik
Indore State Closed Karamveer And Malaw Bandhu
News Papers

मदाम

श्रीमान विजयसिंह जी पथिक अजमेर

मातर वन्दे मातरम्

कमवीर का गत अब आप पढ़ ही चक हाँगे कमवीर क समान मानव बंधु पर भी प्रहार किया गया है आज मुझे तथा कमवीर को इन्दौर दरवार का पत्र मिला जाना पत्र ता० 28 जून 1924 म बंद कर दिये मुझे यह भी कहा गया है कि जू कि मर इन्दौर म रहने मे अगानि फनती है इसनिये सभव है कि सरकार का यह आवश्यक हा जाय कि वह मुझे निर्वासित करन के लिये बाध्य होना पड़े ।

इन्दौर दरवार का मुझ पर पहल म हा काप है मालव बंधु के निकलन म अधिकारी बय को स्पष्ट हा गया कि समाचार पत्रा म इन्दौर के सम्बन्ध म विशेष कर कमवीर म भी लिखा करता हूँ अस्तु

इस काय म कुछ मित्रा का भी हाथ बनाया जाता है यह भी खबर है कि अब उह एक अघ सरकारी माप्ताहिक निकालन की महुलियत हा जावगा मित्रा क उन्नय करन की आवश्यकता नहीं यदि मावजनिक कायकर्ता बहाने वाता न रुपया सरकर बापना का माय नहीं दिया हुना ता दन दाना पत्रा पर उनका प्रहार करन का साहस नहीं होता मैं आपको बेबन मात्र अभी सूचना दे रहा हूँ मध्य भारत आन्दोलन का टीक समय उपस्थित हा गया हुआ कर निगिये क्या किया जाये

रघु प्र परमाई

मानव बंधु गुजरा

(6)

Pathik was invited to attend Madhya Bharat conference at Prayag in 1926 by Rameshwar Prasad Sharma. He was assured his expenses. Swami Kumaranand also participated in it.

From Agra he was Publishing Nav Sandesh in 1940

(7)

Human Bondage was prevailing in Kota State. The letter tells about the system and even the orphans were taken as bonded Laboures or slaves

Rajasthan Sandesh office

Ajmer 3rd September 1929

The Prime Minister
Kota State Kota

Dear Sir

From the letters received so far from my correspondent it seems that slavery is still practiced in the state openly. It is a wonder how the state allows this system to go on unhampered. It seems that orphans are caught and taken possession of to be given to a master who extracts work out of him for his life time. It was also come to my knowledge that from the girl orphanage of Kota some inmates were openly given away to persons for purpose unknown to the public. Another story is also equally disgusting. A Gujar of Nahargarh who was away to seek employment towards Mathura was taken possession of on the simple plea that he was already bound over as a slaves to a certain master. The Police caught hold of him and handed over the boy to the Palayata Thana. From here once again he escaped but unfortunately second time he was caught hold of and brought back. These are only some instances in paint which can be multiplied as it seems. You will please therefore take immediate steps and stop this infamous system. I particularly refrain from offering any more comment on the subject as the subject speaks for itself.

I am very keen over the affairs and as much I would await your esteemed reply as to what has been done in the matter

Yours faithfully
Sd/-P.L. Awasthi
Sub-Editor

(8)

Khilchipur State 4-12-28 welcomed Pathik's visit to State and Darbar sahib Rajgarh 5 12 28 Narsinghgarh 5 12 28 Jaora 5 12 28 Banswara 8 12 28 Bhopal 25 12 28 welcomed Pathik's visit He was Vice Chairman of A I S P C and one of the letters sent by Bhopal Darbar to the G L Asawa he is mentioned as Private secretary of Shri B S Pathik Holker of Indore also welcomed him

(9)

Rishipur Post office Hadiya Allahabad dated 13-2-30 letter written by Satyanarayan Tripathi who invites Pathik there He also points out about Jawahar Lal Nehru's inability to help Pathik's new special issue of Sandesh (Rajasthan Sandesh)

प्रिय भाई पथिक जी

मन्त्र की स्थिति का घाहक बनाने में ही मुझे भी न तो जवाहरलाल जी का बर बरने और अभी न समय ही है।

श्री प्रभू जी
रिषिपुर पोस्ट हदिया दाराहाबाद
13 2 30

(10)

**B S Pathik to Prime Minister of Bikaner state
about Corruption in administration**

The Rajasthan Sandesh Office

Ajmer

28 May 1929

To

The Prime Minister
Bikaner State Bikaner

Dear sir

From the records that are with us now it seems that the judicial affairs at Rajgarh are far from being satisfactory. The judicial Ahalméd Mr Khusiram is not well spoken of even by the people who serve under him nor by the officials. Some times back a petition was made to you by a clerk serving in his office which contained specific charges of bribery or some such things against the Ahalméd. It is also reported to have been substantiated by them in original. The public from all the four tehsils as well have expressed their disapproval of the Ahalméd in no uncertain terms and have repeatedly requested the state to transfer him from the place.

It is really surprising to note that as yet no steps have been taken by you in this affair. Incidentally we may take the liberty of pointing out that the standing rules of the department do not permit an officer or a clerk to stay at a place for more than three years and it is over five years now that this particular Ahalméd is sticking to his place inspite of somany complaints against him and it is only proper to shift him to other place by such a step the authorities would not only be acting according to the rules laid down but also they would be allaying the already enraged public opinion against the Ahalméd.

It has been our custom to refer matters like these to the authorities concerned first and get the grivences of the people

redressed thus by more amicable means. But if such a course does not yield the desired result we are felt compelled to give a wider publicity to the affair. We are sure you will agree with us when we say that this procedure is quite fair and quite in keeping with the true spirit of journalism.

We hope you will kindly do the needful in this matter as early as possible and also inform us of the same. We would await your reply for a fortnight.

Thanking you would approve of our method and thanking you anticipation. We remain yours truly

B S Pathik Editor

(11)

in the same way he wrote to Her Highness the maharani Regent Gwalior state regarding Bohra Abadiji Adam's money orders. It is stated that the said Person despatched M O S No 651 dt 24 1 29 for Rs 24 to Netanganj (Burdwan) and No 918 dt 11 3 29 for Rs 3/- to Bombay but could not received receipts of those. The matter was referred to P M lasker Trade member but no vain so Pathik wrote to Her Highness. He wrote one Letter to P M Holker state Indore about private practice of the doctors and neglect of poor patients on 6 6 1929. The p m office Indore replied on 10 6 1929 That private practice was allowed in accordance to rules but he would look after the negligence.

(12)

Editor Rajasthan Sandesh to Rao of Masuda

Rajasthan Sandesh Office

Ajmer 27 September 1929

ee-man shree Masuda Rao saheb

suda (Ajmer Distt)

Dear Sir

we have to bring to your kind notice a very painful fact that has reached us here. The fact is as follows —

That while the Estate was being Managed by the court of wards a model farm together with a kothi came in to existence two miles northwards of Jalia Here the General Manager perforce exacted goods from the Baniyas on rates fixed by the riyasat After the Rai saheb came in to the power all the Mahajans were collected and ordered to render the needed goods at fixed state rates After some time the Rai Saheb came to stay in the Kothi with about a hundred people and the Baniyas were ordered to weigh goods for kothi it self and people were forced to do so there being no proper arrangement of houses and due to the tricks of the servant class in general the Baniyas in the long run suffered terribly Not only that they did not gain anything out of the transaction but they actually lost much once again when the Rai Saheb came and stayed in the Kothi the same old game was tried over again perforce In vain did the Baniyas plead their business had suffered terribly because people had left far else where due to the represive government and yet they were made to do the masters will while they were doing this service for the Rai Saheb their land remained unclutivated because of the official instigation and they suffered deeply in consequences Now their grocers who have refused to do illegal will have also been suffering because the officials have ordered that no farmers should work on the farms of the so called shirkers of doing their masters will You have been approached many a times but no redress has been found yet

We hope that you will please take some early action

(13)

**B S Pathik to Prime Minister of Jodhpur State regarding
Stata Peoples Conference in the state**

Dear Sir

Ajmer 17 8 29

Rumour has it that the state is contemplating shortly to enact a rule that will ban all attempts of holding public meetings and even the free movements of public workers in the state As the coming events are said to cast their shadows before this

contemplated move is interpreted to further the rule of repression which may begin in the state any moment

There is another story item which lends colour to this theory And it is that the people have decided to hold of States Peoples Conference in the state Naturally people think that this alleged forearming of the state is nothing but an attempt to frustrate their desire to hold any conference of the sort in the state area

We assure you that we are for good laws and ordered government But we may also be permitted to point out that all laws derive their imports from the sanctions that they recruit The times are by far changed and no Government worth the name can afford to pull on unhampered without holding to the voice of the people

we are quite confident that you are well aware of the time and their implications and as such we will not dilate on the point Rajputana has almost earned a reputation for cabalistic methods But thanks to the skill and management of the Jodhpur state officials they have appreciably managed at least from this state to keep off the bear Not that the people are apprehensive of the danger and that they are feeling nervous it is the duty of the officials to assure the people that the fears are absolutely unfounded

So far as we are aware we know no public workers from whom the state has to fear More over if there be any grounds let the state deal with them individually Let them take the aid of those laws which are so super abundant in this unfortunate land But let them not commit the sin of creating a new matter and if at all the state Government is apprehensive of any thing let that particular item have the chance of clearing his case before the state officials thus the whole lot will not suffer for the faults if at all there be any of its part

We hope you will please persuade the authorities to desist from enacting if they so wish any such and chronic measure

In fact the state would be rendering a signal service by allowing the meeting pass off unhampered. It would be an enviable example for other states to follow. Hoping to be excused for all the troubles

Yours faithfully
Editor
Rajasthan Sandesh

(13)

Commissioner Ajmer gives a notice to Printers

NOTICE

The Local Administration of Ajmer Merwara wishes to bring to the notice of the keepers of printing presses in the district and other concerned in the publication of news papers the provisions of the Criminal Law Amendment Act which enables action to be taken against any such person who uses his news paper in such a manner to further the civil disobedience movement

Section 17(1) of the Criminal Law Amendment Act render liable to imprisonment for six months with or without fine any person who in any way assists operation of an unlawful association

INSTANCES

The following are instances of the class of matter the publication of which would be considered by the local Administration to require action under the provision of law quoted above

- 1 Congress propaganda of any kind including messages from person arrested
- 2 Any message issuing or purporting to issue from persons confined in Jail
- 3 Any immoderate criticism of the local Administration or Government officials
- 4 Any exaggerated report of political events
- 5 Any notices or advertisements of meetings processions or other activities intended to promote civil disobedience

- 6 Any photographs of persons taking part in Congress activities or any incidents relating to such activities

The above illustrations are not exhaustive but are intended to give some guidance to those concerned as to the kind of matter which might expose them to penalties. At the same time the local Administration wishes it to be understood that they have no desire to interfere with honest journalists and have no wish to penalise any news paper which is ordinarily will conducted for the inadvertent inclusion of undesirable matter should isolated instances of in-intentional inclusion occur

Sd E C Gibson

Commissioner and Dist Magistrate Ajmer Merwara

No 1666-106

Dated Ajmer the 30th January 1932

Copy forward to Abhinna Hari Sakhityaratan S/o P Ram Gopal Sharma of Sandesh Printing Works C/o Hindu Hotel Ajmer Thakur Deshraj also joined Rajasthan Publishing House Siddusingh Rajput was the keeper of Jankidevi Press

(15)

A Brilliant Victory

Palanpur yields Bhil agitation

This week brings the news of an astonishing victory won by the Bhils and the Grashias of Palanpur within a week. In 1923 their agitation brought among other redresses the exemption from an tax on forests, grams and sarsu crops. Dissensions among the Grashias in last February provided the authorities much

desired opportunity of going back on their previous agreement. They determined to tax forests and exempted crops. Having made in vain representations to the authorities and the Nawab, the people got exasperated. Rumours of Nawab's impending visit to England added fuel to the fire. They resolved to emigrate as the last resort. On the night of the 21st ultimo this decision was announced by a beat of drum in the villages. By next morning about thirty villages were seen deserted, people having emigrated with cattle and bare necessaries despite all official precautions. At this the Nawab calmed down and passed orders of exemptions on forests and gram and sarsu crops.

(16)

**About a Head mistress of Girls School of
Raipur (Indore)**

रायपुरा (इंदोर)

यहाँ श्रीमत् ने कन्याशाला की सुशिक्षा के लिये एक कन्या शाला स्थापित की। यहाँ की मुख्य अध्यापिका आज कल अपने भले आचार को महान उत्तमता की दशा में ला रही हैं। यहाँ तक कि आपके विषय में हेड मास्टर सा० व जमीन सा० के पास अजिया कई ध्वजिया ने दी। किन्तु अजिया का असर आप पर जरा भी नहीं पड़ा। आप यह सुन कर कि विरुद्ध अजिया दी जा रही है आग बबूला हो गई। आप यह भी कहती हैं कि मेरा कोई भी अफसर कुछ नहीं कर सकता। मैं उन्हें चाहे जसे प्रसन्न कर दूंगी व जिहाने सूचना दी है उन को अफसरों से दण्ड दिलाऊंगी।

आशा है एज्यूकेशन डिपार्टमेंट वाले ध्यान देंगे।

(17)

**Necessity for a vigorous Movement for grain
rate control and Mojority in the council
being established by the ruler of Indore**

गल्ले की महँगी के कारण यहाँ की सरकार ने अन्न रियासत में गल्ले की खानगी बन्द भी कर रखी थी इस कारण यहाँ 37 रुपया माणी गहुँ मिल रहा

या। ता० 30 3 21 का दावान जी का गृह खानगी के लिये सकेत पाकर कतिपय व्यापारियां न गृह वाहर भेजने के लिये 52 रुपया माणी के भाव से खरीदा और गल्ले का भाव चढ़ गया जनता व्याकुल हो उठी एक दम बाजार बंद हो गया लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिये परिणाम यह हुआ कि गृह का भाव बढ़ना बंद हो गया परन्तु अब श्रीमान महाराजा साहब शीघ्र ही विलायत यात्रा का जाने वाले हैं। पाछे कुल अधिकार दीवान एम गोविन्द राव जी के हाथ में रहेगा। उस वक्त य आपनी मत्त मानी करेगे। अत इन्दोर की जनता की श्री महाराजा के समीप जाकर अपना दुःख प्रकाशित करना चाहिये क्योंकि वे सुनते हैं। बाद में कोई सुनने वाला न होगा। यदि आपको सुख में रहना है आप अपने स्वतन्त्रता की रक्षा चाहते हैं तो गल्ले का कट्टाल अपने अधिकार में ले लीजिये। सुना है कि श्रीमान महाराजा साहब यहां कौंसिल की स्थापना कर रहे हैं और यह भी सुना है कि उसमें बहुत म रियासत में वाहर के रहने वाले लोग रहेग। जिन्हे रियासत की प्रजा से तनिक भी प्रेम नहीं है अत जनता को चाहिये कि कौंसिल में अपने प्रतिनिधियों का बहुमत रखन का प्राण प्रण सं यत्न करे। यह अवसर है। जाणा है कि इन्दोर जनता इस हाथ में न जाने देगी। साथ ही पूर्ण विश्वास है कि जनता ने इस बात का आदोलन किया तो श्री महाराजा साहब अवश्य ही यह स्वीकार कर लेग। आवश्यकता है धार आन्दोलन की।

सम्वाद दाता

(17)

**An appeal to the state authorities of Indore for
opening vernacular final school in
Nemawar District**

इन्दोर

नमावर- यह जिला राज्य के पाच जिला में से प्राय तीसरे नंबर का जिला है। उसमें करीब 310 गांव व इनकी 6 लाख रुपये की सानाना आय है। यह जिला इन्दोर से अधिकदूर हान व रेव व सडवा के जिले में न हान से श्रीमत्त राजेश्वर के सिंहासन हान में आज तक श्रीमत्त व दगन का सौभाग्य भी प्राप्त न कर सका व इसी कारण से राज्य के धन्याय के उच्चाधिकारियों के भी लोरे बहुत ही कम होन है इसा से हम जिले की राज व्यवस्था में कुछ नरमा गमों बनी हुई है। विशेष कर शिक्षा के सम्बन्ध में यह जिला सब जिला से बहुत पीछे है। इस जिले में कुछ

10 अग्रजी व 18 हिन्दी शालाएँ हैं। जिनमें से हिन्दी में 7 अग्र प्राथमरी 11 साक्षर प्राथमरी शालाएँ हैं। अग्र प्राथमरी पाठशाला में हिन्दी व 4 दर्जे तक पढ़ाई है और साक्षर प्राथमरी में 3 दर्जे तक। अग्रजी पाठशाला जा कनाद में है उस में 4 ब्लास अग्रजी व 3 या तीन कक्षा तक मराठी व अग्र तक हिन्दी है। इसमें पाठक जान सात हैं कि जिले में ज्यादा से ज्यादा कानों में 4 ब्लास अग्रजी तक पाठशाला है। आगे पढ़ना हो तो या तो इन्हें जाना या अन्य कहीं। कुछ साल से स्टेट में जिला में वर्नाकुलर फाइनल स्कूल स्थापित हुए हैं। यहाँ तक कि आलमपुर जो इस जिले का 1/5 से कम है वहाँ भी स्कूल स्थापित हुआ है। परन्तु इतने बड़े जिले में कई अजिया के होने हुए भी स्कूल स्थापित होने का पता नहीं। जिले में से सिर्फ खात गावसरे से जो जिले का दूसरा न० का कस्बा है 6 मास अजिया शिक्षा विभाग व दरवार आदि में दी जा चुकी है परन्तु सब के नाम चुप। नहीं जानते कि शिक्षा विभाग इस जिले में वर्नाकुलर फाइनल स्कूल खाने का नाम जान में क्या तब डाल पड़ा है? क्या अगली बार हमारी आशा सफल होगा कि हमारे श्रीमंत तथा शिक्षा विभाग व उच्चाधिकारी वगैरे में से विवेक वर मुना जिम बहादुर हेड इन्स्पेक्टर साठ इस प्रायना पर गौर वर बढ़ाने शीघ्र अपने नये अधिकार का इस सत्वाध द्वारा आयोगण करेंगे।

एक शिक्षा-प्रेमी

(18)

A letter from Govindram Nidhajkar who was a state employee and married his daughter to Dewan Palsikar but this marriage was not recognised by the state

इन्दोर

गाविन्द राव निघाजकर का किस्सा 'कसरी' व किसी गनाक में निकल चुका है। रियामन न थी निघाजकर की कानपुर मजिस्ट्रेट के सामने कहीं हुई बात व विरुद्ध एक कम्प्युनिकर निकाला है। श्री निघाजकर न उसका उत्तर में हमारे पास विस्तृत विवरण प्रकाशनाय भजा है। स्थानाभावसे हम उसे ज्यादा क्या नहीं द सकते तथापि उसका सार मात्र देकर जाना करत है रियासत उस पर विचार करके श्री निघाजकर व उनकी कन्या व ऊपर लिखे गये आयाम को दूर करगी।

सपादक

महोदय ।

27 जनवरी 1921 के 'मल्लारि मानण्ड विजय' में प्रकाशित इंदौर राज्य के दीवान के हस्ताक्षरों के कम्युनिकयू को मैं पढ़ा है। जम्म 15 दिसम्बर 1920 को बानपुर के फस्ट क्लाम मनिस्ट ट के मामले में दिया हुए मेरे बयान का गलत व निमाल्य बतलाया गया है। किंतु मैं फिर कहता हूँ कि उस बयान की सब बातें सच या सत्य हैं कम्युनिकयू की यह दावा दलील ही नहीं है कि उस (मुझे) स जब दस्ती लिखवाय गय दस्तावेज का महत्व व आशय समझना ही कठीन है। क्योंकि त्रिम समय उसने अपनी स्त्री व पुत्री को भेजना पसंद किया उस समय लड़कियां को) उठा ल जान की भन्दी अपवाहें बिलकुल नहीं थी। मून भी लें कि अपवाहें नहा थीं वा भी क्या इमम यह साबित हा गया कि अपवाहा के जसे बुराई भी विशयमान न थी। यह काम मेरा नहीं है कि तलवार दिखाकर लिखवाये गये दस्तावेज का आशय भी बताऊँ। मून इस घटना स खतरा हा गया था और अतएव मैं अपना स्त्री का पुत्री व साथ अग्रिम सुरक्षित स्थान में भेज दिया। बोई भी व्यक्ति जो मेरे बयान का पढ़ेगा साच सकेगा कि मैं अपनी मिलियत का खुशी स नहीं छाड़ा था। मैं साठ वष का बृद्ध पुरुस जिमन 25 वष तक ईमानदारी स राज्य की सेवा की है। अत यह कहना सच या असत्य है कि मैं किसी क हाथ की कठपुतली बन रहा हूँ। याही सी भी बुद्धि रखन वाना यह सोच सकता है कि कोई भी पिता अपन किसी हेतु विशेष की सिद्धि के लिए अपनी पुत्री को इम प्रकार फजीहत में न डालेगा। वेण्णव दाम न तो वसा ही कोई प्रतिष्ठित है और न अधिकारी। मून को हानि पहुंचवाने की उसकी नीयत का कोई कारण नहीं है फिर पुनिस कन्स्टबल व पुनिस सब इन्स्पेक्टर का उससे मिन जाना और उसका शकरराव गावडे व गुलाम मुहम्मद मुपरिन्टेण्डेंट मिटी पुनिस का साथी बनन का क्या कारण है। वेण्णवदाम गरा ही रत्ने टिकिट खरीद कर खाना नये जाने पर विवश होकर मैंने इन्दोर छोड़ा था। इस की इतला मैंने इन्दोर दरबार और मध्यभारत के ए जी जी का तत्काल ही दे दी थी। वजाय इसके कि मेरी इस प्रार्थना का उत्तर दिया जाता और मरण देने के साथ ही मामले की निष्पत्त जाच का आशयमान दिया जाता दीवान साहिबने मुझे अपनी सफाई देने का अवसर तक न देत हुए मेरा उपरान्त प्रार्थना ही को अपने कम्युनिकयू का विषय बना लिया है। मेरा यह फज था कि अपने व अपना क्या के दुखा को अधिकारिय के सामन रखता और उनके दूर किय जान की आशा भी करता। यही मैंने किया भी। परंतु यही वह अपराध है कि त्रिमवा दण्ड मुझे और मेरी निर्दोष क्या का दिया जा रहा है।

इस कथन के सम्बन्ध में कि 'दरबार में विवाह का जवानी नाजायज घतान जलावा हार्द कोट द्वारा इसकी अप्रमाणिकता प्रमाणित करली थी मैं अपनी अभागी लड़की के मुकदम की सय घटनायें सामने रख कर उस हार्द कोट की बठका के कानूनीपन व जायता का दूसरा के निणय के लिय ही छोड देता हू ।

24 मई 1915 को जिस समय दीवान पलशीकर के साथ मेरी पुत्री के विवाह की आवश्यक सब विधियां होकर केवल सप्तपत्नी शपथ थी राव ठा लक्ष्मण सिंह ने आकर इस कथन के साथ विवाह रद्द दिया कि यह दरबार के हुकम के बिना हा रहा है इस पर दीवान की मौखी गीतावाई ने सब जिम्मेवरी अपने ऊपर लेकर कहा कि उसके स्वास्थ्य और सुख की दृष्टि में उसने ही यह सब ध किया है । तो भी कोट आफ वाटम के हाकिम ठा लक्ष्मणसिंह ने प्रधान की आज्ञा न होने तक शादी रोक देने का हुकम दिया । इसके बाद ठा लक्ष्मणसिंह ने आध घण्ट में प्रधान जी से विवाह कर दिया जान का हुकम ना दिया । जत शास्त्रानुसार विवाह की सब विधियां हाकर वह विच्छेद्य हो गया । दरबार उस समय माथरान थ । वही उनको इन मामले की इतला दी गई लेकिन उन्होंने विवाह ना जायज स्थाकार न किया तब मैं गीतावाई आर अपनी सानी श्री कामले के साथ दरबार के सम्मुख सब कथा सुनाने को माथरान गया । किंतु हमारी आज्ञा पूरी नहीं हुई । दरबार के सत्रेदारी न वही उल्लेख किया और कहा कि तुम अपनी लड़की का और कही चाहे जहा ब्याह सप्त हा इसके बाद भी कई बार कई तरह के प्रयत्न कर देखें यहा तक कि श्री शकराचाय से भी इस विवाह की प्रमाणिकता स्वीकार करा दी ता भी दरबार ने स्वीकार नहीं की ? फिर मेरे जमाता जो पागल ठहराम का दुष्प्रयत्न किया गया परंतु वह भी सफल नहीं हुआ ? दरबार से बार-बार प्रार्थनाय की गई कि इन कारवाइया में एक निरपराध बालिका को अपना सम्पूर्ण भावी जीवन विधवा हाकर बिनाना पड़ेगा किंतु सब निष्फल । उलटा परिणाम यह हुआ कि मर जमाता का तीसरा विवाह करवा दिया गया । इस प्रकार एक नागरिक के घर व्यवहार में अत्यन्त अनुचित और निन्दनीय हस्त नेप किया गया है । मुकदमा अभी तक चनाया जा रहा है । यदि उसका परिणाम अनुकूल भी हुआ तब भी मेरी लड़की को तो सोन बन कर हा अपना जीवन बिनाना पड़ेगा हू गाविलराव गणेश निधोजकर 26 फरवरी 1921 ।

(19)

About the search for heir apparent of Jaipur Finally
 Kunwar Mormukat of Isarda was adopted on 24th
 March 1921 Later on he became the Maharaja
 in the name of Sawai Man Singh II

जयपुर की वर्तमान दशा बहुत ही विचित्र हो रही है। जबसे श्रीमान् की प्रवृत्ति अस्वस्थ हो रही है तबसे यहाँ की शासक मण्डली में परम्परा बमनस्य बढ़ रहा है जिसका फल भोली भाली प्रजा का मोहना पड़ता है। श्रीमान् जयपुरधीश का अपना भरोसा कुछ सज्जना पर डालकर सन्तुष्ट हो गया है। किन्तु वे अपने स्वायत्तता का ध्यान न कर केवल सन्तुष्टि विचारों से ही काम ले रहे हैं। स्वर्गीय बा० कान्तिचन्द्र मुर्जी के समय के वास्तव में कच्छरी में रिष्यत का बाजार जितना दिन गम हो रहा है। किसी को भी भय नहीं है कि हमारा इस अनुचित व्यवहार पर क्या होगा। क्योंकि वर्तमान शासक अपने अपने बमीला के कारण ही आनन्द में हैं और वे प्रजा के हित का अपना काम ही नहीं समझते हुए हैं। आज केवल एक ही बात लिखनी आवश्यक है। श्रीमान् जयपुरधीश के कांड और सन्तान नहीं है इसलिए सुना जाता है कि जयपुरधीश का विचार हुआ है किमी योग्य का इसका लिये नियत किया जाय। शासक मण्डली के कृपापात्रों की सलाह में यह निश्चय किया गया है कि इमरदा ठिकाने में वर्तमान ठाकूर साहब के कनिष्ठ पुत्र को युवराज बनाया जाय। इस बारे में प्रायः तौर पर ही न जान ब्या-ब्या कारवाई की जा रही है जाहिर में कुछ नहीं किया जाता पर वास्तव में दबा जाय ता हमें प्रश्न को बहुत ही विचार एवं विवेक से तय करना चाहिए।

इसके निषेध के पहिले प्रजा के हित का ध्यान रखना आवश्यक है। यह भी विचारन के योग्य है कि युवराज पदा हुआ ही धर्मात्मा हो। धर्म के अनुसार जा अधिार रखता हो। माण्ड में जा नजीब का है उमना ही हक है। जहा तक तक सुना गया है उन में कामा जिलाय वातर ईसरदा पास हान है। कामा के लिये पहिले से एसा अपवाद फल रहा है जो उनके अधिकार में बाधा डालता है। यिनाय भी गोद के आय हुए हैं। वातर जिलाय में ही भोली नजदीक है इमरदा के

अभी तक बालक है। इसलिये धर्मशास्त्रानुकूल बालेर का ही अधिकार है। बालेर 26 वर्ष के है सम्भृतन है। किन्तु न जाने क्या हम तथा योग्यता का अपलाप करके यह प्रश्न व्यय दूसरे के रूप में हा रहा है। क्यों प्रजा की कोई सभा ही नहा है। क्या प्रजा का भना माचना राजा का कर्तव्य नहीं है। जो बिना विचार के ही यह प्रश्न तय हा जायेगा। इसलिये धर्मार्त्मा जयपुराधीश की मेवा में प्राथना है कि वह इस प्रश्न को प्रजा की सम्मति तथा शास्त्रानुकूल ही तय कर उन स्वार्थी शासका के स्वाय के भरोस ही न छोड दें। क्योंकि यह खाम उन का ही कर्तव्य है आशा है कि जयपुराधीश इस विषय का विचार पूर्वक तय करेंगे।

एक हितचिंतक

जयपुर के जलबे

युवराज प्राप्ति के निमित्त जयपुर में जा जलम मनाय जा रह है उन विशेषत जागीरदारा के जलसा में बेश्या और मस्त्रिा ही शोभा बधक वस्तुए होती है। 10 माच की रात को छतडी राजा जी के यहा ऐसा ही एक उत्सव था। मुरा पान के मज को शिगुपित करन के लिए जयपुर का प्रसिद्ध शराबी घाल बडी भी बुलाया गया। उमन शराय इतनी बडा ली कि नाच रग के बीच में हा एर कान में पडी हुई दरिया के डेर पर वेमु हो जा गिरा। जनसा समाप्त हान पर नश में चूर नौकरा न बिछी हुई दरिया ममट कर घोल बड पर डाल दी थोडी देर के बाद जब घोल बडे की तलाश हुई ता दरिया के डेर में स खून बहता मित्त घोल बडा मरणामन अवस्था में था। उसी समय शहर के हम्पनान में गहुवाया गया ता घटे बाद घाल बडा चन बगा।

पर का भद्र

(20)

Bikaner Maharaja reorganised his administration on British lines but councilors and its chairman were from royal family

बाकानेर

निम्नलिखित मन्त्राज्ञा न अपन राज्य में ब्रिटिश भारत की सी शानन प्रणाली प्रयत्न करन के निय कोगिन कोमिलर मन्त्रपति आदि बनाय। मन्त्रपति तो

राजकुमार है। कौंसिल के दूसरे सदस्य भी सब ऐसे ही हैं। सभासदों का प्रजा की भलाई की चिन्ता नाम का भी नहीं हो भी कस जब महाराज की इच्छा का भी विरोध नहीं हो सकता। कौंसिल केवल ढकामला है। भारत की सी ही नौकरशाही यहाँ बनी हुई है। भारत में गौरा को उच्च पद मिलत है ता यहा राप्रिय (राज्य प्रिय) ही उन पग के योग्य समझे जात है। मारवाडी ता शायद मारवाडी हान से ही अयोग्य ठहरा लिये गये ह। यहा भा नौकरशाही बनन का मुख्य कारण यही है कि महाराज वृष्टिभ भारत की नकल करते है और वह नकल भी अच्छे गुणा की नहीं पर दुगुणा ही की। आगल भारत का सा ही नया युग और स्वराज्य' यहा स्थापित हुआ है। प्रजा की ही कोई आवाज नहीं। नकल है इण्ड की गारगाही की और गुण है भारत की नौकरशाही के पर मूसीबत है प्रजा की।

दिलजना

(21)

Ruler's visit corruption by Tehsildar's

बीकानेर श्री दरबार न। माच में मूरतगड से टीवी तक अपन राज्य का गौरा किया। राजकुमार भी आये थे। पिता पुत्र ने दुखी प्रजा की रामकहानी बड़ी उत्सुकता से सुनी। तहसीलदार टीवी के विरुद्ध रिश्तत की शिकायत की गई थी। आप ने सब की 'यथा मनोनुकूल वाता से शात की।

(22)

Students wrote essays on Gandhi and Tilak

चूरु में जब सेठ सरदार अल जी का जन्मोत्सव स्थानीय तहसीलदार जी के सभापतित्व में हुआ था तब विद्यार्थिया न स्वदेशी में गांधी व लोक माय के विषय में भी निबंध पढ़ सुनाये। लागे को तो वे बहुत ही रचिकर रूप परंतु सभापति ने कहा कि लड़का को ऐसी शिक्षा न देना चाहिये।

(23)

Kabir Pathshala for Chamars in Churu

13 फरवरी को युवक मण्डल की आर से चमारा के लिये एक कबीर पाठशाला खोली गई। उस समय पहिले चमारा के लड़का के रोनी का तिलक किया

गया और फिर उसी से ब्राह्मणों के भी । प० गोपालदाम जा व लीलाधर शास्त्री का उत्साह प्रशंसनीय है । उस पाठशाला का काय प० हीराचन्द्र जी अवतनिक रूप में करेंगे ।

(24)

Panic in the Jagirdars of Jaipur and Mewar

जागीरदारों में हलचल

संदेश के जीवन के प्रारम्भ काग म ही हमने जागीरदारों का बटलर कमेटी की कायवाही के फता म मावधान किया था । कुछ जागीरदार बुलाये भी थे पर अपनीमची की पोषक की तरह उनकी वह जागति क्षणिक ही रही । प्याले निवाले और मारवाडी मामूला म फम कर वफिर जहा के तहा सा गए । अब जब फता का सूत्र हाने लगा तब फिर उनकी लपकी भगती मो लिखाई देने लगी है । जयपुर राज्य मे जकात का अधिकार और मवाद 16 मर्दारो को छोड कर शय वा कलाती सायर जादि का अधिकार हडप किया जाना है । इससे इन दाना जमहा के जागीरदारों म कुछ खलवली मची है । पर परिणाम क्या होना है ? उहे तो वही पुराने हथियारा का प्रयोग जाता है और व इम जमाने के लिय निरयक हैं ।

**First Rajputana & Central India
Students Conference
BEAWAR**

(Held On 31st Dec & 1st & 2nd Jan 1938)

**Reception Committee Chairman
Kumaranand's Address**

Published By -
Comrade Gopilal Sharma
Publicity Secretary
Student's Conference

Printed by Chimmansingh Lodha at the
/ Mahavir Printing Press
BEAWAR 1937

31st December 1937

Comrades

I am feeling genuine joy in my heart in offering a warm and cordial welcome to you all on behalf of the Beawar Students Union in particular and the people of Beawar in general at this unique occasion of the First Rajputana and Central India Students Conference for which we have all assembled here this day Beawar with All Rajputana and Central India feels proud today in getting a chance of welcoming the great comrade Mr M N Roy and that hero of Bombay Mr K F Nariman. The students of Beawar will never forget this glorious occasion when they have got two illustrious sons of their glorious motherland amidst them in their own town. And I express it all on behalf of the Students of Beawar that their hearts danced with joy and gratitude when they had the consent of Comrade M N Roy whom they cherish as the master of their hearts to preside and the consent of Mr K F Nariman—the youthful leader and hero of Bombay to inaugurate this unique Conference.

The Conference is unique in many ways. The first thing that may strike one is how it happens to be that this *All Rajputana and Central India Students Conference* which is the first of its kind is being held at a little town like Beawar which is of no great educational importance in the face of educational centres like Indore and Ajmer. The credit of it all goes to the Students of Beawar and to their sincere willingness to be enlightened in the grave problems that confront today the student community in particular and the entire humanity in general.

The Students Union of Beawar

This willingness to be enlightened led some active students of Beawar a few months ago to establish a Student Union—with a view to awaken students to a sense of social economic and political conditions of their own country and of other countries.

and the likely part which they can play in moulding these conditions for the good of all in their capacity as students and in their post student life to create an outlook of true nationalism cosmopolitanism and universal brotherhood among the students to secure better opportunities for higher cultural scientific and technical education for the poor and deserving with the help of the public to agitate for a sort of education which might be directly related to their practical life and circumstances and to consider over the problems that might face them from time to time

The idea of Rajputana & Central India Students Federation

Later on realizing that nothing could be achieved if they work in isolation without getting the cooperation of the students of this province and of the whole of India and that their energies would be all futile and utterly wasted if they remained a self satisfied unit and did not work in the ranks of the common and united front of the students of all India in solving their common goal they thought of calling a conference of the students of their province with a view to establish an all Rajputana and Central India Students Federation with the consent opinion and suggestions of their fellow students of the province

So fellow delegates you have assembled here And the Students of Beawar cannot but feel grateful to you for the willing response that you have given to their call and for the readiness which you have shown for cooperative action and mutual guidance Now that you have gathered here so willingly it is nothing un natural if I cherish a hope that you will all work in a frank and sincere spirit to achieve the object for which we have assembled here on a common platform

Rajputana Student Federation a necessity

In these days of the awakening of self consciousness in our countrymen when India is passing through a period of transition the students of other provinces have come forward and

organised themselves for the attainment of an equal status for our motherland in the community of nations and universal brotherhood of all humanity in close co operative friendship with all the other nations of the world

The all India Student's conference All India Student's Federation The Bombay Student's brotherhood and Student Unions and other organizations in different Provinces are the signs of a happy awakening and of a beneficial radical change in the student world The students representatives of India have represented their cause in the International Students Conference held from time to time in different countries of Europe In fact the Students of India have realized that there is going to be a radical change in the world and India cannot remain immune from the world current The Students of Rajputana and Central India studying in different schools and colleges are still disunited and disorganized The reality of a 20th century does not seem to have touched their hearts A truly living being cannot afford to ignore this reality

And it should be known that it is from the Students and educated intelligentsia alone that the future leaders of the nation and humanity who can carry the light of peace and freedom to all arise This evolution can more suitable and profitably take place if the students while they are students do not remain blind to the problems which face their country and the world at large which they can do by frequently coming in contact with one another on a common platform This necessitates the establishment of an All Rajputana and Central India Students federation as one of the constituents of the All India Student's Federation

The Problems that await solution —Students are a part of their country They are not separate from it —they can't be Hence the problems that confront us—the students who have assembled here are (facing) more or less the same problems that face our motherland Even more —in the present world a country cannot remain as a separate entity without

4457

being influenced by other parts of the world and hence directly some of the gravest problems that face the entire world are also our problems. But we must begin at home.

a) **Social and Religious**—Everything as yet seems to be in melting pot. Everything is curdling and boiling there and no finished thing has yet come out. In our social world there is a severe conflict between orientalism and occidentalism. And at the head of it there is the question of social relationship between the members of different communities—a tragic misfortune—one particular to India alone.

At the outset I may say that what is clear before my vision like a break of day after the rainy season is that all these opinions, arguments, traditions and conventions form together a mighty monster of Hypocrisy which has already turned my glorious nation into a nothingness and which still stands with its mouth wide open to erase even the last traces of its existence.

What I want you all to remember when dealing with matters social and religious is that there is only one ultimate Truth—it cannot be more than one) and that you cannot play with this Truth. *This truth is not of the mind. It belongs not to opinion, desires, conventions, interests, traditions or arguments.* Truth is a tree—the Tree of life growing out in the purity and freedom of intuitive discernments—soul ecstasies. Your soul and not the rubbish heap of thoughts and desires—is this True of Life—is this Truth. And a man's religion also cannot be anything else except this Truth. True religion consists only of intuitive discernments and soul ecstasies—and it is entirely an inner affair of man. Truth or religion is permanent, it never changes.

If you believe with me in this truth and religion, I hope you will not credit the opinion that the rules and laws framed by our ancestors or which are found in our old dharma shastras for our social behaviour are things which are unchangeable and are true for all times and circumstances.

It is only because of the fact that we have been crediting this opinion so far and building a shell round our small social groups and imprisoning ourselves therein without letting in the light and free breeze of fresh ideas that we find ourselves so weak and inactive—unable to cope successfully with new circumstances that have appeared and impotent to face the force that threatens our freedom

Remember it is very dangerous to live in a society which is closed up like a shell. We petrify there and grow unaccustomed to fresh air and fresh ideas. Fresh air is as necessary for societies as for individuals. Creation is the sign of life and not repetition and imitation. So as circumstances change we should also effect a change in our social behaviour. If we do so it does not mean that we are forsaking our religion or moving away from truth as it has been explained above that truth and religion are always one and neverchanging and they entirely concern our inner being never our outer being. All our external behaviour should be based on the findings of positive and social sciences and on reason and they should change as times and circumstances otherwise we may suffer stagnation and ultimately death

There is no other country on the face of the earth where exist such hideous and inhuman differences between man and man as they exist in India between the members of its different communities. A westerner is simply wonder struck when he sees at an Indian Railway Station vendors calling Hindu Tea and Muslim Tea or when he sees Water for Hindus Water for Muslims. He simply laughs at while we weep at our misfortune. This poisonous worm of communalism has eaten into the very vitals of our national life. This religion has been made a bargaining counter for the exchange of Social and political privileges by the so called communal leaders who stand waiting outside the door of their Master's Lodge licking for a few crumbs that their Masters might be kind enough to throw at them and then they get busy fighting amongst

themselves and misleading the innocent masses at the inhuman sacrifice of the cause of their motherland And they do not feel ashamed

And this so-called religion again which preaches that this world is a maya or a dream and that a man should concern himself only with Parlok—or the next world has served as nothing but opium on the minds of the people—the result of which has been weakness inactivity and an unwise contentment in illiteracy and poverty and a total ignorance about the meaning and enjoyment of life This religion again has served as a garb to the capitalists who never hesitate to retort that the miserable poverty of the people is an act of divine justice of which they (the capitalists) are the ardent instruments To guard our people against this fatal otherworldliness we should take to them the light modern thought the right preliminary aim of which is the satisfaction of the legitimate needs of the material mind sufficient ease leisure equal opportunity for all So that the whole of mankind no longer only the favoured race class or individual may develop the emotional and intellectual being to its full capacity

Hence true religion in man today demands of you to wipe out the most stringent caste-rules and to subordinate the sharp class distinctions the universal fellow feeling It demands of you to crush all religious sectarianism which has clouded manhood in the people and eclipsed the sense of common brotherhood In Turkey Kamal Pasha had the foresight to insist that religion should not obtrude in politics In China the father could be a Christian the mother a Buddhist and the son a Mussalman and yet no one suggested that their domestic life was unhappy

So this mighty task of wiping out of all distinctions of caste colour and creed awaits to be accomplished And none is better fitted to accomplish it than the student community Young would be reformer Assert your individuality against your parents

your society and religion and be firm Nothing can dare check your fresh vigour and rising spirit

Wipe out all caste system all false religion from the face of your motherland establish inter caste and inter national marriages and shine at the feet of your common Mother in the naked capacity of a human being with all false and unnatural distinctions of caste colour and creed shorn off and ready to embrace in love another human being This is the only solution of our communal problem And if you accomplish this task remember you will have won the love and blessing of the heart of your Mother and Freedom will come to you with folded hands

(b) **Female Problem**—The other problem which is engaging the attention of all and in the practical solution of which along the lines indicated by the findings of positive and social sciences the students can take the initiative is the female problem In spite of all the cry of Hindu religion and the ancient Indian civilisation that woman is the Ardhangini of man and that man and woman both are complimentary to each other a woman in India is given the position of an inanimate object and is kept bound hand and foot whereas a man is free in his ways She becomes the property of a man and like a mercantile commodity is possessed and made to belong to man in the same sense as a tree or a house or a money belongs to him Her education is neglected and she is kept shut up in the four-walls of a house Within the four walls at a house even she is denied the free right of fresh air and sun light because she has to keep herself concealed in purdah It is not that woman does not have freedom or require free atmosphere for development but it is because man led by his jealousy and selfishness first made her economically dependent on himself and then claimed to possess the right of full dominance over her And he moulded religion to side him against woman The present condition of the relation between man and woman

has been graphically described by Mrs Kamaladevi Chattopadhyay in the following words — He (man) is all in all to the woman all powerful demanding unquestioned allegiance faithfulness to him becomes the supreme virtue and therefore marriage is the only and true vocation of woman and her aim in life to fit herself to it The greater her submission to man or more the suffering at his hands the surer and quicker her road to heaven From early childhood the imagination of man and woman alike is clouded by these codes and they grow up easy victims of such philosophy They are taught to consider themselves important only in relation to man and to fashion themselves on a pattern to serve and please them alone with no individuality or mission of their own Double standards of morality now come to be recognized a severe code for woman as the preserver of social morals of society and an easier standard for man whose fickleness and lapses are to be indulgently treated Little does man realize that in this are pregnant the seeds of his own decay In a society which tries to render woman helpless chattles of man child marriage and purdah are inevitable and along with it comes prostitution So this is what man has made of woman in India—a helpless chattle without an individuality of her own and totally ignorant of her existence in the real sense and yet he boasts of his civilization and dharma and aspires to make progress in this world ! How pitiable of him ! And due to all this our society has become so demoralized that while in London any lady can quite alone wander freely anywhere night or day without the slightest fear of being pointed insulted or kidnapped in any town of India where females observe purdah and men boast of their good old Indian civilization it becomes quite impossible for fear of being molested or being glanced at with undesirable motions

A community society or nation cannot exist in this universe for long—it has no right to exist by law of nature—if it allows one half of it freedom to develop and denies it to the other complementary half on which in its capacity as Mother mainly depends

the development of a child in desirable or undesirable channels. How many mothers would produce true citizens ready to sacrifice their lives for some noble cause if they themselves did not understand what true citizenship was and wherein lay the nobility of a cause.

On a satisfactory solution of the female problem to a great extent depends the making or marring of a nation. That purdah should be abolished and the females education is now admitted in principle nearly by all though the task has by no means yet been completed. The problem is the standard and system of Female Education — is it to be different from a man's education? and secondly the problem is of fixing true positions and functions of man and woman in society.

Let it be recognized on the first hand that a woman's mental and spiritual make up is similar to a man's and that she has got certain mental abilities and aptitudes as a man has. It is the task of the education to develop those mental faculties and unfold those innate capacities. The system of education that does it in the case of one should also do it naturally in the case of the other. The task is one—that of developing faculties and talent capacities—for this one task there cannot be two systems. The system of education that is good for one sex is also good for the other. There can be no difference in the system of education on the basis of sex distinction. Here in naturally comes the question of co education which I shall deal a bit later. First let me deal the question of the standard of education that a female should necessarily attain. Here again I feel convinced that the standard of education for both the sexes must not differ. The light of knowledge that you allow to the one you cannot withhold from the other. As much of liberal and cultural education as is necessary for a man to enable him to pass his life fitly and intelligently and to put him on the path of realizing his personality is also necessary for a woman. It is imperative for one and all—for all human beings irrespective of sex, class and race.

After so much of liberal and cultural education which must be common for all a person man or woman is free to proceed on according to his or her own inclinations and aptitudes. It is not necessary that all men would take up one course and all women another the course of study or the field of activity that one takes will not depend upon the difference in sex but upon one's own aptitude and inclination. Here in naturally usher the two remaining problems about women co education and the position and function of woman in family and society. The mentality which seeks to separate the two in education and work in society is identical with that which has led to the double standard of morality (which has been so aptly described in the quotations above from *Mrs Kamaladevi Chattopadhyay*) in social life. Writing about coeducation says an eminent sexualologist — I cannot see how an intelligent medical man could oppose such a system of education for it is a salvation of many who are on the ragged edge of sexual perversion. Boys and girls according to the laws of nature must be thrown together. As long as children are educated separately in different schools with different training so long will there be sex problems and their resultant evils. The more the sexes are differentiated the more attraction there is between them the sex attraction. When boys and girls are educated together as human being *this sex attraction will diminish and people will remember that they are human beings members of one family before they remember the difference in their sex.* The more highly developed this distinction of sex the more trouble we have over it and if we educate boys only to be men and girls only to be women they forget their duties in a clamour for their rights. It is only by performing our duties as partners in the progress of the humanity that we can attain our rights as individuals. Once the absurd sexual barrier was broken down the woman would be as free as man to live her own life to follow her own profession whether it was solely domestic or no. If they chose to concern themselves with politics and public affairs why not if they had the proper knowledge and talents?

Like a man a woman also has her own individuality. Each should develop his or her individuality and even after marriage

should continue the task with mutual help and understanding and never assume the shame belief that he or she has lost his or her individuality in the partner's. In case of mutual perfect and genuine love each one is in fact assisting the other in developing the personality of each other while they seem to think—and naturally enough—that they are losing their individualities in each other's.

All these problems naturally cease to exist and consequent difficulties clear away if once a man frees himself of all his prejudices and old and conventional notions about woman and tries to look at them (the problems) in the clear and unbiased light of intellectual freedom. Therein he will discern that humanity consists of two partners each equal to the other, each complementary to the other and if both are to function well both should enjoy equal rights and equal freedom.

Young men and women of India the task lies in your hands. Humanity craves for social freedom—and it has its hopes centered in you, in whom the sap of youth is still green and to whom we may naturally turn for courageous leadership in striking boldly at all false shackles. Remember it was the great Atatürk who tore off the purdha from the face of his country at a single blow. Now the same muslim women in Turkey who yesterday regarded it a sin to come out of their harems and purdahs are today standing in the front ranks of the military ready to strike at any one who may have the audacity to raise a finger of insult at their motherland. And so in all the European countries. The backward Abyssinia too had its band of women warriors. Thousands of Chinese women are laying down their lives for the freedom of their country. In our motherland too no doubt there are signs of happy awakening—but how insignificant? They all faded away in the utter darkness that envelopes our female world and it is up to you—young students, boys and girls!—to be the torch bearers of freedom and equality.

Start! If anything comes in to your way push it aside—and proceed on.

The Educational Problem

It is a problem which directly concerns us as students and we have to see on the basis of result and facts that are before us whether the education which is being imparted to us today has really served any useful individual social or national cause or not

An individual has two aspects of life (a) The individual aspect (b) The social aspect In accordance with these two aspects of an individual education too has two aspect (a) The individual and (b) The social The first aims at the attainment to the full of a child's individuality by developing his mental faculties and unfolding the inner capacities that lie dormant in him The second aim (is) at giving the child a knowledge of his civic and national duties and responsibilities making him fit for discharging those duties and ultimately creating in him a civic and national character that may ever inspire him to a sense of altruism for the weal of all Education means nothing else except these two aspects of it

Judging in the light of this aim and purpose of education find that the sort of education that is being imparted to us today has been a tale of grim tragedy since the time of the inception of British Raj in India when it was started with a view in the words of Lord Macaulay merely to train up young nations for employment in Government offices and administrative services The first purpose of education that of developing personality has been frustrated by very ingeniously commercializing the system of education making it too mechanical and leaving no free scope for the teacher to exercise his originality The teacher goes to the school to receive his pay the inspector goes to inspect to make sure of his allowance the school conforms to certain mechanized standards of activities for fear lest its grant in aid be withheld — and this all goes on in spite of all show and fuss of training schools and colleges

The teacher withholds education or training in the true sense of the word from the child because he has a constant fear of threat

should continue the task with mutual help and understanding and never assume the shame belief that he or she has lost his or her individuality in the partner's. In case of mutual perfect and genuine love each one is in fact assisting the other in developing the personality of each other while they seem to think—and naturally enough—that they are losing their individualities in each other's.

All these problems naturally cease to exist and consequent difficulties clear away if once a man frees himself of all his prejudices and old and conventional notions about woman and tries to look at them (the problems) in the clear and unbiased light of intellectual freedom. There in he will discern that humanity consists of two partners each equal to the other each complementary to the other and if both are to function well both should enjoy equal rights and equal freedom.

Young men and women of India the task lies in your hands. Humanity craves for social freedom—and it has its hopes centered in you in whom the sap of youth is still green and to whom we may naturally turn for courageous leadership in striking boldly at all false shackles. Remember it was the great Atatürk who tore off the purdha from the face of his country at a single blow. Now the same muslim women in Turkey who yesterday regarded it a sin to come out of their harems and purdahs are today standing in the front ranks of the military ready to strike at any one who may have the audacity to raise a finger of insult at their motherland. And so in all the European countries. The backward Abyssinia too had its band of women warriors. Thousands of Chinese women are laying down their lives for the freedom of their country. In our motherland too no doubt there are signs of happy awakening—but how insignificant? They all faded away in the utter darkness that envelopes our female world and it is up to you—young students boys and girls!—to be the torch bearers of freedom and equality.

Start! If anything comes in to your way push it aside—and proceed on.

The Educational Problem

It is a problem which directly concerns us as students and we have to see on the basis of result and facts that are before us whether the education which is being imparted to us today has really served any useful individual social or national cause or not

An individual has two aspects of life (a) The individual aspect (b) The social aspect In accordance with these two aspects of an individual education too has two aspect (a) The individual and (b) The social The first aims at the attainment to the full of a child's individuality by developing his mental faculties and unfolding the inner capacities that lie dormant in him The second aim (is) at giving the child a knowledge of his civic and national duties and responsibilities making him fit for discharging those duties and ultimately creating in him a civic and national character that may ever inspire him to a sense of altruism for the weal of all Education means nothing else except these two aspects of it

Judging in the light of this aim and purpose of education find that the sort of education that is being imparted to us today has been a tale of grim tragedy since the time of the inception of British Raj in India when it was started with a view in the words of Lord Macaulay merely to train up young nations for employment in Government offices and administrative services The first purpose of education that of developing personality has been frustrated by very ingeniously commercializing the system of education making it too mechanical and leaving no free scope for the teacher to exercise his originality The teacher goes to the school to receive his pay the inspector goes to inspect to make sure of his allowance the school conforms to certain mechanized standards of activities for fear lest its grant in aid be withheld — and this all goes on inspite of all show and fuss of training schools and colleges

The teacher withholds education or training in the true sense of the word from the child because he has a constant fear of threat

and warning by the authorities haunting his mind in case he fails to push a child to a higher class at the time of examination which he is obliged by circumstances to accomplish by forcing the child to swallow a few memory pills at the cost of leaving all his mental faculties unexercised and undeveloped. In this alone lies the guarantee of the teacher's pay and the poor teacher has to submit to it.

There is no human touch between the pupil and the teacher or the teacher and the inspector. The School is a counting house for bargain. The whole is a commercial affair and everything is counted in terms of monetary gain and loss. Being a commercial affair the whole purpose of education is frustrated and rooted out. A boy issuing out of school and later on out of a college comes forth into the world with all its fine flower of inventiveness and originality crushed. He has no vigour left of taking an initiative in any task in fact he does not know what his inner capacities are and where he can be proved useful. He was robbed of all these things when his parent had put him on the bargain at the school counter house. Coming into the world he is gripped tight in the circumstances and the fellow finds himself unable to cope with the currents. This what the so called education leaves of his individuality or personality!

Judging this system of education in the light of the second purpose of education the civic and the national purpose we through out find an underhand attempt of the governing class for rooting out and crushing the true civic sense and national spirit of an Indian youth. And nothing better could one expect of an alien government whose sole object is to keep the conquered nation in perpetual bondage for exploitation. There is nothing unnatural in the policy of an alien government that seeks to introduce a pernicious and perverse system of education deliberately with a view to emasculate and kill the manhood and national pride of a nation. And one should not wonder if the British Govt did so in India.

It would not be out of place if I were to make an attempt here to give you a glimpse of the tactics that British Government has used to kill the feeling of national pride in an Indian youth

A boy in his primary school more often than not begins his educational career as was once said by Mr K G Nariman with silly lessons about British Kings and their kindnesses to India the protection they afford the happiness and security they confer on this country and what disasters would come to his country if that protection was withdrawn Then the boys would be taught and encouraged to sing —Long live our gracious King Long live our mighty King and if anybody by chance happened to add Long live our Jawahar he would be looked with an eye of suspicion and might even get whipping or rigorous imprisonment What greater heart rending insult there could be for an Indian youth than that he cannot even utter the name of his national hero !

Vandematram song cannot be sung the portrait of a national hero cannot be hung the beloved sons and of our Mother cannot be invited neither what they say can be cited the Tri coloured flag cannot be waved while a Union Jack must be saved—in an Indian School or College do not all these things point to the un expressed fact that under our educational system flows an under current of a determined British Policy which aims at moulding young Indian mind to think in terms of gracious British Raj and at producing chorus boys of British Imperialism ? These are the tactics

And the whole system rather the machinery works so smoothly and harmoniously that at the end it issues forth products—all faultlessly of one type and having one aim to secure a good job as far as possible with the Government with a fat salary to lead a comfortable and safe life This is the usual dream of a youth in School or College And if any wayward youth exhibits a love for his Mother he is discouraged and threatened by saying that his career will be spoiled Under this system a life of Slavery and Servitude comes to mean a good career and a life of freedom and service a bad career

Thus I have tried to show to you that the system of our education with the influences which guide it has not fulfilled *either of the two purposes for which education stands*. It has neither helped the individuality to grow nor created a civic and national sense rather it has sought to check the growth of one and to crush the other. What should be done with such a system of education I cannot decide. The decision must needs lie in your hand because being Young you can strike -and create

But while striking and creating a new you must not forget that the first step in the words of Irish Egyptian and Chinese Leaders. An honest endeavour to train up a generation of young man and women imbued with national spirit and national pride so that it or the next generation may stand boldly to free its country from the bondage of slavery and never sit until she is freed. Our education must be free from all the under currents of political or communal strife. There must be no nomenclature of institutions on communal basis like Hindu College Muslim College. It must be *vitaly related to life cosistent with the genius of the people of India and suited to modern conditions and circumstances*. Ultimately it must be based on principles that may enable it to fulfil both its purposes growth of personality and growth of true civic sense

But as I make all these suggestions I very much doubt even when we have got what we call provincial autonomy or provincial self government that an alien government will allow us in practice to reconstruct and reorganize our education on principles and plans *wholly consistent with our national require ments* and imbued with national spirit and national pride

But now that we have once been awakend to a sense of reality it shall not be impossible for us even living in the present slave institutions to draw on other sources of inspiration and other independent institutions to let us move ever forwards towards the path of conquering complete independence for our motherland. You must never cease demanding a right system of

education but in the clamour of that demand you must not forget your ultimate goal of freedom. Don't begin to think that unless you are rightly educated you cannot be free at the same time remember if you are rightly educated it will be easier to be free.

Students & Politics Terrorism

Here crops in the question whether students should take part in politics or not. The question has been incidentally dealt with above while dwelling on the problem of education. Now I may clearly state it with (the words of) Pandit Jawaharlal Nehru that students should not indulge in aggressive politics but as leaders of tomorrow they must keep abreast of world problems.

And once a holy war for Freedom should actively begin and flag of India invite you to the battle field you can not fall back then — then you must like true sons of a mother must come out and indulge aggressively at the sacrifice of your all in the fight for freedom.

Above all one thing I must strongly warn you against and it is terrorism. Terrorism as a political creed has long been discarded and wisely enough because a murder here or a murder there has served no useful purpose it can not serve. Rather for a single such murder many a flowering youth of India who otherwise could be of far greater value has been sacrificed and with absolutely no result. It is a prize which India can ill afford to pay. The real secret of success has been found to lie in a mass agitation or a mass revolution. Therefore beware don't be misguided. It is the government C I Ds themselves who will try to entrap you. Never make a secret of your activities because your cause is just and you stand on the legs of truth.

The problem of India the World

The problem that looms large on the horizon of India is its slavery with its consequent curses of hunger unemployment

and mass illiteracy I have been so far dwelling on our social religions female and educational problems But they all recede into back ground and fade into insignificance when slavery—the problem of problems—strikes us

What these 150 years of slavery under the beneficent British Raj have done of us and our country I will relate in the very words of an Irish member of Parliament who happened to visit India a few years ago He says India is the largest nation in the world with a population of 353 millions It has a civilization and culture going back for centuries It was the richest nation in the world until its subjugation by England about 150 years ago For 2500 years it was the intellectual and spiritual leader and guide of all Asia or a half of the world's population England went to that nation about the time the Mogul Empire was breaking up in the midst of confusion she conquered the country part by part She has held it since by the methods so successfully practised in Ireland Caste was set against caste religion against religion Manufacture was not encouraged in India or Ireland Instead the people have been taught to export their raw materials Year by year the agricultural population has grown Eighty percent live on the land They are very poor The average income of an Indian is four pence a day but fully forty percent of the great mass of the people only earn two pence a day It can be seen therefore that the great mass of the populace live on the fringe of starvation India now demands freedom to regulate her own destiny and there will be no peace or progress until this is conceded

It is reading of the problem of India by a foreigner—and its solution too that there will be no peace or progress until freedom is achieved And the tale of India's misfortunes brought about by an alien and hence ruthless Government does not end here

The Indian villager stands before the world in rags his mind undeveloped his cheeks sunken in exhaustion poverty insanitation illiteracy and total ignorance about the developments in the

world are marked features of the millions of our Indian people. Above all the underhand and the so called can't be helped ways of weakening undermining our nation stands to our shame that another blessing of the Firangi Raj—the Arms Act which has physically emasculated our once glorious nation.

So inspite of the fact that our country in the world is the most fertile and resourceful we stand today physically and intellectually masculated helpless naked and hungry—and that under the 150 years of beneficent British rule—this is the problem the problem of all problems for us.

And to solve this problem you shall have to make great sacrifices. Youngmen of Italy when asked by Garibaldi to follow him in the battle of freedom put him the question what would you give us if we follow you? And at once came the reply.

For following me in the service of Italy I will give you hunger and starvation and pain. And the Italian youth followed the great patriot. Students in other parts of the world—in Egypt in China in Ireland have made sacrifices for the cause of their countries. Korea's girl students and youngmen have worked with the one aspiration in their hearts— May Korea live for ever! And remember if you hesitate and lag behind when the call for battle comes the youth of the world will deaside at you and Humanity will curse you. And with all your ambition for a safe and comfortable job still selfishly nestled in your heart you will not get an honourable place to live anywhere on the face of this earth.

And while you ponder over and deal with the problems at home you cannot afford to ignore the problems abroad. In the world as it is constituted today you cannot isolate a country from the rest of the world and hence you have to keep yourself abreast of the world problems and while you are tackling with the problems of your home you have to do so in the light of the world problems and world situation.

The whole world today is in a melting pot. Europe is tottering. America is confused and confounded. Britain is gasping.

for breath Italy has devoured Abyssinia Japan is doing so with China Spain is in the thorns of a Civil War All these things point to the tragic fact that the world is divided into two warring camps On the one side stand the suffering poor—democracy and communism on the other side stand the rich few—imperialism and fascism You have to make your choice between the two But remember—in the former lies freedom and in freedom lies happiness Hence

Freedom as call to guide
 Nothing to push you side
 Dash through the Temple s gate
 Gape at the dazzling face
 Freedom – the Beauteous Grace
 There yet your heart will know
 No sad satiety lo !
 But sing in Love s purity
 A song of Humanity

Fellow delegates there have been unsurmountable difficulties in our way of holding this conference No help was coming for ward C I Ds were ever dogging us—I don t know why students as you know are not moneyed people but now that we have overcome all these difficulties and are now holding the session we should feel joy and under the able guidance of our worthy president begin seriously to try to tackle the problems that challenge us

I am conscious of the comfort that we have failed to provide you but I sincerely hope that you would very generously and in the true spirit of comradeship ignore our shortcomings

I would be failing in my duty if in the end I did not offer my heartfelt thanks on behalf of the Students Union Beawar to our noble Seth Ghisulal Jajodia without whose timely help it would have been rather difficult to hold the conference The Student Union bows down in gratitude to the bold and self-sacrificing spirit of Seth Ghisulal Jajodia Next I thank comrade Gopilal

Sharma the publicity Secretary of the conference who with his untiring zeal has been working day and night for the success of the conference and has shown a youthful and sincere heart working in him. Then I offer my humble thanks to all my friends and others who have co operated with me to make this conference a successful one.

In the end I don't know how to thank our worthy president. My heart is simply filled with joy and inspiration -and I have no doubt that under his wise and inspiring guidance we shall be safe.

Gandhi and War

PRESS SERVICE

Published by

The International Antimilitaristic Commission

No 20

24 Dec 1928

THE HAGUE—HOLLAND

Address

Albert de Jong Laurierstract 127

(The IAC consists of the International Workingmen's Association (IWHA) and the International Anti Militaristic Bureau (IAMB) The Press Service of the IAC is sent to all organisations of the IAMB and IWMA Moreover to all personal members of the OAMB paying a subscription of at least one Dollar per annum Further to all newspapers and periodicals which ask for it In return the IAC is glad to receive all periodicals pamphlets and books (if possible with duplicate) on matters appertaining to anti militarism and cognate subjects for the purpose of reviewing and noticing)

GANDHI AND WAR

Press Service IAC Important Correspondance—Gandhi declares that he will not participate in any future war of the British Empire—When India is once freed it is possible that Gandhi will vote for military training

I QUESTIONS OF DE LIGT

In Evolution (51 Rue de Babylone Paris) of June 1928 Ed Ligt had published an open letter addressed to Mahatma Gandhi

In the name of the Europeans who recognize the great importance of direct action in the form of passive resistance he pays homage to Gandhi for what the latter had done in his life and work in this respect. He gives a survey of similar actions and movements in the history of the West which are concentrated at present especially in the International Anti-Militaristic Bureau (IAMB) and in the War Resisters International (WRI).

Opposition to modern war which threatens the whole world is increasing from day to day. Asiatics are already refusing to kill other Asiatics when the imperialism of the whites will compel them to do so. And in the white proletariat the tendency is already clearly to be seen to assist no more in a war for those who will exploit and oppress it nor against other oppressed and exploited peoples. Nevertheless a world slaughter is still possible. It is consequently a question of organising every where against such a fatal possibility. All who devote themselves to this work in all parts of the world regard Gandhi as their congenial spirit. Many look upon him as the legal successor of Tolstoi. Are they right in doing so? Information received from Mr Andrews Gandhi's most intimate friend about the manner in which the latter conducted himself during the world war, the deeds and publications as Gandhi himself in this time—see *Speeches and Writings of M. K. Gandhi* (Natesan)—cause us to doubt it.

During the Boer War and the Insurrection of the Zulus, during the World War Gandhi organised the Red Cross in the service of the English imperialism that is to say he participated indirectly in the wars. Tolstoi has already shown that the Red Cross is an indispensable part of war and just for this reason many dutch nurses have refused to allow themselves to be inscribed for any coming war.

Moreover Gandhi made direct propoganda for war in India at the beginning of 1918 and urged the Indians to enter the British army. According to him at that most dangerous moment for England the Indians ought without complaining to

give their full support to the Empire of which they shortly hoped to become a part on the same footing as the Dominions. If India dared to sacrifice her sons for the Empire which was in danger it would be rewarded for this sacrifice later. England would regard India as her equal and all racial differences would be abolished. It would be national suicide not to recognise these elementary truths. ought to free themselves from the fear of militarism and make themselves capable of defending themselves in order to bear arms and use them.

How was it possible that during the world war Gandhi so fought on the side of those who were in principle his opponents the militarists and the imperialists and left in the lurch at that time very small number of those 'Who over all the world did battle for his ideas. Gandhi himself had explained it more or less when he said that he was moved by a national egotism. But has not this egotism carried him too far?

De light will not force Gandhi to a dogmatic anti violence standpoint. Although he gives preference to the employment of other methods he recognises objectively the right of all oppressed classes of all oppressed races to free themselves by resorting to arms. But Gandhi himself has always quoted Buddha, Jesus and Tolstoi as opponents of all violence. And now he defends it makes a stand for it behalf of British imperialism. He has allowed himself to be so deceived by the unreliable promises of the Allied Imperialists that he was ready to sacrifice the gold the blood of the coloured people so that one of the two groups of white imperialists should win the war. Was not such behaviour worthy of Jesuits very far removed from that which Gandhi declared he had borrowed from Jesus Christ himself.

Howsoever it may be—this now belongs to the past. At present those who said they would destroy all militarism and imperialism by conquering German imperialism and militarism have become more imperialistic and militaristic than the fanatic adherents of the German empire and everywhere they are continuing

to insult and torture the exploited races The world is threatened by a new war of continent against continents of races against races by which mankind would be torn to pieces What will Gandhi do if war breaks out ? Again take the side of the British Empire ?

De Ligt makes a passionate appeal to the Indian leader to choose the side of those who all over the world are fighting against imperialism in any form and against all war (Are you and the mighty masses who follow you now disillusioned enough in the matter of the mendacity of the promises of the imperialistic governments to be ready to march with us when it is a question everything or nothing against all imperialism against that of your own government too ?)

II GANDHI S REPLY

Without publishing the open Letter a translation of which was sent by the writer to the Indian leader Gandhi gives a short answer to the questions asked in Young India of September 13th 1928 Evolution of November publishes it in French The following is an extract from same

Judged only from the point of view of ahimsa (universal love) my conduct is not to be defended I do not differentiate between those who use murderous weapons and those who work with the Red Cross Both are guilty of the crime of war But after carefully investigating the state of mind in which I was all these years I feel that in the circumstances I was then obliged to go the way which I have followed both during the Boer War the World War and the Insurrection of the Zulus in Natal in 1905

As long as I lived under a system of government based on violence and as long as I voluntarily participated in all sorts of privileges and comforts which this government gave me I was obliged when it was drawn into war to help as well as I could Otherwise I ought not to have co operated with this government and ought to have completely foregone the privileges it offered me

Let us take an example Gandhi continues I am member of an institution which possesses some hectares of land the crops of which are continually threatened by monkeys I believe in the holiness of all life and I conserve—Yet I do not hesitate to incite people to make an attack on the monkeys nor do I hesitate to lead this attack to save the crops In fear and trembling humble and penitential I assist in wronging the monkeys hoping to be able to find a better solution sometime

In the same way he has taken part in the three wars But now—Gandhi declares—my position in regard to the British Government is quite different Therefore I would not voluntarily take part in its wars and prefer to run the risk of being sent to prison nay of even being condemned to imprisonment with hard labour rather than allow myself to be compelled to take up arms or participate in any other way in its military enterprises

Still this does not solve the problem If India had a national government the India can imagine that although never a direct part in any war myself I should be obliged to vote for the military training of those who wish it For I know that all do not believe in refraining from violence to the same extent as myself And it is not possible to compel a single person or a community to same

Howsoever this reply may be we note with pleasure that the British authorities can no longer count on Gandhi in any new war A report has just been received from Simla by the Daily Telegraph that the well known agitator Lala Chant and about twenty nationalists of Lahore have proceeded to form a committee the object of which is to prevent India from participation in a future war De Ujif is intending to continue his correspondence with Gandhi about war

Political Awakening in Rajputana

—Agrarian Movements

—Problem of forced and bonded Labour

(1)

Pandit Arjun Lal Sethi and Bijal Singh Pathik
Visited Bijolia and Konbad

राजपुताने में जागृति ।

सप्ताहक महोत्सव । (of Rajasthan Kesari)

आज तारीख ।। को बिजोलिया की ओर से राजस्थान के राष्ट्रीय नेता श्रीमान पथिकजी तथा अजु नलाल जी सेठी का कई किसानों तथा बिजोलिया के कामदार फौजदार सहित आगमन हुआ ।

हमारे कुहाडी (कोटा) निवासी भाइयो को जो हाल ही में एक सावजनिक-सभा कायम हुई है उस के मबर है मानूम हुआ । वो लोग स्वागत के लिये सामन गये प्राथना करके अपने ग्राम कुहाडी में ले आये मंदिर में ठहराये । स्वयं सेवका न जवानी सूचना कोटा शहर में कर दी । शाम को सात बजे व्याख्यान की तय्यारी हुई नगर से भी अधिक जनता व्याख्यान सुनने आई । सभा का काय आरम्भ हुआ । उपस्थिति करीब आठ सौ की थी । सभा के अध्यक्ष श्री कुहाडी राजा साहब बनाये गये । आपने सभापति का आसन ग्रहण करत हुये फरमाया -

इस समय स्वायत्त त्वागी महात्माजी की आवश्यकता है और आवश्यकता है पालियामेंट होने की । आज इन महात्माजी न यहा पधार कर बडी कृपा की है आप के आज प्रभावशाली व्याख्यान हागे आप सुनकर लाभ उठावे बाट में इन मुझ के उत्साही मंत्री श्री माती लाल जी पहाडियाने श्रीयुत पथिक जी में प्राथना की कि आप अपना भाषण प्रारम्भ कर इस छाटे से ग्राम की शाली बनिदि प्रस्ताव । बचनामृत से तृप्त करें । श्री पथिक जी का भाषण प्रारम्भ हुआ । राजस्थान का पतन और उसकी उन्नति के उपाय इत्यादि सहित बतनाय ।

आपन अपन भाषण म देनी राज्या की आर्थिकस्थिति पर बिन्धु जोर दा
 रव कहा की राज्या म स्वकी प्रचार की बडा भारी आवश्यकता है प्रचर रिदा
 मन क राजा तथा प्रजा का काव्य है कि अता ही रिदागा की बनी बस्तुओ म
 काम न । अण क भाषण का जनता पर बडा प्रभाव पडा । यान म श्रीमान् कमबीर
 पणि अतु न मान जी मठी का भाषण प्रारम्भ हुआ । आपने प्रभावकारी जाणीन
 व्याख्यान का ब्रिटिश भारत की जाता जानता है । आपन प्रारम्भ म कहा राज
 स्थान वार भूमि है यहा के निवासी बीर है बीर की मतान है । मै भी एन जन
 धम का अनुपायी हू । हमार धम गुरु भी महावीर भगवान् ध । हम उन बीर क
 शास्त्र का नही भूम मरन हमम भी ये मीनुद है । बरी शक्ति हमने स्वाधीन बना
 की । मै दूग समय उन बिजौनिया क बीर मर्यादहा दिमागा की आशय शक्ति
 गग गिवा हुआ गया था । मै दूग समय उग दूजिग प्रसिद्ध मवाह भूमि मे भारत
 न जग पर हमार दग की मान मर्याग रखन क निर हमार साथ बीर की बनि हू
 यी । माहा मरिनाभ नक न अतनी स्वाधीनता दूगरा क हाथ न मगा न क निर

हैं। वस यही हाल है। जब राजा दूसरा का नीचा गुलाम समझन लगे तब दूसर उनका त्याग्य समझन लगे। अब देश में गुलामी अवतार की आवश्यकता नहीं है और न कभी रही है। इस भारत पर रामावतार हो कर न्याय करेगा वही राजा हो सकता है अथवा नहीं। इसलिये बधुआ। जाप लाग रामावतार के गुणा को ग्रहण कर अपने आपको राम बना कर राम राज्य बनाइय।

बाद में ब्रम्हचारी हरिवल्लभजी के रजवाडह भाषा में भजन हुए जिनका लोग पर बड़ा प्रभाव पड़ा कोट के युवक न उत्साहित हो कर उक्त महानुभावा से ठहरने की प्रार्थना की विवश हो कर महानुभावा का ठहराना पड़ा। आज सायकाल को काटा में फिर व्याख्यान है।

पाथ'

(2)

Arrest of Pathik and Babai was taken as a challenge to Rajasthani knights—Haribhau's call to youth

राजस्थानी धीरो को चुनौती।

अजमेर के अधिकारीयो ने श्री पथिकजी (सभापति प्रांतिक कांग्रेस कमटी) और बाबा जी नसिंहदास जी अग्रवाल मंत्री जिला कांग्रेस कमटी (अजमेर) को 22 साल की बड़ी बंद की सजा देकर राजस्थान की वीरता देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रेम को नारवी चुनौती दी है। देश और प्रांतों में जहां कि हजारों लोग घर बानूनी नमक बनाते हैं बेचते हैं खरीदते हैं और खाते हैं और नाखा की सभाओं में नमक बनाने का उपदेश दिया जा रहा है थोड़ी सजाय दी जा रही है। पर हमारे प्रांत में दो गो सा लकी सग्न सजाय देने का यही उद्देश्य है कि राजस्थान के वीर युवक उमर डर जायें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अजमेर में रवाडा का ही नहीं बल्कि राजपूताना और मध्य भारत का बच्चा-बच्चा सरकार की इस चुनौती का वीराचित उत्तर दिये बिना न रहेगा और जब तक नमक बानूनी न उठ जाय तब तक नमक सत्याग्रह के लिए और जब तक पूर्ण स्वराज्य न मिल जाय तब तक स्वतंत्रता संग्राम के लिए भूमिका की कमी न रहने देगा। यह अवसर है कि राजस्थानी युवक जिनका जरा भी आत्माभिमान है जिन्हें जरा भी आजादी से प्रेम है वे उछन उछन कर संग्राम के लिए घर से दौड़

पड़ और जाधिम की जाधिम न समझे अपने घर बार बीबी' बच्चे एणो-
आराम मबरों मात मार कर सच्चे बीरा और मपूतो की तरह अपनी मातृभूमि
की पुकार पर मत्वाले हो घर म निवृत्त पड़े । आज राजस्थान की धीरता आत्म
बलिदान दश शक्ति की कड़ी परीक्षा हो रही है उस एग गहरी चाट पहुँचाई गई है
दुनियाँ खचना चान्नी ह कि प्रताप दुर्गात्म भीमगिह विषम मीरा पदिमीनी
की मतात इगका क्या उत्तर देती ह ? राजस्थान की मुक्ता-आत्मा उठ खड़ी हा
और शोड पड परमात्मा तग साथ ह ।

हरिभाऊ उपाध्याय ।

(3)

**Salt Act disobeyed in Ajmer Poem tells about Ajmer
Satyagrah protesting Pathik and Babaji's arrest
in connection with Salt Act**

कल अजमेर में ।

मत्याग्रहा दल की हुई ह जीत कल अजमेर म
तोड डाला ह नमक कानून कल अजमेर म ।
प्राशसन की भीड म यह खूब परिचय मिन गया
बच्चा बच्चा हो गया आजाद कल अजमेर म ।
देश भक्ति क नश म मस्त होवे नौ डवान
कौमी नारे बालते जाते थे कल अजमेर म ।
दवा स्वागत कर रहीं पुरुषा म अति उत्साह था
यह मनोहर द्रश्य था पहला ही कल अजमेर म ।
नमक जिस दम बन चुका ता पुलिस ने धावा किया
लेकिन घटा फूटा मिला था एका कल अजमेर म ।
अब दमन इस क्रान्ति का सरकार करना चाहती
शर दो ह कद देखो आज कल अजमेर म ।
अब समय ह शीघ्र ही हम काम की पूरा करें
जसा नेता चाहते ह आज कल अजमेर म ।
तुमको सच्ची सच्ची शीतल नजम गर मुनायगा
तो इमे भी देख लेना जेल कल अजमेर म ।

श्रीयुत शीतल

(4)

Arjun Lal Sethi was arrested by Shivana authorities

When he passed through Wardha there was a
huge crowd to greet him

वर्धा में विजली टूटी माता नभ मण्डन सब छिन भिन हा गया। जिसे देखिये उसी के चेहरे पर आशामयी निराशा। जिससे सुनिये उसी के मुहों से उत्सासपूर्ण दुःख की कथा। हमारा प्यारा हमारा पूज्य हमारा नेता सरकार का बंदी और भारतमाता का स्वतंत्र बेटा आज की किसी गाड़ी से यहाँ से होता हुआ सिवना जायगा। उसके दशन करगें यही उत्सुकता सब के दिलों में हिलार मार रही थी। शहर कांग्रेस कमेटी के विनापन पदा पर शहर में म्यान म्यान पर निश्चा गया था कि अजमेर में १० अजुन लाल सेठी सिवनी के वारण्ट पर 124 153 धाराओं में पकड़े गये ह। सज्ज गरमी हान हुये भी दुपहर की गाड़ी में आये रहे। स्टेशन से लोग निराश लौटे। ठीक समाचार भी भिन गया कि साय की गाड़ी पर आवेंगे। आज की साझ जल्दी आई। दिन दिन का मानूम नहीं हुआ आरम्भ प्रात के सूर्योदय के बाद सूर्यास्त हान देर नहीं लगी। सवर और साझ के सात आज इकट्ठे ही बजे। लोगो के झुंड के झुंड शूर के दशना के लिए स्टेशन की राह पर जाते दीघने लगे। वीर की वीरता की बात करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के दिन का पास ही दखल हुए लोग स्टेशन पर जा रहे थे। स्टेशन बात की ज्ञान में हजारों लोगो से भर गया। स्वयं सबका के प्रबोध में जनता एसी व्यवस्थित थी कि पुलिस के डेंडे के जार पर भी बसी व्यवस्थित न हूँ हागी गाड़ी की प्रतिक्षा में भी कमवीर की कमयात्रा के अध्याया का पाठ हा रहा था। ऐसी निनों तक ता गाड़ी बंसी ही लट हुआ करती है फिर इस समय ता हर एक मिनट घटे की तरह गुजर रहा था। प्लेट फाम के एक खुल स्थान पर मज पर कुर्सी रख कर व्याख्यान का स्थान तयार कर लिया गया। गाड़ी के आने ही बन्देमातरम् भारत माता की जय गाथा जो जय १० अजुन लाल सेठी की जय आनि जय जयकारा में स्टेशन गूँज उठा तीसरे दर्जे की खिडकी से मुह बाहर किये वह वीर शूर कमवीर पंडित गाणेश धवा मुस्करा रहा था। उसकी धीमी धीमा मुस्कराहट कह रही थी कि तुम्हारे लिए ही जाता हूँ। तुम्हें स्वराज्य दिन ने जाता हू अब तुम्हें भी प्राप्त कराऊंगा। लोगो के हृदय प्रेम भक्ति और यत्ना के भार उठल उठल कर गाथा के डब्बे में अपने प्यारे नेता का निपट जा रहे थे उनका चरणा में माथा टेक

कर शुभाशीर्वाद की तानमा उतावला बना रही थी शीश झुकाकर माता के प्यारे जोर अपने हृदय के बन्दनीय के मुह से शुभ सदेश सुनने के लिये प्रत्येक हृदय तरस रहा था। स्वाधीनता के पुतले को बंदी होते हुए भी स्वाधीन देख कर प्रत्येक दिल इसी स्वाधीनता के लिए लानाघित हा रहा था। इतना सब होते हुये भी केवल रोक्ता था अपने नेताआ का एकशब्द कि उठ जाआ और अपनी राष्ट्रीय पुलिस का एक इशारा कि शांति रख।

गाडी व दरवाज म खडे हुए पूना और मानाआ स धिर हुये उमी सठी व मुख म जिपस बजा के नागा को न मानूम कितनी बार माता की स्वाधीनता का मदेश सुनाया था निबन्दा कि प्यारे भाइया तुम मुझ अच्छी तरह जानते हो मै तुम्हे जानता हूँ। मै न अपनी आयु का एक वष तुम्हारे साथ वर्धा मे काटा है इस जन्म म क्या दूसर जन्म म भी तुम्हारी कृपा नही भून सकता। मै उस राजस्थान के रेगिस्तान स आ रहा हूँ जहा लोगो का पजाब के अत्याचारो का पता नही इस्नाम की उजड़ती हालत की कुछ भी खबर नहों पर कवल महात्मा गाधी का नाम मानूम है। वे भी महात्मा गाधी के नाम पर मर मिटन को तय्यार है। मै तुम्हे विश्वास दिलाता हू कि महात्मा गाधी मे ईश्वरीय विभूति है। पूरी तरह इमके पीछे चल कर इमका उपयोग ले लना चाहिय। अब स्वराज्य तो हमारी तरफ दौडा घला आ रहा है। यस स्वदेशी वस्त्र पहिना। काग्रेस व सदस्य बनो। उसक लिए बन्दा दो। जल का मै अच्छी तरह जानता हू। एक बार हा ही आया सरकार मुझे जानती है मै उमे जानता हू। इन विचारो (पुलिस की जोर ईशारा करके) का भी कुछ भी कसूर नही है विचार पेट के लिए नौकर है। स्वराज्य के लिये वे भी तयार है। यस मै और क्या कहू। खूब काम करो। जल म भी मै यही मूनु कि वर्धा के लोग पीछे नही है। थो० सठ जमनालाल जी ने कहा कि यह भी कह दीजिये कि आप जनशनघरत नही करेगें। आप हंस कर बोले हा मै तो जेल म जाकर खूब खाऊगा पिऊगा। मै गाधी का चेला हू। पर सच कहता हू यदि मुष मिस्ट्री का मिला हुआ खाना मिना ता देखना ही पडेगा। इस समय कभी भा उपवास न करुगा।

वीर व मुख स म उपदेश बन्द हुआ कि भक्तो प्रेमियो और माथीया का जय ध्वनि न आकाश गुजा दिया। शूर किसका उत्तर दें किसका नही-यही साचता हागा जोर लोग भी परो म माथा टेक कर कुछ अनिश्चित समय के लिए विनाई दन का आगे से आग बढत थ कि गाडी न सौटी दी। अकेल शूर को ही गाडी सवर बन दी। हाय। हम वर्धा व वर्धा के ही स्टेशन पर रह गय।।

(5)

Arjun Lal Sethi's message to the readers of
Rajasthan Kesari

श्री सेठी जी का राजस्थान केशरी के पाठकों को सन्देश

मुझे वर्षों से कमवीर अजु नलाल जी के साथ गाड़ी में बठकर बारी तब जाने का सुअवसर मिला। अजय बात चीत में मैंने आप से पूछा कि पत्र के पाठकों को मैं आप का क्या सन्देश दूँ। आपन कहा मरा यही सन्देश है कि महात्मा गांधी कि विभूति में भारत के लोग का लाभ उठाने में धूक नहीं करनी चाहिये। हिन्दु मुसलमाना को कंधे में कंधा भिडोकर इस धमयुद्ध में लग रहना चाहिये। अहिंसात्मक भाव का पूरी तरह पालन हो इसकी इस समय बड़ी आवश्यकता है।

क्या आप सफाई पेश करेंगे

मैं अभी सफाई पेश नहीं कर सकता। जितना जल्दी फमला हागा उतना ही भला है फिर आपन श्री० ५० मुन्दरान जी के पत्रों जान की अपवाह पर बड़। खेद प्रकट किया।

मत्यदेव विद्यालंकार

(About Arjun Lal Sethi's personality please see Rajputana Conspiracy Case Records published in Vol one pp 111-116)

(6)

Swami Kumaranand's Jail story This gives a vivid picture about Swami's role in freedom movement

It is a story when he was arrested in Sivani

श्री स्वामी कुमारानन्द जी की कद की कथा

(विशेष प्रतिनिधि द्वारा)

(22 अप्रैल 1921 की रात को) श्री स्वामी कुमारानन्द जी 124 और 153 धाराओं के अनुसार सरकार में दोषी ठहराये जाकर वर्षों लाये गये आप के सरकारी प्रहार का बताने आप के महत्वासी श्री स्वामी मोमदेव जी से मैं सुनने गया तो उन्होंने इस प्रकार सुनाया।

16 की रात का श्री स्वामी कुमारानन्द जी का और भरा सौमर व्याख्यान हुआ। हम राममन्दिर में ठहर चुके थे। 17 का मध्याह्न 3। बज के लग भग वहाँ का मन्त्री डॉक्टर गंगाधर राव आया। श्री स्वामी जी से बुलाकर उसने बाप का नाम पूछा स्वामी जी ने कहा कि मन्त्री बाप का नाम नहीं बता सकता गुप्त का नाम बना सकता है। वह उन्होंने बताया। मन्त्री डॉक्टर ने स्वामी को इशारा करके बोला कि य बिना बाप के है। फिर सीटी बजाई। तब पहलें सिपाही मन्दिर में घुस पड़ा और मुझ व स्वामीजी दोनों का हथकड़ा लगाकर सब डॉक्टरों के पास ले जाने का तयार था हमारे वस्त्र पर कमीज पहनने से कहा। पीछे कमीज वही पहिने लेनी गई। वस्त्रों में बल पड़ गई। 300-400 लोग जागृत। जनता जय जयकार करती हुई हमारे पीछे हाँसी। सब डॉक्टरों व हादुरों ने लोगो को पीछे पीछे करके रिवातवर तक की धमकी दिखाई। स्वयं मन्त्री मन्त्रालय का डॉक्टर बहादुर ने कुछ पीटा भी खर हम जब घाने में पहुँचे तो हम बताया गया कि हम 255 में पकड़ गये हैं। वही न तामूरकर और मुन्नीधर भाउ आय उन्हें डाँट कर पीटा गया। शहर में हल्ला मचा हुआ है।

रात का 12 बजे हम उठा गया कि हम छिन्दावाड़ा जाना होगा। हम छिन्दावाड़ा लगे। दूसरे दिन श्यामचरण वकील के कक्ष पर हमें 10 दिन की जमानत पर छाड़ा गया। वहाँ उमरान और जगलानि दा व्याख्यान हुआ। 20 को हम फिर मौसल आय सैन्डला लाग हम जूट में लगे। इस समय एक घटना हो गई। कि मि० बेरी अपनी माटर पर आय। भौड़ बहुत थी कुछ एक के चाट लगी लोगो का मोटर के पीछे आने दख करी न बन्दूक की धमकी दिखाई। साँझ को 6 बजे छिन्दावाड़ा और नागपुर में कुछ पुलिस के आदमी बुलाये गये। रात का व्याख्यान हुआ। लोगो ने मन्दिर में जूता पहिने जाने का प्रतिवाद किया 21 को हम दोनों भिन्न स्थानों पर चले गये। स्वामी कुमारानन्द को करके बर्धा लाये गये।

मरी 25 का छिन्दावाड़ा पेशी थी। छिन्दावाड़ा की पुलिस ने 7 दिन का समय और लिया है। 2 मई का पेशी है।

मै-क्या आप सफाई पेश करेंगे।

स्वामीजी नहीं मरना विचार सफाई पेश करने का विलकुल भी नहीं है।

मै-क्या श्री कुमारानन्दजी का सफाई पेश करेंगे।

स्वामीजी—वह भी वस्त्र सम्भव नहीं करेंगे।

(7)

**Swami Kumaranand denied the reports that he ever
requested for a pardon**

श्री स्वामी कुमारानन्द जी

बधा के लोग म भी स्वामी कुमारानन्द जी के विषय म यह समाचार फला हुआ है कि अदालत से उहोने क्षमा मागी है । आपन नीचे का पत्र हम भेजा है जिसमे जनता सचाई जान सकती है -

मम्पादक महाशय ।

लोग म ऐसी अफवाह है कि मैने अदालत से माफी मागी है । यह बिल्कुल झूठ है मैने किसी तरह भी माफी नहीं मागी । माफी मागना मर लिये नामुमकिन है । मुचे यह लिखते बडी प्रमानता होती है कि मै दो बार राजनीतिक मामलान म पकडा जा चुका हूँ और दो बार मुझ पर मुकदमा चल चुका है । महायुद्ध के समय मुचे भारत रक्षा कानून म नजर बन्द भी किया गया था देश सेवा क लिये अनुभव प्राप्त करने के लिये मै जापान और चीन गया हूँ । इस मुकदम म मैने अदालत म एक ऐसे कागज की शत को स्वीकार कर सही किया है जिसम मध्य प्रात और बरार म एक साल व्याख्यान न देन का लिखा गया है ।

आपका

स्वामी कुमारानन्द

बधा

19 5 21

(8)

Social work by religious sabhas in Ladnu

भारवाड

लाडनू ओसबाल हितकारिणी सभा व सविद्या प्रकाशिनी जन (सभा) सभी अच्छी उन्नति कर रही हैं । इनसे भापाया के अध्यान पाठशालाया की निशा उत्तम है और काय नियमित होना है । सनातनधम एक प्रचारिणी सभा के स्वयमेवक जनता की प्रशसनीय सेवा कर रहे है ।

बाबूचन्द सठी

(9)

Marwari Swadeshi Sabha was Organised in Didwana

डीडवाना—गत माम म यहा पर पडित भास्करानन्द जी महाराष्ट्री न आय मारवाडी बाधुआ के अलावा बरहडु घसराज जी साहिब क उपदेशप्रद व्याख्यान हुय जिसम जनता पर बहुत अमर हुआ नार्थिया और मोचिया ने शराब पीना छोड दिया है । मारवाड स्वदेशी सभा नामक एक सस्था का भी संगठन हुआ है ।

एक मारवाडी

(10)

Literary association in Sojat

साजत—यहा के मिडिल स्कूल की लक्षा जब म श्री० बाबूरामजी हेडमास्टर हुय है तब से बहुत कुछ सुधरन लगी है । इहाने विद्यार्थिया की उनति के लिए निटररी एसोसियेशन नामक सस्था भी स्थापित की । इससे विद्यार्थिया म सामाजिक परिस्थिति का जान व कुछ-2 भाषण करन की शक्ति भी हा गई । परन्तु इमपक्टर जनरल पुलिस ने इस शाला का बन्द करन की जाना दे दी है । उक्त काय क कारण हेडमास्टर पर भी निगाह रखन का पुलिस को हुक्म लिया गया है ।

(11)

Jaswant College s Principal played a role in suppression

जाघपुर—जसवंत कानज के प्रिंसिपल माह्व करीब 30 वष म शिक्षा विभाग क भी अपमर् है । आप की परीक्षा विषयक अनुदार नीति से—जिसक कारण कुछ समय पूव कानज म हड़तान हा गई था—मारवाड म उच्च शिक्षा का प्रचार बहुत कम है । कानज का खुन 30 वष हा गय परन्तु प्रग्युक्त निकल है सिफ 40 अपन अधिकार क इतने लम्बे काल म भी दहानी पाठशालाआ का तो शायत् ही कभी आपने यहा निरीक्षण किया है । फरौनी क नामो न कर् बार मिडिल स्कूल बनवान की प्राथना की किन्तु कुछ भी ध्यान न लिया गया । जा विद्यार्थी प्राइवट तौर से पञ्जाब युनिवर्सिटी की शिक्षा लेना चाहत है उनक फार्मों पर हस्ताक्षर करन म आप विद्यार्थिया को बहुत तय करत है । कालेज के रीडिंग रूम म इण्डिपण्डेण्ट जस ममाना पत्रा का आना भी आप नही देख सकने मानवीय जा तब का आपने छात्रा म भाषण करन म विरत कर लिया ।

13 अप्रैल 1921 के मारवाड गजट के अनुसार 2 माच की रिजेन्सी बीसिन म यह स्थिर हुआ ह कि ब्रिटिश भारत म जो पत्र अमहयोग के प्रचारक है उनकी फट रिस्त पोलीटिकल एजेंट न दरवार की कफियत की लिय भेजी है जिसम हकीकत वकील डॉम्बे त्रानि कल मजीनगर प्रताप के मारवाड में आने की इम्पेक्टर जन रल न रिपाट की है अत ५० ए2 ए4 व 5 के पत्र मारवाड म जहा कही मिन जल कर लिय जाव और इनका मारवाड म आना बंद कर दिया जावे और गवन मण्ट का निखा जावे कि मारवाड के लिय य पत्र पोष्ट आफिस म नही लिय जाया करें ।

एम० डी जन हितपी

(12)

Ruler feudal relations in Jaisalmer

जयसलमेर

जहा स्वगवामी महारावल शान्तिवाहनमिह जी की प्रणमा करते हुए प्रजा नही पवती वहा उनका एक दुफ्तव भी मना स्मरण रहेगा । जमलमर म राजमहल के सामन ही ठिकाना मत्रो की एक विशाल हवली थी इसी हवली के स्थान पर महाराज का एक कीर्ति मन्दिर के बनवान की सूझी और उन्हाने इस हवली का चार मप्ताह क अन्दर ही नम्न नाबून करवा लिया । हवली के स्वामिया न ए जी जी म दरस्वास्त की ए जी जी न मौका देखकर महारावल जी की मन मौजी आज्ञा पर संद प्रकट किया । महारावल जी न हवली के मानिका का दूसरा महत लेन का वचन लिया । परन्तु व इमा वय यहा म चल बस । पूव प्रथानुसार एक वय क भीतर स्वर्गीय महारावल जी के शवनाह के स्थान पर एक वय के भीतर भीतर छत्री बन जानी चाहिय थी परन्तु इस वय के दान भी आज उम स्थान पर फूटा मटकी पडा ह । एव दिन जब यात्री वहा जान ह ता उन्हे य फूटी मटकी देखकर शम आती ह । काल की भी विचित्र महिमा है जा महाराज दूसरा का घर नष्ट करके अपना कीर्ति मन्दिर बनवाना चाहत थ उनक पीछ छत्री तक न बन मरी आशा ह वतमान नरेश अपन पिता के वागडे का सता वाल सरदार का मय कीमत हवेली की जमीन देकर अब तो अवश्य पूरा करग और भूत पूव नरेश की छत्री भी बहुत शीघ्र बनवा देगें । पिछली बान की आर माजी मान्द्रि का ध्यान शीघ्र हो जाना चाहिय । लोकोपवा

(13)

Railway line projected in Jaisalmer

विश्वस्तमूत्र से सम्बन्ध मिला है । जमनमर राज्य में रेलवे लाइन होने की ब्रिटिश सरकार से वादचीत है रही थी उसका मेंशन मिन चुका देहली में कराची घाया बीकानेर जसलमर ह्तरावाद सिन् रतव मीटर गज हागी नाम थी जे रनेवे बीकानेर जसलमर रलवे होगा ।

Originally it was planned Broadgauge According to Ram Pande s Railways in Rajputana

(14)

Authoritarianism in Jaisalmer

श्रीमान महारावल श्री 108 श्री जवाहर मिहजी जसलमर नरेश की सेवा में -

भगवन् ।

मैं नीचे हस्ताक्षर करने वाला जसलमर का शुभ चिन्तक दुख के साथ पश्चाताप करता हूँ कि यदुवशी भट्टी राज्य में इस समय ओझावर शाही और जार शाही का साम्राज्य छाया हुआ है कई प्रकार की भीषण रामाचकारी घटनायें राज्य में हो रही हैं जो विजय भारतमित्र आदि समाचार पत्रों से भली भाँति प्रकट है । अपराधियों को दण्ड न दिया जाकर निर्दोष व्यक्तियों का माना प्रकार नष्ट दिए जाते हैं । जल की जिल्लत भुगताई जाती है अथ सुधारा के लिए राज्य में अंधेरा छाया हुआ है सजायाब घोर बदमाश और दिवालिया का राज्य क उच्च पद न्ये जाते हैं जिसमें सदक पाय का गला घुटता रहता है । हान में अपने वहाँ के प्रतिष्ठित वकील श्री सरदारमलजी मेहता को एक राजनतिक मामल में दम वप की कठिन जेल की अकारण सजा दी है उनके साथ अथ महानुभावा को भी आपकी दमननीति का शिकार बनना पडा है । श्रीमान् । आप जानते हैं महारावल भद्र जी ने शपथ करके कहा था कि जब तक भट्टी का राज्य रहेगा श्रीवान राव हमीर के वंशज बनाय जावेंगे तदनुसार स 1946 तक महता नथमलदी आदि होने आए । यदि जमनमर की गद्दी के हकदार आप हैं तो मन्त्री पद का अधिकारी राव हमीर के वंशज हान चाहिए । क्याकि जिस समय जसलमर

क राज मिह्रासन क निण जीवन मरण का प्रश्न सामन था जिस मूलराज रतनमी दूग तिलाकमी आनि क महापुद्र म ब्रव मारी भट्टी जाति का अस्तित्व मिट चुका था स्वयं नरेश तन के जान क लान पड रहू थ उम समय वीर हमीर क वशजा न आत्मसमर्पण तक राज की रक्षा क निमित्त कर लिया था। उम राज्य रक्षक जाति के साथ आपन कुचक्रिया के फेर म पड कृतघ्नता का बतावा आरम्भ कर दिया है मन् 1904 क अक्टूबर म आपके पूव अधिवारी न मेरवाही का मनद हमीर के वशज महता मधुराज का अला फरमाई ह। मैं नहीं चाहता कि इम साम्यवादी के नवयुग म हमारा के वशज ही शीवान बन। लेकिन आपन अपन पूवजा की नीति के विरुद्ध उमी वीर हमीर के वशज इनता उद्धारक व्यक्ति मरदारमल का आपन रजिस्ट्र को पत्र लिखन के अपराध म एमी स्वेच्छाचारित पूण सजा दी हैं जो अत्यंत अनुचित है। यही नहा जब आपके सज्जनदम जसलमर के मिहामन पर आए उम वय आपके भाई बंधुआ स भानी मोनजी ने हमीर के वशज विशनसिंह के बंधु क द्वारा प्राण हरण किए। मुलजिम हाजर हा गया उस वक्त भी आपने मुलजिम का सजा तक नहीं दी। अत मजूमर किमी अभियाग म भारत सरकार का अपराधी ज्ञान म पकडा गया।

इस असहयोग के जमान म सजा के लिए कोई जाति अपमान सहना पमद नहा करती। मैं भी वीर हमीर का रक्त होन म अपन भाइया के घावा पर नमर छिडकवाना अब आगे के लिए स्वीकृत नहीं करता। मैं अहिंसात्मक भावा स प्रेरित हाकर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक महीन क अन्तर इमकी सफाई पेश कीजिय।

आपका

डू गरमिह माहता

तारीख 1/3/ 1921

(यह पत्र जसलमर परिवार की स्वेच्छाचारिता स तन आय एर नवयुवक का हा मरता है कि पत्र कु आवेश म लिखा गया हा पर जो महाराज प्रजा का लिया ही अन्त छते हैं उन तक प्रजा क राने की आवाज पहचान के लिये हा इम हमन तना उचित समझा है। सम्पादन।

(15)

Education sacrificed in face of Rani Mahal in Jaisalmer

जसलमर राज्य का कालविन हाईस्कूल बनते बाने वर्षों बीत गए पर नई

महारानी के महल की आलीशान इमारतों बात की बात में बन गयी। जब जब प्रजा न स्कूल बनाने के लिए आन्दोलन किया जब कारीगरों मिलावटों आदि का अभाव बनाया गया इसी नीति के प्रताप से 16 हजार क्षेत्रफल विस्तार वाले राज्य में महाराज और दीवान की सँख्या मिनाने हुए साधारण अँगूठी जानत वाला की संख्या 5/6 में अधिक नहीं है। रानी के महल बनाने को कारीगरों न मानूम कहा में आ गये। जब राज्य में अनक महल मून पड़े हैं तो रानी की शक्ति नए महल बना कर क्या करीव प्रजा के धन का धन भाग विभास के नामा में फूला जाता है। यदि पहिले के भवन ना पक्का है तो प्रजा के लिए उनका प्रयोग क्या न हो? स्कूल के लिए महाराज ने रूपय अलग रूप छाड़ हैं यह बात मुनत आज दस वर्ष बीत गये हुआ कुछ भी नहीं। गमस्त प्रजा के लिए एक स्कूल बनाने में भी आना पानी करना न मानूम घट्टकून की गयी के अधिकारी को क्या सामा देता है। एक वह समय था कि प्रजा के लिए महाराज रामचन्द्र न सीना मनी को बनवाम दिया था। एक समय आज है कि रानी के आराम के लिए प्रजा के मुखा का दुखराया जाकर गिना में मनुता की जा रही है। हा। समय ॥

गिशात्रेमी

(16)

Repression in Tonk

टोंक में भोयल काण्ड ताजे समाचार

(राजस्थान-सिंध-संप्रदाय प्राप्त)

माचर ।

टोंक में गिरफ्तारियों अब तक जारी है। टोंक में जान के श्रितन मांग है अब पर इन बात का प्रबन्ध है कि कई बाहर का व्यक्ति टोंक में न जान पाव और नगर में भी सोया का मरुत हुकम है कि तीन दिन में अधिक अवन यहाँ शिमा महमान का न ठहरावे। अघबारा का आना कर्द के कर दिया गया है। शिमा पाम अघबारा देखा जाता है उन गिरफ्तार कर दिया जाता है। मांग में न आत्मा भी छोड़े हा कर बात मनी कर सकत। नगर में दिन रात मसारा और पत्थर के गिरफ्तारों का मरुत हुआ है।

क्या कौनसे और क्या नगर माहबजाव सब बहत में मगरनिवासियों के अन्तर्गत है। महमानों और मांसों पाठ्या प्रजाग कदवा माहबजाव में मांग है।

गिरफ्तारी के समय वे ही लाग ज्यादा पकड़े गए हैं जिन की सत्ताधारिया से या तो किसी प्रकार की अनबन थी अथवा वे जो उनसे कुछ रुपया मांगते थे। गिरफ्तारी के वक्त रुपया भी खूब ऐंठा गया। तलाशी के समय मकान तक खुदवा डाले गये और स्त्रियां बेपरदा कर दी गईं। मालवी साहब जो उस वक्त टाक म मौजूदा ही न थे आमली नामक कस्बे से जा टाक म बहुत दूर है वहां से गिरफ्तार करके लाये गये हैं।

ता021 फरवरी का 10 बजे बड़े साहब टाक तशरीफ लाए। दा दिन तक एकांत म नवाब साहब से बात चीत होती रही। 23 ता0 का ब रजीडेण्ट और वलीअहद को साथ लेकर जेल मे गये। आपने जो लोग कद थे उनसे फरमाया कि तुम लोग धागी हो। लोग ने उत्तर दिया बिलकुल नहीं। आप पूछने लगे कि माघोवाली पर क्यों इकट्ठा हुए थे ?

उत्तर मिला कि गल्ले का इन्तजाम करने के लिये नवाब साहब से अज करने को। इस पर साहब बहादुर निरुत्तर होकर पूछन लगे कि तुम का नवाब साहब की कोई शिकायत है ? लोग ने जवाब दिया कि न पहल थी और न अब है

उसी दिन रात को साहब का नवाब साहब से फिर एकान्त म वार्तालाप हुआ। इसके बाद जो लोग कद थे उनके घर वाला को बुलब कर कहा गया कि तुम लोग कदिया कीं 500 (500) की जमानत दाखिल करो तो उनको छोड दिया जायेगा और यदि जमानत दाखिल नहीं करोगे तो उनको काले पानी भेज दिया जायेगा।

साहब तो नवाब साहब से बात चीत कर के चले गये थे साहब जादा न ही वह हुकम सुनाया। और जमानत की कारवाई की थी। जमानत नाम उही लोगो के लिखवाए गये थे जो या तो साहबजादा के मिलने वाले थे या मिलनेवाला के रिश्तेदार या जिनकी तरफ से माकूल रकम पहुँच चुकी थी।

प्रात काल रात को लिखवाये हुए जमानतनामों खारिज कर दिए गये और उनम इतनी इवारत और बढ़वा कर दूसरे जमानतनाम तयार करवाये गये कि अब से हम ऐसे अराजकतापूण आंदोलनो म कभी शरीक नहीं हुआ करेंगे। इस समय हमारी गलती हुई कि जो लोग अब तक कद हैं उनके बहवाने ओर भड़काने स हम आंदोलन में शरीक हा गये। लोगो का अनुमान है कि जो लोग

भजे गये हैं उनका गवाह बना पर बाकी लागे पर मुकदमा चलाया जावेगा और इन्हीं की गवाही के आधार पर लागे को मनमानी सजाएँ दे दी जावेगी। खास कर उन लागे को जिनके साहायजाते बजलार हैं। 28 तारीख को जिनोरा पिटवा कर सब नगर निवासिया का नजर बाग में इकट्ठा किया गया। कौन्सी लोग भी जगो पनटन और रिस्तान के पहरे में बहा लाने गये। साहायजादे बनी अहद ने खडे हाकर इस आशय की स्पीच दी की बदमाश पार्टी यहा खिलाफन कमेटी कायम कर बमैडापना करना चाहती थी। इसीलिये उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे जिन नामों ने आग में ऐना बाम न करने का इकरार कर लिया है व जमानत पर छोड़े जा रहे हैं। शप को तहकीकात करके पूरा पूरी सजा दी जावेगी। रियासत गवामण्ट की पूरी बफालार है जत आयल इस बिम्ब का रायबाई करन वाले को वह सख्त मजा देगी आपन यह भी पही कि आयल में इस रियासत में दो अफ्रेज रहा करेंगे एक मम्बर कौमिन दूसरा सुपरिटेण्डेण्ट पुनिस।

पूव सुपरिटेण्ट न इस्तीफा दे दिया वे अपना मामान ले जा रहे हैं और शीघ्र ही टाक छोड़कर जान वाले हैं। इस्तीफा देन का कारण चाहे कुछ भी हो किन्तु आपन लिखकर यही दिया बतलाते हैं कि नबाब साहब न माधोवाले की घटना के पूव रात को नौ बज मुग बुलाकर फायर करने का हुक्म दिया था किन्तु रजिस्ट्रेट के पूछने पर साफ इन्कार कर लिया। इससे मुने उनके दिमाग में फितर और खलल जान पडता है अतः मैं ऐस विधिपत स्वामी की नौकरी नही करना चाहता। दीवान माता नान जो यहा में निवाने गये थ आजकल जयपुर में ह। कहा जाता हैं कि रियासत न इह पाच महीन की छुट्टी दे गी है। तनख्वाह बराबर मिलरही है। उनके पास जितने नौकर चाकर ह सब राज्य के। अब भी राय के कामा में उनसे राय ली जाती है। कई आत्मी केवन इसीलिये नियुक्त है जो जयपुर से तहरीर लाते और टाक से ले जाते ह। जेब स बडे साहब आय है शहर में दुकाना पर काफी और उमदा गल्ला नजर आ रहा है और भाव भी पहिल से सस्ता है अर्थात उमदा ज्वार 8 सेर व गहू अच्छ 6 सर।

छोड दिये जान वाला के अतिरिक्त लगभग चालीस आत्मी इस समय जन में और कैद है। इन में दो एक सरकार के मुखबिर भी हैं।

चारा भेम्बर अलग काल कोठगी में बंद रखे जाते हैं। मोतवी साहब वारक में बंद किये जाते ह। उनमें किसी को बान नरु नही करने नेते और कदिया

ने उनके रिश्तेदारा तक को नहीं मिलने दिया जाता जिन जिन लागे पर मुकद्दमा चलाया जाता है।

(See also Vol one pp 109-110 and Shodhak Vol 8 Pt C)

(17)

Peoples Sammelan was organised by Marwar

Hulkarni Sabha

प्रजा सम्मेलन रोक गया।

आज मारवाड़ हितकारिणी सभा के मंत्री के नाम महाराज के प्राइवेट सक्ने टरी रावराजा नरपतसिंहजी का पत्र आया है जिसमें लिखा हुआ है कि 11 और 12 तारीख को होने वाला प्रजा सम्मेलन रोक दिया गया है और सम्बन्धित अधिका रिया के पास इस विषय के दृक्म भेज लिये जावेंगे। इस रात्र के दो कारण बताए गए हैं। एक तो यह कि स्वागतकारिणी कमेटी की कायकारिणी के कई सन्स्या न लिखकर और जुवानी यह सूचना दी है कि उनके नाम बिना पूछे लिख दिय गए और दूसरा यह कि दरबार के पास गावा म गैर जिम्मेवार प्रचार सबघी रिपाट आई है। बिना पूछे नाम लिखने के सम्बन्ध म किन किन न हस्ताक्षर किय यह अधिकारिया ने न लिखित उत्तर मे बताया न श्री आनंदराज सुराना और जय नारायण ध्याम आदि को व जुवानी बताया जो रावराजा नरपतसिंह जी और कनल विन्म म भिने थे। हा श्री नरपतसिंहजी ने यह जुवानी अवश्य कहा था कि कई गपीरदारा न कृपका का बहकान की शिकायत की है यह आम अफवाह है कि बिना पूछे नाम लिखने के सम्बन्ध म जिन लागे ने हस्ताक्षर किय है उनम रायपुर ठिवान के वकील श्री श्रीदानचारण मुखिया है। ये मज की बात है कि चारणजी के स्वागत समिति का सदस्य बनन का आवेदन पत्र उनक हस्ताक्षर के साथ रिवाड म मौजूद है।

ऐसा भी सुनने म आया है कि श्री धनराजजी वकील वेडा और बेजगानजी वकील रोया ने भी अपना स्वागत समिति स सम्बन्ध न हाना बताया है परन्तु दुभाग्य स इनके स्वागत सदस्य बनन के आवेदन पत्र भी मौजूद है और हस्ताक्षर भी है श्री लालचन्दजी अप्रवाल नियमित सदस्य नहीं बन थे और उनस वात-चीन करके ही उनका नाम कायकारिणी समिति म लिखा गया था।

श्री नरपतसिंहजी ने पहिले मि आनंदराज सुराना म कहा था कि दरबार आज्ञा दे देगे परन्तु बाद मे नामा पर दबाव डलवा कर स्वागत कारिणी की

कार्यकारिणी के सदस्या को क्या फोटा गया यह रहस्य ही है। यान यह है कि जनता की जागृति अवस्था स्वच्छाचरिणा के काम में बाधक होती है। श्री नरपत सिंहजी अब अपनी इकडुडी गर सुघनेव न भी अधिक् भयकर रूप से बजाने को उतार लागए ह।

(See Ram Pande Agrarian Movement in Rajasthan)

(18)

Conditions for opening printing presses in the Jodhpur State

जोधपुर

श्रीमान ।

वाई लोग कहते हैं कि रियासतों और रईम हमार हैं। परन्तु जरा निष्पक्ष विचार कर देखिये। पराय अंग्रेजा क राज्य में प्रैसएक्ज जसे अनियंत्रित कानून क हात हूए भी लोग किमी प्रकार अपने भाषा को प्रकट तो कर सकते हैं। परन्तु हमार बड़े जाने वाले राण्या में क्या हालत है इसका एक नमूना देखिये।

राजपूतान की रियामता में ख्यातनामा दीवान रा व सुखनेव प्रसाद सी आ इ न। जो कि इस समय जोधपुर की रीजेंसी कौमिन् के पोलिटिकल और जुरिडिशियल मम्बर हैं। जिन शर्तों पर पुष्करणा ग्राम्हणा को प्रस छोलेने की इजाजत नी है उनमें से कुछ ये है। (1) दरबार की आणा बिना कोई अय पत्र व पुस्तिकादि न छापे जाव। (2) कोई राजद्रोहा साहित्य जणशुदा पुस्तके व पुस्तकाये तथा रियामत सबधी कोई भी राजनतिक सामग्री न छपी जावे। (3) यदि प्रेम अपने घना की प्रकाशित सामग्रीआ के बदले में बाहिर से कोई चीज लेना चाहे तो उसका नमूना पहिन दरबार को बतना देना होगा ताकि दरबार यह देख सके कि कोई अनिष्ट साहित्य ता मारगाड में नहीं आता ह। (4) इन शर्तों के विरुद्ध यदि कोई छपाई हागी ता मुद्रक प्रकाशक या मालिक पर 500 रु तक दंड हा सकेगा और शत हमार क भग करन पर पत्र जण करन के सिवाय भी जो कुछ दरबार उचिन ममझगें वह सजा भी लेगे।

मम्बादशात

(19)

This press cutting is from Rajasthan Sandesh Students were ordered not to bear Gandhi Cap in the institutions but students responded it in more numbers bearing Gandhi Cap

6 अप्रैल को कूच का डका बजा दो ।

जोधपुर में छात्रों की अप्रतिबन्ध विजय

जोधपुर 4 4 30

जमवत कालज के दा विद्यार्थी मन्महाहन और भीमराज खानी के वस्त्र पहन कर पढन का जाया करते थ । अत अधिकारिया की आखा म य एक मुद्दत म खटकन चगे । कहत है कि गत शानिवार का जब ये लाग परीक्षा देन को कालज गय तोमि काक्स न इह ऐसा करने के लिए डाटते हुये कहा- यदि कन गेम कपडे पहिन कर कालज मे जायाग ता परीक्षा भवन मे वाहर कर रिय जाभागें पर एमी निरथक बाता का भना वे खादी भक्त कब मानने वाले थ दूसरे दिन अधिकारिया न लखा कि करीब 20 25 विद्यार्थी गांधी कॅप जोर खादी के अय वस्त्र धारण किए हुए खडे है । खादी के विरागीया के हृदय म एक दम हडकम्प पग हा गई जोर पराजित हूय से उन्होने सब छात्रा का परीक्षा भवन म बठन की आना दे नी । ।

(20)

Lithargic police administration

पुलिस प्रबन्ध का नमूना

पुलिस की बद इन्तजामी का एक नमूना 'सन्देश' के पाठक किसी पिछने अक म पटु चके ह । अब समाचार मिने है कि खास सिटी पुलिस स्टेशन के पास ही पिछल 15 20 दिना म बीस से ऊपर चोरिया हो चुकी ह । तिस पर भी दिल्लीगो यह कि मन्नेह म बचार प्रतिष्ठित बनिया का ही हिरामत म रखकर देना स पोटा जाता ह ।

जानना है। मैं 8 अप्रैल को हा चल नेता पर बीमार होने में मुझे मास भर के लिए अपना विचार छोड़ना पड़ा। इस समय भी ऐसा घटनाएँ हो गई हैं जो मुझे वापस में बहुत सहायक होगी। यू० पी० की सरकार ने साल भर के समय में भी बन्द जल्दी भुमायू और दूसरे स्थानों में बेगार उठाने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह बड़ी विजय है। इसमें बाल भारत में और भी महायत्ना मिलने की आशा है इसका सहज ही में पंजाब पर प्रभाव हुआ है। मुझे विश्वास है कि शिमला की पहलकिय में बेगार बिना सत्याग्रह के ही उठ जावगा। सी० पी० और सिन्ध सरकारों ने भी इस आर पण बन्दिया है और इसका परिणाम शीघ्र ही मालूम हो जावगा।

भारत में राजपूताना इस बेगार की दास्ता की दृष्टि में सब में पिछड़ा हुआ है। देसी राज्यों के शासक अपनी प्रजा को और इसमें और भी गुलाम बनाते हैं। विश्वम लोका के पना न भेरे लिल को हिना दिया है मर पास डेपूटेशन आय है जिन के सदस्या ने इस दास्ता की बुरादिया को स्वय आँखा में देखा है। चाहे यह बात सिद्धान्त रूप में नहीं हो पर इनकी मचाई में सन्नेह नहीं हो सकता।

वर्तमान-दास्ता।

पत्र की निम्न लिखित पबितया का ध्यान से पढ़ने से आशय सहज में समया जा सकता है।

राज्य का कोई भी नौकर सिपाही तक चमार का बेगार में पकड़ कर न जा सकता है। गरीब आदमी के अपने काम पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहे कितने भी आवश्यक काम में वह लगा हो। लकड़हारा को बिना दाम या बहुत ही कम कीमत पर लकड़ियाँ के बण्डल के बण्डल दे देने होना है। सिपाही लकड़हारा को पकड़ ले जाता और लकड़ियाँ रखवा कर बिना दाम ही लकड़ी ले लेता है। घसियारा से भी ऐसा ही किया जाता है। इन्कार या विरोध करने पर भिन्न-2 प्रकार की सजा दी जाती है। गाली तो साधारण भाशा है अपनी जाम भूमि में मैंने यह सब बातें कई बार स्वय आँखा से देखी हैं।

महात्मा गाँधी के मुह से सार शेष के लिये आवाज उठी है वह यह है कि यदि स्वराज्य लेना है तो उम्मेद दिले हममें से प्रत्येक का आत्मशुद्धि का प्रयत्न करना चाहिये। अछूतोद्धार के व्यवहार ने हमें दिखा लिया है कि सावधीम ध्रातृभाव के लिये भी आ गये हैं। आत्मशुद्धि के लिये ही मदिरा पान के विरुद्ध आन्दोलन हो रहा है। इसी तरह बेगार और मनुष्य की स्वेच्छा न होने पर बलात्कार से काम कराये जाने की प्रथा के विरुद्ध भी सहज और स्वभाविक आन्दोलन उठाना ही चाहिये।

तब तक विदेशी शासन से छुटकारा सम्भव नहीं जब तक कि मनुष्य को इच्छा ने विरुद्ध बलात्कार कराने की प्रथा हम में जारी है। यदि धर्म जाति रूप में गुलामी से छुट्टी चाहते हैं तो हम व्यक्तिगत गुलामी में भी छुट्टी पाने का यत्न करना चाहिये। कुली प्रथा भी एक गुलामी थी जिसका बहुत कुछ अन्त हुआ गया है। मुझे यह बेगार की प्रथा गुलामी से कम गिरावट करने वाली और पतित बनाने वाली मालूम नहीं होती।

राजपूताना में जाच

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं कुछ ही दिनों में राजपूताना जाच के नियम जान सकूँगा। मैं शान्त आयरूप और बातचीत एवं परामर्श आदि द्वारा राजपूताना की रियासत में भी बेगार को समाप्त करने का यत्न करूँगा। मुझे देशी राज्या की राजनीति से कुछ भी प्रयोजन नहीं होगा और न मैं उसमें हस्तक्षेप हा करूँगा। मेरा कार्य केवल मानवीय दृष्टि से होगा। इसी दृष्टि से मैं लोग का बेगार के विरुद्ध अपील करूँगा।

मैं जो कुछ भी देखूँगा सब समाचार पत्रों में देता रहूँगा।

(24)

Rajasthan Kesari was published from Wardha Has given
different incidents Chandkaran Sarda gave a news
about C F Andrews visit

राजस्थान केसरी, दिनांक 20 3 1921

अंक 19

नवीन चर्चा

1 वर्धा के प्रसिद्ध पूज्य आत्मा भी कद कर लिये गये हैं।

2 संयुक्त प्रान्त की सरकार ने बेगार की कुप्रथा की शीघ्र उद्धान की घोषणा निकाली है।

3 विनाशकाल विपरीत बुद्धि की सच्चाई इस समय नीकरशाही की करतूतों से जानी जा सकती है। भारतीय लोग आत्मशुद्धि के लिये शराब पीना छोड़ रहे हैं और सरकार के कारित्ते लोगों का शराब पीने का महत्त्व बना रहै है। चार्जिका घाटा कम रहे।

4 गत 15 मार्च को 40 भगवान दीनजी और उनके चार विद्यार्थी नागपुर में कद कर लिये गये हैं। आप पर सिवनी में दिये हुए किसी व्याख्यान के

कारण 124 ए धारा लगाई गई है। अजून लोलजी सठी के भी शोध ही पकड़ जाने की खबर है।

5 हम विश्वस्त रूप से पता लगा है कि ता 6 माच को कोटे म राजपूताने के ए जी जी महोदय से श्री ठाकुर कोंसरीसिंहजी अपनी शाहपुरा राजाधिराज द्वारा जयल की गई जागीर के सम्बन्ध में मिन। मुना ह भेट म दशा राज्या म सुधार के विषय म भी वार्तालाप हुआ। हम उत्सुकतापूर्ण आशा करत ह कि ठाकुर साहिब उक्त भेट का विवरण शीघ्र प्रकाशित करन की कृपा करेंगे।

6 महात्मा गांधी जाजपल महा (वर्धा) ठहर ह्य ह। सात दिन बग रहकर उना विचार मध्यप्रात और बरार घमण करन का ह।

7 गत सप्ताह वधा म श्रीगुन काल का पैसाफण पर और डा० पारसनाथ तथा श्री पद्मलाल व्यास के अमहयाग पर प्रभावशाली व्याख्यान हुय।

8 अजमेर म श्री चादकरण शारदा मंत्री राजस्थान-सवामष तार द्वारा सूचित करत है कि जमा कि पत्रा म प्रगट किया जा चुना ह था सी एफ एण्ड्रूज राजपूताने म बगार प्रथा की जाच करना स्वीकार कर लिया ह। जाच तान सप्ताह क भीतर शुरू हा जायगी। किसी महत्वपूर्ण स्थान क न छूट जान एव काय म सुविधा हान करवाल स प्रत्येक राजस्थान निवासी स प्रापना ह कि वह अपन महा की इस प्रथा का सविस्तार वर्णन लिखकर दे कि वेगार बिलकुल मुफ्त ना जाती ह या कुछ दे कर एव किस जानि स कद 2 और कोन 2 बगार दता ह और क्या 2 ज्यान्तिय की जाती ह जाति था की एस पधिक टि श्री चादकरण शारदा अजमेर के पंत पर तुरत भज दें। प्रत्येक राजस्थानी स आशा की जाती है कि वह इस कतमान गुलामी क उच्छेद म सहयोग दकर अपना कतय पालन करगा।

वर्णन भजन वान महाशय अपना पूरा पता भी अवश्य भेजें ताकि कार्यागम क समय उह आवश्यक सूचनायें ना जा सकें।

(25)

Agrarian Conditions in Karauli

करोली

महाराज।

आपका राज्य राजपूताना के उम कोन म ह जहा बपा बहुत कम हाती ह।

फिर भी बंद (बाध आपने तालाब बनवाने की आरंभ भी ध्यान नहीं दिया है। पुराने महाराजाआ के समय के वक्त तालाब तथा कुंड नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। तादाचार आपने बनवाये भी हैं उनका इंजिनियर लोगो ने बिलकूल नाम के लिये बनवाया है आपसे खपया तो दस-दस हजार चाज किया है और उनमें मिट्टी निम्नेगी पाच हजार रुपये से भी कम की। हम गरीब किसान लोग जैसे तमरे दम पाच बीघा जमीन जोत वा भी लेते हैं तो आपके सुअर हाथ नहीं लगन देते। सुअरों की सख्या एक एक गावा में हजारों की है। आप किसी को इनके मारने की आज्ञा नहीं देते और न स्वयं ही आकर मारते हैं। इन दुखों से हम लोगो में से बहुत से आपके राज्य को छोड़ कर भाग गये हैं। आपको माजूम हागा कि जितने गाव उजड़े पड़े हैं हमको तहसीलदार तथा थानेदार रात दिन तक करते हैं उनका सब काम हम लोगो को मुफ्त ही में करना पड़ता है सब लोगो से ये लोग बगार रात दिन लेते हैं। चमारा से बात-चात में बगार ली जाती है अतः व गाव गाव से भाग जा रहे हैं। हम लोग अब आपसे अन्तिम निवेदन किये देते हैं कि या तो आप हमारे कष्टों को बहुत शीघ्र दूर करें जहाँ ता हम आपके गावा को छोड़ कर चले जावेंगे। आपको अपनी रयत की आरंभ ध्यान देना चाहिये क्योंकि आपको हमारे कष्ट दूर करने का ही राजा बनाया है। आप स्वयं विद्वान होते हुये हमारे कष्टों की आरंभ ध्यान नहीं देने हैं। अब देगार बंद हो जानी चाहिये।

किसान

(26)

Awakening in Dholpur

धौलपुर

ब्रिटिश भारत की जागृति से रियासते भी अछूनी नहीं है और रियासती जनता में जागृति के चिह्न दिखाई देने लगे हैं। अतएव धौलपुर के जितने ही गामा में ग्राम पंचायत एवं सेवा समितियाँ नियत हो चुकी हैं जिनके कारण कृषक और पुलिस के भूनों की जेबें ठड़ी रहने का आदेश है। अतः इधर पुलिस ने ग्रामीणों का दराना धमकाना प्रारम्भ किया और इधर रियासत के उच्च कर्मचारियों में इसकी पहल रिपोर्ट सुनकर नोकरशाही का आग्रह मिल गया और उनके प्रमुख खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन अहमद साहब जुहील मन्ट्रेटरी ने हान ही में ग्राम पंचायतों के गस्थापक रजिस्ट्रारों के प्रतिष्ठित ठा. गजसिंह को अदानत में बुला कर खूब डाट बतलाई और पुलिस को गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। जमानत लेने के लिये बहुत कुछ प्रायना की गयी तक कि पचास हजार की जमानत देने को कहा गया लेकिन कुछ

नतीजा न निकला और बिना किंगडे के घर में ठूस दिये गये। 13 अप्रैल की पेशी नियत करनी गई। अन्त में श्री महााराजा साहब की विशेष आज्ञा से 200 की जमानत लेकर दो तीन दिन बाद छाड़ गया 13 अप्रैल को पेशी भी हो गई। मायद आज पुलिस सबूत न जुटा सकी इस लिये आज मुकदमा मुल्तवी रक्खा गया और पेशी की तिथि बढ़ा ली गई। दखें अगली पेशी पर क्या होता है। लेकिन इस मसदा नहीं कि सत्ताधिकारिया की सत्ता इस प्रकार बजाये मजबूत होने के बोखला हुये बिना नहीं रह सकती और न नौकरशाही के ऐम द्रश्य लाभमत का कुचल सकत हैं।

सम्बन्दाता

(27)

Population in Bundi in 1921

बूंदी

नायब दावान घन साल जो नाजिम हीडाली बनाये गये है। हीडाली की प्रका पहिले ही पीछित है अब इन महादयालु के पटूचन पर न मालूम क्या हाल हागा ? आप दरबार के हुकम का तामील फौरन करते है किन्तु दरबार यह नहीं जानत कि वह होती किस प्रकार है। शायद इसी गुण से आप थोडे ही दिना में दीवान भा हा जायेग। सन् 1911 की मदुम शुमारी में राज्य की जनसख्या 218730 थी परंतु इन वष बह 187068 ही रह गई।

बूंदीवासी

(28)

Legislative Council in Jhalawat

झालावाड नरेश का वह भाषण हम मिला है जिसमें नरेश ने अपन राय में व्यवस्थापिका सभा स्थापित करने की घोषणा की है। इसका बुनासा किंसा अगल अक में करग। यहा इतना कह देना आवश्यक है कि हम आशा है कि यह सभा बोमानर नरेश का सभा की सी न हाकर लाभमत का आन्तर करेगी ही।

(29)

Low paid Government servants in Mewar in 1921

मेवाड।

मुताबे है रियासत का नया बजट बनन वाला है। राज्य का काम पहिल की जाभा बन्त घढ गया है किन्तु अमला अभी तक उतना ही है जितना 50 वष पूर्व

था। बजट बनाने वाला का इस ओर ध्यान जाना अत्यावश्यक है। दूसरी बात यह है कि कमचारिया का वेतन इतना कम है कि उससे कुटुम्ब का निर्वाह नहीं हो सकता। खास कर इस महंगी के जमाने में तो असम्भव है। इस हालत में भी कोई ईमानदार रहते हुए राज्य की सेवा करता है तो भी उसे न तो कभी इनाम मिलता है और न तरक्की। पेशाने फंड के लिये फातेदारी काट ली जाती है परन्तु पेशाने किसी को नहीं मिलती।

एसी परिस्थिति में साधारण मनुष्य का मन रिश्वत खारी और गबन की ओर कैसे न झुके। वेतन की कमी का केवल एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। धानेदार का वेतन 20 से 30 रुपये मासिक तक है। अब उनका कम से कम खर्चा देखिये। एक घाडा जा उठे रखना पड़ता है उसका दाना 6 रुपये का घास 3 रु का साईस जा धानेदार का भोजन भी बनाता है उसकी तनखवाह 6 रु धानेदार व साईस का रोटी खर्च 15 रु जो वेतन मिलता है वह तो चला जाता है। अब खुद के लिये कपडा व कुटुम्ब का साग खर्च कहा से आवे? यही हाल सब महकमा के सब कमचारिया का है इसलिए यह स्पष्ट है कि कमचारिया का गुजारा एक मात्र रिश्वत खोरी से चल रहा है और यही कारण है कि प्रजा रिश्वत के मार तबाह हो अत एव दरबार से प्रार्थना है कि इन बातों पर ध्यान दे और प्रजा की रक्षा के नाम पर नये बजट में कमचारिया का वेतन काफी बढ़वा दे एव तरक्की व पेशाने का उचित प्रबंध करवा दें। और इसके बाद भी यदि किसी का रिश्वत लेना मालूम हो तो रिश्वत खोर को ऐसा लण्ड दें कि सुनते ही दूसरे काप उठे और फिर किसी की हिम्मत न हो।

(30)

State of education in Mewar

मेवाड़—

उदयपुर मदरसा व अस्पताल के लिये राज्य प्रजा से 75 लाख रुपये बसूल करता है परन्तु खर्च केवल एक लाख किया जाता है। शेष रकम धर गोबक में भाना इन दोनों विभागों में खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं। संपूर्ण राज्य में बसूल एक ही स्कूल उदयपुर में ही है इस मदरसे में केवल स्थान 200 विद्यार्थियों के लिए है किन्तु भर हुप है भेड बकगिया की तरह 500 मुसल कुछ भी इन्तजाम नहीं हो सकता। बेहद गोर जाना है न तो मास्टर पग सकते हैं और न उच्च पद

मन्ने है। उज्जपुर में बाहिर के विद्यार्थियों के लिए एक भी बार्डिंग हाउस नहीं। शिक्षा की यह दशा होते हुए भी इसी निमित्त प्रजा से वसूल की हुई रकम शिक्षा में खर्च नहीं की जाती। उधर महाराणा साहिब अपनी स्वाभ्युत्थ रक्षा व शौर्य पूरा करने पर लाया गया वार्षिक शिखर में खर्च कर लेते हैं। एकारा मनुष्यों व पशुओं को माय निचे माल में छ महीने उत्त हेतु में दौर में ही बिताने है। चिन्तु विद्यार्थियों व निय क्रिबेट पुटवाल आदि मना का भी इन्तजाम नहीं किया जाता। श्री० प० गांधीवादी जी आजा बडे योग्य पुरुष है और शिक्षा सुधार की ओर उनकी रुचि भी है परन्तु न मात्रम क्या महाराणा साहिब उनका नाराज है उज्जपुरी बनेहा-मवाड में यह बहुत बडा टिकाना है। इसकी जनसंख्या 26000 और आय डेड के लगभग है। महाराणा की ओर में यहां के राजा जी को दीवानो पौरदारो के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इन्ही अधिकारों के बल पर प्रजा पर कई तरह के जुम किया जाते हैं। स 1968 (1911) में यह नया रिवाज निराला गया कि गिरी व पोतले में किमी के घाट आ जाय और वह दर्जाइन कर ना जय तक वह 11)जमा न कराने कोर् मुनवार् नहीं जाती। स 1978 (1921) में कोर् आन्मी मुफ्तमा पग करना हुआ उमम तन्वाने के १० पहिने ही वसूल कर लेते ह। स 1960 (1903) में की गया गाडी किगये में इमनिय वसूल किया जाने लगा कि स्टेसन तक गडन बनवा दी जायेगी परन्तु सडक बनना ना दर बिनार शहर के रास्ता में भी भाट पत्थर नहीं हवाय जाने। पाग पाना का कुछ भी इन्तजाम न होने पर भी चरवाहा टक्क वसूल कर लेते है। पुनिस भी बायम की गई हम यह एक नई आपन घडा हुई ह। हदवाई कोनवान का मामला इसका प्रमाण ह। बिगाना में आधा आना की गया मफायाने के निय वसूल किया जाता है परन्तु उन्ही दशार् मने का कुछ भी इन्तजाम नहा। महाराणा की आगा न हान पर भी शराब व मिय रटा के ठके निय गय हैं। शिक्षा की आर कुछ भी तबन्तु नहीं ह। पाठशाळा के लो तात मास्टरों का छोड कर सेप का मुन्वर्गोष्पार भी नहीं आनी। पुनिस व दास दुगने निय जान है। स्कूल सुपरिन्टेन्डेन्ट कुछ निगरानी नहीं करत। क्यों करन मय ? उनको सडक की पडार् ता पर बडे मुक्त में हा हा जाती है।

एक विद्यार्थी

(31)

Bhoi caste was allowed to bear turra in marriage on their
bride grooms and Dhobi caste was allowed
to eat Gur sweets

मेवाड

उज्यपुर-चन्द्राल सुखवान ने जा अभी देश म घूम कर आया ह कुछ दिन
पूव अम्बावगढ़ पर हिन्दू मुसलिम ऐक्य पर कुछ भाषण किया । पुलिस ने उसे ऐसा
करन से रोक दिया और पाच चार दिन तक पूछ ताछ से तग करती रही । उम
पर यह भी शक किया गया कि वह विद्यार्थिया का विजयपदक न लेने का उभा
रता ह ।

पुलिम न विवाह के अवसर पर भोईया का तुरा वाघन स रोक दिया और
धाविया का गुड का पक्वान खान स रोक दिया । दाना जातिया ने असहयाग के
अम्ब का महारा लिया । भाईयो ने जल भरना व धाविया न कपडे धोना बन्द कर
लिया । दरबार साहित्य स लेकर साधारण कमचारी तक को इन लागा की माग
मानूम हो गई । परिणाम यह हुआ कि महाराणा माहिव ने भोईया का तुरा वाघन
व धाविया का गुड खान की इजाजत दे दी । किसको महार महाराणा साहित्य की
उत्तरता को या जयया की अमोघताको ?

(32)

Sethi and Pathik impressed on responsible
administrative Government

“राजस्थान केसरी”

रविवार स 1977 ता 13 3 1921 अक 18

‘नवीन-सर्चा’

ऊपरमाल पचवाड विजालिया के मंत्री मणिकलान जी का पत्र हम मिला
ह । पत्र देर से मिलन स पूरा नहीं दिया जा सकता । सारांश यह ह कि श्रीयुत मंत्री
जी के विजालिया में कट एक व्याख्यान हुए । जनता का उत्तरदायी शासन की
आवश्यकता आपने खब समझायी । आपके यत्ना से अधिवारी लोग कुछ समझोन
के लिये तयार हुए ह । काम में श्रीयुते पथिक जी अध्यक्ष राजस्थान सेवा मघ और
शायुन अनु नवाय जी मेठी श्री समन्वित के लिये उठर हुए हैं ।

(33)

No vakli for Moti Lal Tejawat**फिर मोतीलाल तेजावत**

श्री मोतीलाल तेजावत क मुकदम के सम्बन्ध म विचित्र समाचार आए हैं । कहा जाता ह कि उनक अल्पज्ञान स लाभ उठा कर गिरवा हाकिम चुपचाप उनके मुकदम की कायवाही कर रहे हैं उन पर डकती चोरी आदि जस अभियोग लगाए गए है । फिर दिल्लगी यह कि उनके बचाव की कोई व्यवस्था नही । न कोई योग्य वकील दिया गया है न उनकी पसन्द का कानूनी सलाहकार । यदि ये बात सच है तो कहना पड़ेगा कि मवाड राज्य म अधमता की हद होने लगी है । क्या हम आशा करें कि उच्च अधिकारियों का ध्यान इस अघा घुघी की ओर जायगा ?

(34)

High handedness of Hakim

रा० बेसरी म हाकिम की गिवायते प्रकाशित हान से उनके दूर करने के स्थान म हाकिम ने प्रजा के साथ और भी क्रूरता का बर्ताव करना शुरू कर दिया है । गुण रूप म उसन प्रवध किया है कि कृषक व आय बंगार देन वाली जाति कही इकठ्ठी न हो सके । हाकिम के ही स्वभाव का यहा का डाक्टर हसरराजपुरी भी है । उमने बिला कसूर नाथूलाल मोतीलाल जातमल पाखरणा व नाथूलाल मारु को शपाघाने म जूतो और घूसा स बुरी तरह पीटा । महकमा खास न इस घटना के सबध म एव बजोड माली व नारायण दरागा मुलाजिम तहसील की तनाती कहा है व भडारी चन्दन राज को घर बडे 12 महीन का वेतन किस हुकम से दिया गया इस सबध म हाकिम से पूछे तो उस पता नगे कि हुकूमत किस खूबी के साथ की जा रही है ।

मवाही युवक

(35)

Bad Officials

भीलवडा—हाकिम क यहा न रहने से कर्मचारी प्रजा की बुरी तरह मूट रहे है । उनकी भेट पूजा न हो सकने पर जेल हवालात और ठडा बतते हैं । रात को भन घरा की स्त्रिया तक पर ये लोग अपने दलीना द्वारा गलब चहाते है । क्या हाकिम साहिब का योग्यता का परिचय हम इसी रूप म मिलेगा ।

प्रत्यक्षदर्शी

(36)

Bijolia Movement—Ladies Reactions

“नवीन राजस्थान

Rajasthan Kesari was Published from Wardha while
Navin Rajasthan was started by B S Pathik
from Ajmer

रविवार ता० 20 अगस्त 1922 ई०

श्री साधु सीताराम दासजी की भ्रम यात्रा Arrest of Sadhu Sitaram Dass
श्रीमती रामकुवरि देवी का पत्र his wife writes to the editor
her reactions

इस मप्ताह मुझे श्री साधुजी की गृहिणी का निम्न पत्र मिला है ।

इस पत्र पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यदि इसी प्रकार सब राजस्थानी देविया राजस्थान के गौरव और अपने कर्तव्य का ध्यान रखने लग जायें तो राजस्थान के उद्धार का दिन बहुत निकट आ जाय ।

-बी० एम० पथिक

मम्पादक महोदय ।

बिजोलिया

9 8 22

पूज्यवर ।

आज भगवान की कृपा से मुझे भी वह शुभ दिन मिला है जिस क लिये बहुत सी देश की बहिनें आसरा देखा करती हूँ पहल राजस्थानी बहिनें भगवान से यह प्रार्थना किया करती थी कि हमारे प्रतिमा को किसी सजाई में जस मिले और वे सप्राय मे काम भले ही आ जावें पीठ नहीं दिखावें । दुर्भाग्य से राजस्थान के लिए वह दिन नहीं है पर फिर से हम यह इच्छा तो कर ही सकती हैं कि हमारे स्वामी जब किसी दुख में पड़े तो दश या घम के लिए पढ़ें । मर स्वामी को यह तीसरी बार घम और देश के लिये जेल पधारने का अवसर मिला है । इसने बढ़कर मरे लिए सुभी का दिन बोन सा हो सकता है ।

आपन मरे घरगीरी व वामन यहाँ व काम करन वाला का लिया है । मरा निवदन है कि मर किए आप कोई चिन्ता न करें । स्वामी व फिर छूट कर काम आरम्भ करने तक मुझ से जो कुछ बनगा उनका छोटा काम की पूर्ति के लिए करती रहूँगी और नियमित रूप से चरघा कानना और प्रचार का काम करूँगी ।

मरी लिए एक ही इच्छा है और वह य है कि भगवान हम से देश के लिए तरलीफ सहन और दंग की मवा करने की ज्यादा से ज्यादा शक्ति दे ।

शुभपिणी

राम कुँवर साधु

(37)

**Duke of Canaught passed through the territory of Kota
Police caught persons from Kherabad fair gathering.**

कोटा ।

महान्याय ।

गत 19 फरवरी का खराबा म माताजी का मला था । दूर 2 से मरवा यात्री आय हुए थे । दुपहर के समय पुनिम के सिपाहिया न मेले में बुहराम मवा लिया । इन लोगों ने जित चाहा-गाहे वह व्यापारी बृषक मजदूर या कोई हा-पकड कर घान में भेजना शुरू कर दिया । जो थोडागा भी खबार हुआ उम सिपाहिया न बुरी तरह पीटा । मार से बड बेठाग हा गया एक व तीन टट गया और एक रेल्व बागामामी मजदूर का मारा बदन मार से गूज गया । सब पकड धरुड और मारपीट का कारण बबन यही था कि 20 फरवरी का कनाट व ड्यूक काटा राय में हानर रेल द्वारा गुजरने वाल थे इसनिय रियासत न अपनी राजभक्ति दिघान का यह इन्तजाम किया कि अपनी हद में रेल्व लाइन व दाना जार पक्कीस 2 ताम 2 कदम पर रेल्व लाइन व ड्यूक की रक्षा के लिय रक्षक छोडे कर दिय जायें । ऐसा हो भी गया पहिले खबर थी कि ड्यूक की स्पेशल रान को निबलगी इस निय राज्य न हरेक आदमी के हाथ में जलती हुई मशान रैन का प्रवध किया था । किन्तु खबार ड्यूक व भाव्य में एक भारतीय और दानिय नरश की 30 मील लम्बी विविध रोगनी द्वारा प्रदर्शित का जाने वाली राजभक्ति का परिचय पाकर दिल टण्डा करता बना नहीं था । स्पेशल दिन का ही निबन गई ।

(38)

**This article points out the conditions prevailing in Kota State
A tussel between Kunwar and Dewan of the State is visible
Dewan is requested to establish Gram Panchayats**

देसी राज्य

(कोटा राज्य (लेखक सत्यवक्ता)

जागीरा की प्रजा बहुत रूस्त है शिक्षा व सुधार का बहा नाम भी नहीं है । पनायता की भी बही दशा है क्याकि आप ममझते ह कि सुधार होने स जागीरदारा की स्वच्छ दता व निरकु शना म बाधा पडगी ।

आपके ही समय मे पुनिस के अविनारिय। न एक कत्ल का फर्जी मामला बनाया और उसको हर प्रकार से साबित करने के प्रमाण एकत्रित कर लिये परन्तु सजा मिलने मे पहिल ही मकतन जिन्दा हाकर उपस्थित हो गया । इ स अभियोग म जालसाजों को कोई दण्ड नहीं दिया गया क्याकि उसम कुवर साहब भी गोपी थ आप कोटा दरबार को यत्र तत्र लेकर शिकार खेलने फिरते ह जिसम आदमी घायल होते ह और मारे भी जाते ह । बिचारे दीन किसाना को घोर कष्ट दिया जाता ह जिन को कभी पेटिया मितता ह और कभी नहीं । जान जाखम म तो रहती ही ह । हाको के आस पास शेर और दूसरे जगली पशु मवेशी और वेता का सत्यानाश करत हैं । अभी असनावर के पास शेर ने हाका खलत समय एक ग्यारसीराम नामक मनुष्य को मार डाला । और दो आदमिया को घायल किया परन्तु शिकार खेलना बन्द नहीं होता और न शिकार क्षेत्र ही नून किये जाते ह ।

इस प्रकार कु वर माहव ने दरबार पर अपना प्रभाव जमा लिया ह क्याकि आप की लालसा दीवान के पद पर नियुक्त होने की ह इसी कारण बह लेख यह भी आपही के इशारे मे लिखा प्रतीत होता ह ।* पहले कोटा दरबार राज्य व प्रगध म कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते थे परन्तु अत्र नुकसान हान स राज काय म दखल देन लग ह मास्टर शिवप्रताप के न रहने से ऐसे लांगा का दरबार को बहकाने का अच्छा मौका मिल गया ह । उस लेखक व लेखानुसार कोटा दरबार बुद्धि व

* (It is not known what this lekh was in detail ?)

वासना का अनगल और अव्यवस्थित दशा में चरिताप करन गये। टीक ही ४ जिमस बोट का बच्चा 2 पगिचिन ह। बभी 2 ता वृद्ध और अनुभवी दीवान को बाता तक को काटने लग हैं। इस कारण राज प्रबन्ध भी बिगड़ता जा रहा ह जिसका फन दीवान को भुगतना पडता ह।

कु वर साहब न रेवयु कमिश्नर व अपोग्य लडके को जिम दीवान साहब साधारण पन् दने थे अपनी लाजसा की पूर्ति व लिय पुलिम में सब हमपेवटर बनवा लिया और इस अहमान व प्रतिफल में कमिश्नर साहब को अपन पक्ष में कर लिया। काटा राज्य व विषय में राजस्थान केसरी में जो लख निबला ह उसका लेखक ने मिथ्या धमतात्मक और पक्षपात पूण लख लिख कर काट की प्रजा को बहुत बडी हानि पहुचाने का प्रयत्न किया ह। हम दीवान साहब व पक्षपाती नगी ह और न उन व नडक का ही दीवान हाना अच्छा समझत ह। परंतु दीवान सा० ने अपन नडके का बुनामर ऐसा बानसा अपराध किया ह जब कि तमाम अधिकारिया न अपन अपोग्य रिश्नदरा में कुल महकम भर गम ह। दीवान सा० के पुत्र प० विष्णुभर नाथ एम ए ह और गवर्नमन्ट में रिप्टी कलेक्टरी व लिय माग गय ह। यहाँ पर उन का प्राईवेट सत्रट्टी बना दना उन व माथ कोर्ड अहसान करना नहा ह। जब कि हम देखते ह कि यहा पर उहा व हम रतवा औहदे पर पजाब व एक हड कामन्सल जनरल सुपरिण्डेण्ट पुसिस और पटवारी अमिस्ट्रेण्ट रवयू कमिश्नर व कमिश्नर बने हुय ह ऐसी दशा में दीवान साहब व प्राईवेट सत्रेटरी मा पर आक्षेप करना किसा घाम धन्यत्र का दानक ह।

इस लख से यह भी भनी भाति विदित हा जायगा कि कु वर सा वहा तक दीवान के पन् व माग्य ह। और कोटा राज्य की तबाही में कहा तक उन का हाथ रहा ह। इन का दावान हा जाना प्रजा व राजा दान ही के निग अहित कर।

परिशिष्ट में यह कहना भी अनुचित न होगा कि अज समय एक तत्र का नहा ह इसनिध दीवान साहब को चाहिय कि ग्राम पंचायत प्रथा जारी कर व एक प्रबन्ध कारिणी कौंसिल स्थापिन करें जिममें प्रजा के निर्वाचित व योग्य नामिनेट मम्बर लिये जाव। अपने पुत्र को दीवान बनाकर अपनी कीर्ति कौमुनी को मलीन न हान दें।

कोटा दरवार से भी निवेदन ह कि जागीरदार व प्रजा व हित भिन्न 2 होन से राज की बागणोर जागीरदारों के हाथ में नहीं सौप इससे प्रजा पर बहुत जत्याघार

हागा और प्रजा में घोर असन्तोष व आदालत बढेगा। श्रीमान को सदैव प्रजा के हितों का ध्यान रखते और अपने उत्तरदायित्व का समझते हुए अपनी स्थिति को का सुधारण का प्रयत्न करना चाहिये। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपनी व राज्य की कीर्ति में बट्टा लगे।

(39)

Begar and Bonded Labour in Kota State

कोटा राज्य में बेकार

ता 19 जून के राजस्थान केसरी में कोटा राज्य में बेकार सम्बन्धी लख निकला है उसमें यह बतनाया गया है कि प्रजा की ओर से बेकार बन्द करने के विषय में कार्य प्रयत्न नहीं किया गया। बाबू किसन सहाय साहेब अपने दौरे में बेकार का अनुभव करके बेकार बन्द कराने का प्रयत्न कर रहे हैं इत्यादि इस लख का उत्तर देना अत्यन्त आवश्यक है बाबू किसन सहाय प्राय 30 वर्ष से इस रिपामत में मुलाजमत कर रहे हैं। आपने इस 30 साल की मुलाजमत में आज तक ऐसा सराहनीय कार्य करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। बाबू साहेब प्रति वर्ष दौरा करते हैं और करते रहे हैं और प्रत्येक दौर में बेकार का अनुभव करते रहे हैं परन्तु बाबू साहेब न इतने वर्ष पहिले रिपोर्ट देने की ओर आगे रिपोर्ट कर रहे हैं इसका कुछ कारण भी लेखक महाशय बतना देते तो अच्छा होता। प्रजा ने बेकार के सम्बन्ध में कार्य आन्दोलन नहीं किया यह नितांत मिथ्या व निमूल बात है। आज कई मामलों में समाचार पत्र में कोटा के बेकार सम्बन्धी आन्दोलन के समाचार निकले रहे हैं फिर यह कम कहा जा सकता है कि प्रजा ने कोई आन्दोलन नहीं किया हम यह कहते हैं कि बाबू साहेब ने बेकार बन्द होने के विषय में कार्य प्रयत्न नहीं किया। बेकार यद्यपि प्रजा की दरमामन पर ही रिपामत बढा करके बन्द कर रही है तथा जब बाबू साहेब यश के भागी बन रहे हैं तो इसमें हमारा नुकसान ही क्या है।

(40)

Unqualified officers in Engineering Dept of the Kota State

कोटा—राज्य का इंजीनियरी विभाग बहुत ही श्रुतिपूर्ण हो रहा है। इसके कारण इस विभाग के अफसरों की अयोग्यता ही है। यद्यपि वह इंजीनियरी की परीक्षा पास नहीं है तथापि केवल अग्रेज होने से ही उस तनख्वाह दी

जाती है तोवान साहित्य मे भी ज्यादा । मामूली इमारत भी वर्षों तक खतम नहीं होती और एक इमारत पर नौ 2 ठेकेदार बदन जाते हैं । इंजीनियर के ब्रेडिंग तरीका से योग्य ठेकेदार नहीं मिलते । राज का धन व्यर्थ जाता है । उससे अच्छा तो यह हो कि मिन्न-2 विभाग अपने 2 आवरशिपर रखकर जम्मत के मुआफिक इमारत बनवा लें ।

काटा वासी-

(41)

About Jagirdar Association

14 फरवरी के दिन प्रताप म किमी सञ्जन मे काटा के जागीरदार-एसोसिएशन पर कुछ अनुचित आक्षेप किये है । जापेक्षक ने एसोसिएशन का बूट उद्देश्य अथ प्रान्तीयो का निवाल बाहिर कर के राज्य म कौंसिल स्थापित करने और उसमे सर्वाधिकार अपने हाथ म लने का बताया है । उक्त कल्पित उद्देश्य के उच्चारण के विषय म ता प्रजा भी सशक है । वह नहीं चाहती कि राज्य की भाग्य विधात्री कौंसिल यदि बन तो उसमे केवल जागीरदार उभराय ही सब कुछ बन बढ प्रत्युन उनमे प्रजा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिया का बढभत हो । किन्तु उद्देश्य के पूर्वाध की बात नितान्त निराधार है । अभी तक कोई ऐमा उदाहरण प्रत्यक्ष नहीं हुआ है । ऐसी दशा म परप्रातीय एक राज्यनिवासियोंमें इस प्रकार के विवरणा के प्रकाशन से मनोमालिन्य का बीजारापण करना कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त ड्रेप रहित होकर अपनी योग्यता के बल पर यदि रायनिवासी यह चाह भी कि शासन के सब अधिकार पर हम ही हा तो इसमे बुराई कौनसी है ?

(42)

Rajasthan's role in the Indian freedom struggle This is written by Jagdish Prasad Deepak

भारत के स्वातंत्र्य संग्राम मे राजस्थान का भाग

तीमरा दौर १९१९-१९५२ ।

प्रबन् १४ एम० विभाग ऐ वृ १९१०-१९२२ ।

सितम्बर १९२० में जब श्री रामनारयण चौधरी वर्धा म एक स्वदेशी भण्डार चला रहथ कलकत की काँग्रेस से लौट कर पयिक जी से प्रथम मिलन यहा हुआ । इसके परिणामस्वरूप दोना ने मिलकर पहल ता दशी राज्या की प्रजा का प्रथम मुखपत्र

साप्ताहिक राजस्थान केसरी निकाला। श्रीमान पथिक जी उमने सम्पादक और चौधरी जी प्रकाशक और सहायक सम्पादक थे।

नवम्बर १९२० म पथिक जी और चौधरी जी न राजस्थान सेवा सघ की स्थापना की। पथिक जी उमवे अध्यक्ष और चौधरी जी उसके मंत्री थे। बिजोलिया का किसान सत्याग्रह आन्दोलन जा पिछले चार साल से अकल पथिक जी के नेतृत्व म चल रहा था अब सघ के सामूहिक नेतृत्व म आगया।

दिसम्बर १९२२ म होन वाल नागपुर कांग्रेस म आप लोग न देशी राज्या के अत्याचारा की एक मुह झोलती प्रदर्शनी लगाई थी। भारतीया की राष्ट्रीय आत्मा कांग्रेस क प्रतिनिधिया न उसे देखा। उधर महात्मा गांधी ने श्री महादेव देसाई का बिजोलिया भेजकर जाच करवानी थी और शिकायत को सही पाकर बचन दे चुके थ कि महाराणा शिकायत दूर नही करत ता महात्मा गांधी स्वय बिजोलिया मेवाड के सत्याग्रह का नेतृत्व करेगे सघ के पास बिजोलिया के तवाजे जा रहे थ कि कोद नता यहा पर भेजा जाय। तत्कालीन मेवाड म कायकर्ताआ को नता ही कहा जाता था। दिल्ली म महात्मा गांधी के परामश स श्री चौधरी जी बिजोलिया के लिय रवाना हुए। स्वर्गीय महादेव देसाई के बाद श्री रामनारायण चौधरी ही ऐस बाहरी कायकर्ता थे जो खुल तौर पर बिजोलिया गये थे तब मेवाड स्थित रेजीडेंट विल्किन्सन भी दौर पर आय हुए थ। श्री रामनारायण जी चौधरी न उह पभिया का शिकार करत टूट घेरा था और बोने जागीरी जुम्म म राहत पान म आप को जनता की मज्ज करना चाहिय। विल्किन्सन बोले रियासत के अदरनी मामला म हम दखल नही देते। चौधरी जी क्व चूकने वाले थे ये बोले आपक लिय जा मुफ्त रसद घोर बेगार मे आयी है क्या उम भी नही रोक सकत। साहब अनमुनी करके चले गये।

फरवरी १९२१ म तीनबधु सी एफ एड्ज क महयाग स राजस्थान सेवा सघ ने बेगार प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन छेला। श्री चौधरी ने राजस्थान क जनक स्थापना म धूम कर वहा के बेगार सम्बन्धी हानात की जाच की और सघ क कायकर्ताआ द्वारा स्थान स्थान म बेगार और लाग बागा क विरुद्ध मामली इक्की करवानी शुरू क्यदी।

अप्रैल १९२२ म बिजोलिया क पडोसी जागीर बगू क किमाना की तरफ म सघ की सहायता की माग हुई। सघ न श्री चौधरी जी का मेवाड के किसान

दामावर लाल जी भागवत का पाम उदयपुर भेजा। अजमेर लौटने पर जाप बगू भेजे गये। बगू इलाका को उधर में तान आन्तरी और बित्रीनिया का उपर भाग के नाम में पुकारते हैं। पचासत का काँद्र स्थान रायता नाम के पास एक क्षत्र में सत्याग्रह का लिये उत्सुक किसानों की गभा हुई। जागीर का सशस्त्र घुडघार भी वहाँ मौजूद थे। चौधरी जी की उपस्थिति में ता बोर्ड अवाछनीय घटना नहीं हो पाई मगर उनके अजमेर लौट जाने पर गान्धी चल गई।

राजपूताना के ए. जी. जी. मिस्टर हान्डन मवाड का महाराणा पतेहसिंह जी का एक पत्र लिखा। इसका मवाड के आन्दोलन की व्यापकता और उग्रता पर भय प्रकट करते हुए और उसमें पड़ोस के ब्रिटिश और रियामती इलाका पर पड़ने वाले खतरनाक असर का जिक्र करते हुए महाराणा में काफी दमन न करने के कारण गद्दी छोड़ने की माफ तौर पर माग की गई थी। श्री रामनारायण जी चौधरी ने राजस्थान सेवासभ की ओर से नीलवाढा हमीरगढ छोटीसाल्डी बडी सादवी और चित्तौड में सावजनिक सभाएं करके भाषण दिये और प्रस्ताव पाम करवाये कि जनता का जो कष्ट है वह राजा में लडेगी मगर वह विशेषी शक्ति का हस्तक्षेप और महाराणा का अपमान कभी सहन न करेगी। इस प्रकार चौधरी जी न मवाड के लोकमत को ऐसा बना लिया था कि महाराज कुमार को शासन के बहुत स अधिकार ता दिलाये गये। मगर महाराणा पदच्युत होने में बच गये।

सितम्बर १९२१ में वर्धा का 'राजस्थान कसरा' के प्रकाशक की हैमियत में श्रीयुक्त रामनारायण जी चौधरी अजमेर में गिरफ्तार कर लिये गये। और आपने वहाँ पुलिस की मानहानि के आरोप में तीन महिन की कद की सजा भुगती। वर्धा की जेल से छूट कर अहमदाबाद के ऐतिहासिक कांग्रेस (लौटकर) चौधरी जी जब बिजौलिया गये तो असहयोग का सीधा सम्बन्ध ना होने पर भी उस राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संग्राम का वहाँ पर व्यापक और प्रबल प्रभाव देखा। रूसी राज्य ज्ञाता की प्रेरणा भी थोड़ी बहुत काम कर रही थी। श्री चौधरी जी बगैरह ने किसानों का बताया कि एक बड़ देश में गरीबों का हाथों में राज सत्ता आ गई है। वे सोचते हैं कि अपने यहाँ ऐसा नहीं हो सकता।

उधर बगू का छुट भया मडेला रायड द का ठाकुर न एक मालिन को सरे बाजार घसाटवा कर गिरफ्तार करवाया। और मालिन को भी लटकवा कर पिटवाया। ममनिया ठाकुर स तो ऐसी हरकतों का कारण किसानों का पीट भी दिया था। इससे जनता में हिमा भडक उठने की आशा हो गई थी। इस परिस्थिति पर

विचार करने के लिये श्री रामनारायण चौधरी के भाग प्रदर्शन में २५ फरवरी के १९२२ को शुभ शिवरात्री के दिन बिजौलिया के गिलबर्धा नामक प्राचीन शिवालय और जल स्रोत के निकट एक कांग्रेस हुई। इलाका की पचायता के सम्मेलन का इसी नाम से पुकारा जाता था। इसमें आन्दोलन के सभी क्षेत्रों से पूर्व मेवाड़ के हर हिस्से से सक्का स्त्री पुरुष प्रतिनिधि आये। पूर्वी मेवाड़ के हर हिस्से से मालीवा आसपास के बूंदी कोटा झालावाड़ म्वालयर और इंदौर के इलाका में भी कुछ उपस्थित हुए। यह पहला सम्मेलन था। जिसमें अलग अलग प्रदेशों ने मिलकर विचार किया। शरीक रह लड़ना तय किया। श्री चौधरी के नेतृत्व में इस सम्मेलन ने ही जागीरदारा और राज्य को एक खास प्रस्ताव के जरिये चेतावनी दी कि स्त्रियाँ का अपमान किया गया तो आत्म रक्षा का अधिकार काम में लिया जावेगा। इसके पश्चात् स्त्रियाँ पर सीधी ज्यादाती होना बंद हो गयी।

बिजौलिया के सम्बन्ध में कुछ मोटी बातें त करने के लिये मेवाड़ के तत्कालीन दीवान प्रभातचन्द्र जी अजमेर पहुँचे इस कार्य के लिये मार्च १९२४ में श्री चौधरी जी का बिजौलिया से बुलाया गया। राजस्थान सेवा सघ से ही प्रेरणा पाकर श्री मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पालनपुर दाता सिरोही और मारवाड़ के भीला में जागति पदा करदी थी। सघ के अध्यक्ष का उस क्षेत्र में शानदार स्वागत हो चुका था। राजपूताना एजेसी का यह सब पसन्द नहीं था। परिणाम यह हुआ कि सिरोही राज्य में २ या ३ स्थानों पर गोलियाँ चल गईं। सघ ने श्री राम नारायण जी चौधरी और सत्यभक्त जी को बहा जाकर जाच करने और राहत पहुँचाने के लिये नियुक्त किया। अंग्रेज अधिकारियों पर और रियासती सत्ता अधिकारियों ने स्वयं विदेशी और बाहरवालों को बाहरी होकर भी आप लोगों को बाहर वाले बताकर इनके बहा जाने पर रोक लगा दी। चौधरी भला क्या रहने वाले थे आप सत्यभक्त जी सहित गुप्त चुप घटना स्थान पर जा पहुँचे। भूला और बाखानिया नामक दो गाँव यह हत्या कांड भुगत चुके थे। पचासा भील भोजनगन की गोलियाँ के शिकार हो चुके थे। दरिद्रता की मूर्ती भीला के खान का धान जला दिया गया था। सघ की ओर से जब इस भीषण कांड पर श्री रामनारायण जी चौधरी और सत्यभक्त जी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो देश के समाचार पत्रों में एक सनसनी फैल गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में उभरी गूँज हुई। भारत को स्वराज्य देने वाले ब्रिटिश की मजदूर सत्ता के भारत में पब्लिक लारन्स से राजस्थान की सेवा सघ की ओर से ब्रिटेन की समझ में सवाल करते रहते रहते थे। भीला का वसूर यह था कि उन्होंने शराब छान दी थी। बढ़ाया हुआ लगान घटाने लागू बाँध और बगार

के मघप के बाद जो लेनी थी। पचायत का सुदृढ़ संगठन था जिसमें सभी ग्रामवासी शामिल थे और अपने आंदोलन के स्वावलम्बन के सभी खुशी से रुपया देते थे। ठिकान की आजा नही मानी जाती थी। कोई कर नहीं देता था उसकी अदालत और पुलिस से कोई वास्ता नही रखता था। चार वर्षों में सत्ताने भारपीट की और खड़ी फसल ही नष्ट की तब पचायत न तय किया कि गांव के लोग बिजोलिया कस्बे न जायें शराब छाड़ दें शान्ति और मौतूर जब तक मत्याग्रह सफल न हो जाय बन्द रखेंगे। और बिजोलिया की सारी जमीन पडत छोडकर पडौसी म्यालियर इत्तर काटा और बूदी राज्या में खान भर को खेती कर लेंगे। चार साल क सामूहिक कायश्रम की सफलता चौधरी जी के बुद्धि कौशल से ब्याज महित बसूल हो गई। विदशी साम्राज्य राज्य और जागीर की तीना सत्तायें भीचक्की रह कर यह कर गई।

राजस्थान सेवा सभ के मन्त्री श्री रामनारायण चौधरी का इस सफलता से होने वाली जन जागति और आत्म विश्वास का स्यायी उपयोग करन के लिए रचनात्मक कायश्रमा के संचालन के हेतु में बिजोलिया में ही रखवा गया। आपकी धमपत्नी श्रीमती अजना देवी भी बिजोलिया के हर आन्दोलन में आपके साथ थी वे शुरु से ही मेवाड और बून्दी के जगना और पहाडा में भी चौधरी जी के साथ साथ स्त्रिया में प्रचार का काय करती रहीं थी। आप मेवाड के जहाजपुर जिल में गिरफ्तार हुई और बून्दी राज्य से कई साल तक निवासित रहीं। राजस्थान में और देशी राज्यों में श्रीमती अजनादेवी पहिली स्त्री है जो रियामती आन्दोलन के प्रसंग में गिरफ्तार हुई। खादी धारन की ओर गहना को तिराजनी देकर राज नीतिक जागरण के काम में अपन जीवन को लगाया।

बिजोलिया सत्याग्रह की सफलता से प्रभावित होकर बून्दी के बडे इलाके के किसानों ने भी कष्टों के विरुद्ध अहिंसात्मक विचार छेद दिया था। यह सत्याग्रह भी सागरनगान बगार और अत्याचारा के खिलाफ था। दमन की हद हान पर राजस्थान सेवा सभ के मन्त्री श्री रामनारायण जी चौधरी जांच के लिए पढ़े। राज्य के पुडुलवार सेना ने सत्याग्रही स्त्रिया पर घाटा दीडा कर और भाले चना कर पासविक हमले किये थे। बिमो की आख बिमो का हाथ और बिमो के मर पाड दिये गये थे। अपराध यह था कि इहाने अपन सत्याग्रही पुण्य के साथ सागरनगान और नगान की ज्यान्तिया का विराध किया था। श्री चौधरी जी की जाच रिपाट प्रकाशित हुई। वा बरड की सत्याग्रही जनता की शुभ शिक्षापत्ते बूर की गई किन्तु चौधरी जी आदि के राज्य में आगमन पर पायन्ती लगादी गड।

Agrarian Movement in Madhya Pradesh

The matter placed below is about agrarian conditions and movements in some of the states of central India such as Rajgarh Jaora Gwalior and Sitamau In our volume ons we have also published records about the same topic under same heading

(1)

About the lethargic state administration in Rajgarh state

राजगढ़ (सी० आई०)

राजगढ़ रियासत से राजस्थान केसरी के पाठक गण भर्नी भाति परिचित है अथ रियासती के समान इस रियासत में भी कई प्रकार के अत्याचार तथा कुप्रथा प्रचलित है। परंतु शोक इस बात का है कि यद्यपि श्रीमान राजा साहिब बहादुर स्वयं एक विचारशील धर्मप्रिय और सुशिक्षित नरेश हैं और यद्यपि वह स्वयं प्रति दिन तीन चार घण्टे कचहरी में बैठ कर राज्यकाय करते हैं। तो भी राज्य प्रबंध में कोई उन्नति दृष्टिगोचर नहीं होती। सत्य तो यह है कि जबम श्रीवान विशेषकर नाथ अपना पण त्याग करके वृद्धावस्था के कारण रियासत में जन मये राज्य प्रबंध में प्रतिदिन शिथिलता आती जाती है। पिछले चार वर्ष से किमा उच्च कमवारी ने रियासत का दौरा तक नहीं किया।

व्यक्तिगत रूप से हम श्रीवान साहिब को बड़ी इज्जत करते हैं परंतु हम यह बड़े बिना नहीं रह सकते कि अब उनमें इतनी सुस्ती आ गई है कि राज्य काय तथा प्रजा के हित में हानि हो रही है। जिस महकमे तथा कमवारी को देखा शिथिल तथा निर्जीव प्रतीत होता है। मुकदम वर्षों चला करते हैं। कागजात का महीना उत्तर नहीं मिलता।

इस रियासत में भी अथ रियासती की भांति ऐसे लोगों का आदरसत्कार है जो अधिकतर शुकामद करते हैं। यही कारण है कि कई एक व्यक्ति जिनका अथ स्थान में पंद्रह बीस रुपये मासिक वेतन न मिले यहां मोगी भाटी ताड़वाह पात और चने चरने हैं।

दीवान साहब का अपनी शिथिलता के कारण स्थानीय स्कूल तथा अस्पताल आदि के निरीक्षण के लिये भी अवसर नहीं मिलता। स्कूल तथा दवाखाने का प्रबंध बिल्कुल खराब है। श्रीमान राजा साहिब बहादुर का स्वयं स्कूल और अस्पताल के प्रबंध की जांच करनी चाहिये। आशा है कि महाराजा उन कार्यों को कराने में शीघ्र हाथ लग जायेंगे जिनसे प्रजा के हित हो।

राजगढ़ राज्य प्रेमी

(2)

High handedness of the state authorities against social reformers in the Jaora state

जावरा

यहाँ की तमाम शराब पीने वाली जातियाँ न शराब पीना छोड़ दिया है। जो शराब पीता है वह जातिच्युत कर दिया जाता है। यदि वह पुनः जाति में आना चाहता है तो पूरा पश्चात्ताप व प्रायश्चित्त के बाद लिया जाता है। प्रजा की इस प्रकार आत्मशुद्धि के शुभारम्भ का राज्यकर्ता सशक्त दृष्टि से देखते हैं और जागृता का इस दुर्व्यसन की आरंभ प्रवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं। 30 मार्च का नवाब साहिब के भाई साहबजाद शेख अली खान मदिरानिपेक्षक व्यक्तियों का व कुछ चमारों को बुला कर बहुत फटकारा और चमारों से शराब पीने का अनुरोध किया।

आपने हिन्दु मुसलमान द्वारा स्थापित अजुमन जियारत नामक स्वयंशी वस्त्र एवं चरखा प्रचारक संस्था को भी हूकम से बन्द कर दिया आपने मौलाना शक़रत अली मुहम्मद अली व हकीम अजमल खाँ साहिब को भी बहुत कुछ बुरा भना कहा। क्या इन दुर्व्यसनों में राज्यकर्ताओं का कुछ भी लाभ सम्भव है।

सम्भावना—

(3)

Taxes were levied on Peasants in Sitamau

सीतामऊ (भासवा)

संग्रह।

हमारे परिवार सम्बन्धित अथवा जिनके हिस्से में फारसी के बड़े किसान हैं। परन्तु न मानुष बंध अथवा छुटे अधिकारियों की आरंभ ध्यान नहीं देने। तहमीनपर

लालमिह लवल'खा व धानदार नाथलाल अगर ने रियासा पर कई टेक्स लगा दिय है। इही लागे के कारण श्रीयुत मणवन्तराव ठोम्बरे जस यान्य दीवान को भी यह रियासत छाड जाना पडा है। किसान तग हान है दश सेर अफीम क मुद ता 80 रु जेते है और किसानो को 60 रु ही देत है। इसके अलावा 2 रु बोधा पुव पर (लेते है) और भी कई बात है जो स्पष्ट नही कह सकता हू।

एक दु खी कृपक

(4)

**This is an open letter to the ruler of Sitamau about injustice
inequity towards Peasants and other masses**

सोतामऊ के महाराज के नाम खती चिठठी

श्रीमान महाराज साहब । श्रीतामऊ राज्य म प्रजा नानाप्रकार के कष्टा स पीडित है उमम भी किसानो को तो सब स अधिक कष्ट है जिन किसानो के द्रव्य स महाराज न कुवर साहन क विवाह म लाखा रुपय खच किय नय 2 महल निर्माण कराय बीकानेर नरेश तथा देवास के महाराज के स्वागत म महस्त्रो रुपया व्यय किया महस्त्र रुपया आशिषबाजी म फू क दिया और बिजली लगाने म खूब धन व्यय किया उही किसानो को कष्ट सहने पड रहे है लगान म एक अघी अधिक बसूल की जाती है। हाई स्कूल का भार भी किसानो के मिर पर है। यद्यपि इस स्कूल म राजकुमार और अहलकारा के लडके ही पठते है। लडुणा म किसानो का तानाब टकम मकान टकम और हन पीछे 311 (ए साठ तीन रु) अतिरिक्त और देना पडता है पिछले बप किसानो स फीधर एन मन गल्ला बसूल किया गया। दूसरे साल इसी गल्ल का हम सवाये पर टकर बनाया गया। गत महायुद्ध मे बटिश सरकार ने जा कज राजा-महाराजा ने प्रजा स फी टिकिट 711) साठ सात) रुपये हिसाब स बसूल किया था परंतु लडाई समाप्त होते ही बटिश सरकार ने मय सूद क सब रुपय लौटा लिया। परंतु महाराज आपन तो उस खजाने म रखकर बक बायम कर दिया जिसम किसानो का सूदकदर सूद पर रुपया दिया जाता है। इस प्रकार यहां के कृपक-बग का महान दु ख का सामना करना पड रहा है। हमारी श्री महाराज म प्राथना है कि व हमारे कष्टा की ओर ध्यान देने की कृपा की कृपा करें।

विनीत सरदारसिंह
सातामऊ स्टेट निवासी

(नोट-हम उपरोक्त चिट्ठी की ओर सीतामऊ के महाराजा का ध्यान आकर्षित करते हैं। महाराजा साहब बड़े शिक्षित और उदार चित्त हैं। उनके समय में कृषक वगैरे का इस तरह पीड़ित रहना आश्चर्य की सी बात है। आशा है महाराजा साहब अपने राज्य की पीड़ित जनता के कष्ट दूर करने में कोई बात उठा न रखेंगे।

(सम्पादक)

(5)

Javad (Gwalior) Clerk of Panch Board harrassed the people

जावद (ग्वालियर)

महाराज ।

यहाँ के पंचबोर्ड का क्लर्क लोगो को बहुत तकलीफ देता है। पहिले अर्जी दावे के साथ जो खाते की नकले लोग पेश करते थे उन का मिलान असल के साथ करते समय यह लोगो को बहुत ठगा करता था। मेम्बरो के ध्यान में यह बात आते ही उन्होने यह काम अपने हाथ में ले लिया। इस से लोग इस आपत से ता बच गये। किन्तु अब यह हुक्मनाम की तामील भी बक्त पर नहीं करता। इस की शिकायतों हर समय मेम्बरा से हुआ करती है हाल में ही शोभालाल भमेरिया महाजन ने ऐसी शिकायत की है। मेम्बर लोग प्रजा के विश्वस्त बन कर उससे पूछें तो इस क्लर्क की कारगुजारी सब सामने आ जावे। लोगो के दावे हुए चार 2 पाच 2 मास बीत गय परन्तु अभी तक उस की पहिली पेशी भी मु करर नहीं हुई।

(6)

Political Agent of Neemuch Cantt went to Athana Tanks of

Javad pargana of Gwalior State on lion hunting excursion

The Begar was exacted and some items were taken

free of cost

समाचार पत्रों के पाठकों ने अठाना टाका परगाना जावद ग्वालियर राज्य की बरतूनों की कथा खूब पढ़ा है। परन्तु यहाँ दिन पर दिन अत्याचार बढ़त ही जात है।

श्रीमान पोलिटिकल एजेंट साहिब छाबीनी नीमच्छ ता 22 2 21 स ता 26 2 21 तक शेर की शिकार करने पधार। आपके इन्तजाम मे जमादार बहादुर खा तो मुन्तजिम या ही लेकिन टाकेगर साहिब भी मौजा सरोता म मुकीम रहे। शेर के लिये मौजा सरोता स 5 व मौजा आटा से एक व मौजा बुद्धिसिंहपुरा से 1 जुमल सात नस पकडे गये जिसम स दाम केवल 1 भसे बुद्धिसिंहपुरा के ही दिया और मौजा 1 आटा 2 सरोदा 3 जेनपुरा 4 करनपुर 5 रूपपुरा 6 चडेल 7 मोदीखडा 8 बडाणी म स फी घर ५०-५० पूले घास लिया गया व तमाम लोगो को बेगार म शर को निकालने का हाका दिलाने को धरा गया। लोगो की अपी मक नूणी चीरणी पडी रही। फमल सूअरादि खा गय। दूध व दही बिना तोल बिना कीमत ले लिया गया। विशनापतेन भरावीर भज्जा बमलिया गोकुन नायमा की बेइज्जती भी की गई नोला भील बडरा ना नूरखा ने खूब पीटा। नारायण बमानिया धाकड सरोता वाला सफ्त बामार या लेकिन उसके भाई वान का बेगार में धेर ही लिया। नारायण मर भी गया लेकिन बालू को अपन भाई नारायणन को जलाने तक को नही आने दिया। मामनपुरा व ममन का बाजा बजाने को पकडा गया। यह लोग बाजा बजा कर शर के निकाने के प्रयत्नी रहे है। दस सब के बदल म कबल 10 रु भीला को मिले है। लोगो को खयाल है कि एजेट साहिब ता सब दाम द गये खकिन जमादार बहादुर खा ने अपने पास रख लिय है। इम शिकार म बहादुर खा न पालिटिकल एजेट साहिब व दौर बहाने खुब जुलम किया। परन्तु एजेट साहब ने ता शायद अपनी शुशजूदी का सार्टी पिन्ट दे दिया हागा क्या श्रीमान पोलिटिकल एजेट साहिब से आशा करें कि वे हमरी जाच करवान की कृपा करेगें कि उनके शिकार खलन म किस 2 की शिकार हुई रिनु साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपन जान खा जमादार स यह काम न ल क्या कि यह लोगो को पीटते वक्त यह कहते जाता था कि बहादुर खा की और शिकायत करा इस दौरे म बहादुर खा ने सरोदा ग्राम के माता जी के अमरिय भस को भी मना करने पर भी पकड कर शेर को खिला दिया। जो जमादार बहादुर खा देवताआ स भी नही चूकता वह भना मनुष्या को क्या गिने? श्रीमान पोलिटिकल एजेट साहब स पुन प्रार्थना है कि इस ओर लग देवे और हम सूचना इन पत्र म हा दी जाय तो बडी कृपा हो कि हमारी इस प्राथना पर उहाने क्या किया ?

शुभचिंतक

(7)

Bijolia peasants requested Gwalior Durbar for the permission of taking their grains to Bijolia

बिजालियर दरबार से प्रार्थना

महामाय ।

बिजालिया ठिकान के व हमार आपसी झगडा होने से हमन श्रीमान क राज्य म मन्सौर जिल के सोगोली उप परगना अन्तगत फूसरिया थडोदे धनगाव व गहनानलाई आदि गावा म निर्वाह के लिये खेती की । इन गावा की बजर जमीन को बडे परिश्रम स तय्यार कर के हमने नाज पदा किया । राज कर लगान चुकाने क बाद जब हम अपना नाज अपने घर बिजालिया लाने लगे तो कस्टम विभाग के अधिकारिया न यह कह कर हमारा नाज राक दिया कि रियासत गर मे नाज ले जान की मनाही है । इस हुकम के मुनते ही हमारे होश उड गय । हमने बडो दीनता स प्रार्थनाये भेजी परन्तु वही निष्ठुर उत्तर फिर मिला । इसलिय श्रीमान की मवा म प्रार्थना करन के अतिरिक्त हम लोग के पास अपनी कमाई को प्राप्त करन के लिए कोई बल नहीं है । हम लाग इस समय अत्यन्त सकट मे है । अत एव बडे विनीत भाव से निबन्धन करते है कि दया करे ईा गावा से अपना नाज बिजालिया पट्ट म ल जाने की आज्ञा तुरत प्रदान करे । हम भूखा मरत है ।

निशानी बालू बल्द तुलसीराम नि० ठका बल्द भारमल २० नाला का
निशानी बानूबल्द बरदा नि तोला बल्द जयचद द०वाला का ।

British Bharat

(1)

Gandhi considered an incarnation in Gorakhpur (U P)

गोरखपुर-दो पीपल के दरख्त दो डेढ़ बर से उग्रहे हुए गिरे पड़ थ । वहा पर कुछ सड़ना ने खेजते हुए कहा कि यदि महात्मा गांधी श्रीवरावतार है तो एक दरख्त हरा हा जाय यह कहने ही एक दरख्त छडा हो गया यह खबर फलत ही हजारों लाग इक्टै हो गये उन्हाने वहा पहुच कर कहा कि यदि यह बात सच है तो दूसरा ठूठ भी हरा हा जाय । लोगो के यह कहते ही दूसरा दरख्त भी छडा हा गया । तब से नित्य बहुत स लोग इन दरखता की पूजा करन आते हैं ।

(2)

one Jethmal Rathi was declared elected to Panchayat Court inspite of his defeat at Fulgaon

पुलगाव-6 अप्रैल को जब पंचायती कोट के निये मेम्बर चुन जाने लगे तो जेठमल राठी का नाम आत ही लोगो ने उमका बोट नही दिय तो भी उसका नाम मम्बरा मे लिख लिया गया । आशा है पंचायती कोट के सचानक जेठमल राठी के नाम का हटा कर जनता को सतुष्ट करेगें ता 22 का यहा की मिन के मजदूरा ने 10 घण्टा काम करने से मजदूरी बगाई जाने के लिय ह्न्ताल कर दी ।

पुलगाववासी

(3)

Congress organisation at khamgaon, Demand of Savarkar Bandhus release, Appeal to donate in Tilak swayrajya fund

खामगाव (बंगाल) ता 19 अप्रैल को सावजनिक सभा हाकर राष्ट्र सभा का नूतन ध्येय स्वीकार किया गया । तालूका कमेटी की स्थापना हुई जिला व प्रान्तिव कांग्रेस कमेटी के निये मेम्बर चुने गये । सावरकार बंधु को रिहा न करन की सरकारी नीति का विरोध किया गया । तिनक स्वराज्य कोष व स्मर्ना फन् के निय चन्दा देने की अपील की गई ।

पत्रागाल

(4)

A letter — England's news

हमारी इ गलेण्ड की चिट्ठी (एस बहादुर विद्यालंकार)

विदेशी कपड़े पर बड़ी ड्यूटी (टैट्जर) ने यहाँ के लोगो में खलबली पैदा करती है। गालिया बाजारा और सड़को पर सभाये करके लोकमत मग्रह किया जा रहा है। एक व्याख्यान हमने भी सुना।

व्याख्याता कह रहे थे कि देश कृषि प्रधान देश नहीं है। हमारा जीवन निर्वाह हमारे व्यापार से ही हाता है और हमारे व्यापार का मुख्य आधार कपड़े के व्यवसाय से है—यही व्यवसाय हमारे जीवन का आधार है और यह कपड़े का व्यवसाय भारतीय व्यापार पर निर्भर है क्या कि भारत ही हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है हम लगभग दस तिहाई मात्र भारत का भेजते हैं यदि हमारा भारत का बाजार हमारे हाथ से निम्न जायेगा तो हम किसी अन्य रीति से माल को नहीं बेच सकते' और अपने भाषण में भारत वासियों के ऊपर भी अगाध दया का पुकारा करते जाते थे आप का कथन था कि भारत वासी इतने घनाडय नहीं है कि हमारे माल को जब कि उस पर ग्यारह प्रतिशत तक कर बढ़ जावेगा तब भी खरीद सकें हम जहाँ अपनी भलाई के लिये इस अयाय पूण कर को हठा देना चाहते हैं वहाँ भारत के अनेक गरीब मजदूरा की दशा को भी हम विचारते हैं और उन पर आन वाली अपत्तिया से बचाना चाहते हैं' क्या दुधारी तलवार है किसी मीठी छुरी का घात है? व्याख्याता महोदय ने आग कहा हम यह कहने में मन्टेह नहीं कि यह कर जो हमारे व्यापार पर बढ़ाया गया है यह भारत के लाकमत के अनुसार नहीं बढ़ाया गया क्योंकि हम निश्चय हैं कि भारत के निधन इसके बढ़ाव से कभी सहमत नहीं हो सकते यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह कर भारत के कपड़े के व्यापार की रक्षा के लिये बढ़ाया गया है क्योंकि भारत के कपड़े का व्यापार बबाद बस्त हा चुका है उसे किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं एक अखबार एक स्वर से विरोध कर रहे है आज इ गलेण्ड के वारह लाख आदमी बेकार है तमाम दुनिया में शोर है कि इ गलेण्ड भूखा मर रहा है यदि उनकी दशा को यहाँ आने देखें तो प्रतीत होगा कि इनके भूमे मरने और हमारे भूख मरने में कितना अन्तर है।

इन लोगो की शक्ति इस समय चूँकि बढी हुई है यही हमारे लिये अवसर है कि हम अपनी शक्तियों को केन्द्रीभूत करें व्यापार और शिल्प को उन्नत करें अब तक दूसरा के आगे झुके रहेगे यह अवसर भारत के लिये अनमोल अवसर है इस का पूरा लाभ उठाना चाहिये अब भारतीय लोग अब भी इसी चरण पर रहेगे ?

Indian Peasant/Labour Conditions And Some British Elites

These are some letters written to and from B S Pathik by and to the British Elites throw the light on British elites interest in Indian affairs. The role of Miss A Hodson in B S Pathik's endeavours is also highlighted. The League Against Imperialism was also actively engaged in Indian matters.

(1)

B S Pathik to Purcell

Dear Purcell

Ajmer 1st June 1928

I am very glad to receive your letter of the 10th May engaged in constant touring I regret I could not send you the material promised in my last letter. However I am enclosing herewith copies of some documents on the burning topics of the Indian States. These will indicate which way the wind is blowing. I think this is the time when we require the fullest cooperation of friends like yourself defending the peoples interest from the insidious moves and propaganda started by our despotic princes in England. This to my mind can be effectively done by interpellations in the parliament, publicity in the British press and public meetings in England to ventilate the grievances and support the cause of the people of Indian states who are labouring under the double bondage of the alien bureaucrat and the indigenous autocrat. The necessary material shall of course be regularly supplied by us. What do you think are the chances of its success and utility if a deputation on behalf of the people of Indian States visits England in the next few months.

Your report on the conditions of Indian labour as published by Reuter is very widely and favourably commented in the Indian

press But it contains no reference to the question of the Indian states or to the material handed by me to you bearing on that questions I fear Reuter has deliberately avoided such references in its summary If that is so it is imperative that you should insist on full publicity being given by Reuter to your report regarding the Indian states The sooner you send to me a copy of your report the better

I handed some material to Mr C F Andrews who promised to arrange propaganda on its base at the labour convention at Geneva As he is shortly going over to England and will I trust see you too will you please enquire if he has made the arrangements referred to In my opinion every effort made in any direction at this juncture will have its effect I think you very much on behalf of the people for the repetition of your assurance for full support of the British working class in the cause of the Indian state people But I still believe as I told you that a permanent settlement of our people lot is possible only if an official commission appointed by T M C at the I F TUC investigating into the conditions prevailing in the Indian States where no amount of material sent by us can quitey discussed So long as the idea of such an exclusive commission can not be materialised the representatives of the British working class organisation and labour M P s visiting India from time to time should be authorised atleast to Included the workers and peasants of the Indian states along with these of British India as an item of their progress of investigation

With remeberances of our short yet sweet acquaintance and working to hear soon from you

Yours sincerely
B S Pathik
President
Rajasthan Sewasangh
Ajmer

(2)

B S Pathik to Kelley

Dear Brother

9 7 28

Many thanks for your kind letter of the 10th June which I could not reply earlier than this being little in disposed I fear the letter was originally meant for my friend No doubt it is imperative that we should come closed know each other better and help in each others activities which are some day bound to inter use Our sister Hodson really an inspiring soul I wish I had the proper words to describe the inspiration I receive from her In fact it is only at her convincing suggestion that I have taken up the task of writing the book referred by you inspite of regular fever I have completed it and hope that it will be out before the end of this month Of course having done every thing in haste it has cost a little heavily yet I think the price will not exceed 2/5d

I am really very glad to learn that you are taking so much interest in our affairs though I am sure Mr Thompson can tell you very little or almost nothing about the conditions in the native states You will know it from my book and then see how much do our people deserve the attention of the awakned huminity Yes Mr Spratt and Mr Bradley are working among the seacost labourers But India is too vast a country I wish that infuture all the labour Mps and delgates visiting this country are called upon to make it a point to visit also Indian states and see the conditions of the labourers and peasants there with thair own eyes Also some friends can organise an Indian states Information Bureau to supply the true and authenticate news and version about them to English Press But the question is whether it is possible However let us content by doing what is in our power and hoping that to reform the self the nature will do its work it self

In the end you will excuse me for making so many suggestions in the very first letter and also expecting that you will be already busy in preparing ground for the book which is now on the anvit

What are our princes doing there and how are their demands being received by the press ?

With kindest thoughts and my love to you and your friend
Presently yours
B S Pathik

(3)

B S Pathik to Fenner Brockway

Rajasthan Sandesh Office Ajmer
Camp Kushalgarh
24th January 1929

My dear brother

By this time you must have received the copy of my book **What are Indian States** through Miss Annie Hodson of Grantham. And from that book you must have understood in what miserable and helpless conditions the people of Indian States are forced to live and therefore now great and grave responsibility is thrown upon the representatives of the British workers and peasants to in the parliament to protect their rights and secure for them their due freedom by making it obligatory for the Indian princes to establish responsible and representative government in their respective states.

May I hope that as a comrades and one interested in the problem you will help us in the matter by creating public opinion in our favour and by exposing the real conditions of our people through **New leader**.

Thanking you in anticipation and expecting a responsible reply soon

Fenner Brockway
Editor **New Leader**
14th Great George street
London

Yours
B S Pathik

Similar letter was written by Rev William Montegommery Brown
Ohio

(4)

A Fenner Brockway Editor The New leader
England wrote to Pathik on 12 2 1929

I am delighted to know that the people of Indian States are beginning to assert their right for political and economic freedom. The relationship between these states and the rest of India and British ought not to be a subject for discussion merely between the princes and the representatives of the British Government. The voice of the people ought to be heard. Your struggle will be difficult but it will be watched with sympathy and goodwill by the organised workers of Britain. National Council of Labour Colleges London

(Bishop William Montgomery Brownella Cottage Gabion
Ohio 1 3 29 sending 3 radical books Aug 21 1929 April 1
1930 replied by Pathik an 8-4-31)

(5)

Ernest Bairstow to B S Pathik

Llano
Guildford Road
Farnham Surrey
6th April 1929

My dear Comrade

I thank you most sincerely for your letter of Feb 20th. You will be interested in the review of your book which appeared in the Workers monthly. I trust it will be possible to awaken the interest and concern of the people here in the terrible wrongs existing in your country. You will of course appreciate that it is not an easy thing to get people here vitally interested in the affairs of another country thousands of miles away and people of another race. It is deplorable that this should be so because the welfare of one nation is bound up in the welfare of another. The people here however like the people elsewhere have their own immediate problems and difficulties and these are their chief concern. What

I as one unimportant individual among millions longly composed of indifferent people can do I will do but you will understand how comparatively little the ordinary individual incapable of doing

I shall be pleased to send you papers also to write you occasionally

Is your paper *Rajasthan Sandesh* printed in English If so I should be pleased if you would send me copies

I have pleasure in sending you a message for your paper
Ernest Bairstow

(6)

Ernest Bairstow to B S Pathik

22nd September 1929

My dear comrade

I am extremely sorry not to have replied to your two kind letters of April 29th and May 15th I have been very busy It was a great pleasure to hear from you

It is with regret that I have been unable to write more for your paper but there are so many things to do that it seems impossible to fit them all in I will however write more for you as and when I can find the necessary time *Mean-while you can be* assured that I greatly sympathise with and wish you well in all your endeavours

You will have been receiving copies of *the workers monthly* and also copies of an issue containing a letter from you The monthly has been devoting quite a fair amount of space to Indian matters and I am sorry that the labour papers generally do not devote more space to what is an urgent and most important subjects

Our mutual comrade Miss Hodson continuous to work hard for your cause and is very persistent in spite of great difficulties

(7)

Indian Youth in 1930

The year 1930 will be an important year in the history of India. Great decisions will have to be made—inside and outside India—affecting the country and its people and in far-reaching manner.

Indians will desire to know that the labour Government of England has to say on the subject of Independence for India. I as an Englishman hope the Government will freely and gladly extend to the Indian people that which is their right—the opportunity of an uninfluenced decision regarding the future Government and Central set up of their own country.

But if the British Government dominated by the motives of imperialism does not concede that which the people rightfully claim what shall India's attitude be?

India will claim the right to demand and to struggle for self Government. And there are people all over the world who will wish them well in their struggle. But the brunt of the battle will have to be borne by the people of India themselves. Above all the issue rests with the youth of India. They are the future. It will be their glory to strive yea and to suffer for their legitimate rights.

Youth will need courage, steadfastness, unflinching devotion. With it all there will be a need of tolerance and charity and understanding in order to reduce to a minimum internal dissensions.

Youth will have to remember that no purely political ends can serve or save their country. Economic and social justice will be as important as political justice. Equality among all men and all women will have to be accepted as a basic principle. The principle of cooperation for common purposes and common ends will be needed to solve the problem that will face the people.

Good luck to the youth of India may they contribute a great deal to the creating of a great nation who will very soon be free to take its place in a commonwealth of Nations each striving to serve rather than dominate each concerned to provide for all its people equally and cooperatively the needs and comforts of life and the opportunity for the growth of a man ally morally and physically with world s people

Ernest Barstow

20 10 29

(8)

Wilfred Wellock to B S Pathik

26th July 1930

Dear Mr Pathik

I received your letter the otherday and am sorry to learn that you are in prison Of course I am not surprised considering all that is happening in your country I dare say many [of you may be tempted to think that those of us here who are interested in India have not been strikingly active But you must not make that mistake It is easy to make scenes but in this country things of that sort do not have much effect The Indian question has never been out of my mind and all the time I am working on it I see Mr Benn constantly The Government is all right in its intention but it is afraid of a general election upon the Indian question The real trouble is with Lyod George If we were sure of reasonable liberal support the Indian question could be settled very quickly However we have to face the facts Regarding the Indian states question that matter has for the time being sunk into the background as the primary question at present is to secure that the Round table conference does meet and includes not only the liberals but the congress party otherwise it is useless to have such a conference

As regards the Indian states I do not think they will come very much into the picture at the Round table conference That problem will have to be faced later The struggle for emancipation

within the states will have to take place after Home rule has been secured It is very difficult for us to get a true picture of events in India today as our reports are most inadequate However we are trying to follow events as well as we can and to persuade the government to take such steps as those of us who are familiar with the Indian question known to be necessary

I hope that your incarceration will not be long duration It certainly surprises me to find that along with rigorous imprisonment you can send out type written letters Have you this privilege ? I certainly had one such privilege when I was in similar position during the war

you can depend upon my utmost support in the struggle that is taking place

Yours Sincerely
Wilfred Wellock M P

(9)

Ernest Baristow to B S Pathik

All progressive Englishmen who have given any consideration to the condition of the people of the Indian states can not fail to be keenly interested in the good work you and your comrades are doing in the great cause of human freedom and emancipation I for one read with considerable interest your book entitled *What are the Indian states* It is a most illuminating work and desires the widest possible circulation No Englishman no Britisher worthy of the name can be untouched by a perusal of this startling description of the conditions under which so many million of our fellow human beings live No race of people can afford to overlook the conditions of another race whatever our language or colour We are all human beings and the welfare of one group depends upon the well beings of another We wish you the greatest possible success in your struggle for social and economic justice We know the struggle will be hard but the cause is great and worthy of every sacrifice much as the workers in this country have gained there is still much to be won We have gained

much along political and social lines but the greatest battle of all is yet undecided the battle for economic freedom and justice. In this struggle the welfare of the workers and the peasants of the world are irretrievably interwoven. Victory in one country helps towards victory in another and the stronger the workers become in one sphere the more capable are they helping the workers in another. When we read that our Indian comrades have made a step forward however small we shall rejoice and we know that our Indian friends will that we in Britain make

Ernest Barstow

(10)

B S Pathik to Ernest Barstow

15 5 1934

My dear Comrade

I do not know how to thank you for the beautiful message you have so kindly sent for journal and the noble sentiments you have expressed in your letter of the 6th ultimo

I can well understand your difficulties in getting the people of your country keenly interested in our affairs yet if we are ever to succeed in creating real brotherhood and one big union of humanity they must be trained to take as much interest in the affairs of other fellow beings as they take in those of their own. No doubt the present situation of the peoples mind is deplorable but it is bound to improve and to become a factor in our life not at a very distant date if the earnest devotees of our ideal like yourself stick to their guns persistently. The people of Indian states and workers in their cause like myself do expect much from you and your comrades and that is why every success that meets your efforts howsoever small they may be make them enraptured

So glad to get your assurance of writing for my weekly and for putting my name on your list. I regret that the idea of an Anglo vernacular weekly being disfavoured by many of my friends and also due to some practicable difficulties has been abandoned and I am bringing out only a vernacular but efficient weekly from the

19th instant Though it will be of no use to you yet I will see that you get a copy of it at least to persue its get up by and by I will try to discharge the functions of an English weekly and enlighten our friends abroad on the question of Indian states through a bulletin which I intend to start very shortly

Keeping that I will get a short note from you on the duty of the people of the Indian states at this critical junction of their national life for the second issue of my journal before this letter reached your hands

Ernest Baristow

B S Pathik

Ernest Boirstow died in 1939-40
as evident from letter of the January 1940

(11)

**League Against Imperialism
(British Youth Section)**

Cde A Hodson
36 Peters Hill
Grantham

30 John St
London W C 1

(This letter came to day October 9th is written by A Hodson)

Dear Comrade

Comrade Saklatvala handed your letter requesting information of the above youth section over to me at the London inaugural conference on Saturday last I hope you did not make the journey in vain as we did not see you at the conference or did you get word from Sak previously ?

As one of the main tasks of the British youth Section of the L A I must be to gain close contact with the youth organisations in the colonies I would indeed be very pleased if you could assist us by putting us in touch with Pathik or inform him that an anti imperealist youth section has been commenced in this Country which we hope will prove a real force in the struggle aganist imperialism

Yours Fraternally Michel Gordon Hon Secretary

Srimati Annie Besant And Peoples Movement in the Princely states

We Know that Shrimati Annie Besant took part in India's freedom struggle but it is very little known that she was against the peoples movement in the princely states. These two records placed below transpire this aspect of her career. Besides this is also suggested that the role of foreigners who participated in our freedom struggle should be re-examined cautiously.

(1)

Miss A Hodson to Mrs Annie Besant

Open letter to Mrs Besant through the Manchester Guardian returned unaccepted

Dear Mrs Besant

Knowing that you earnestly desire to bring happiness to India it is with great reluctance that I sound a disconcerting note upon your lecture as reported in the Manchester Guardian this morning (3rd inst)

You state that the Indian Princes Love and care for their people. I respectfully submit that either you are very ignorant of the terrible conditions which prevail in the Indian States under the despotic rule of the princes or those influential members of the State Peoples Conference who presume to speak with knowledge and authority were misinformed us.

May I draw your attention to the words of Shri B S Pathik Vice Chairman of the States peoples Conference

(1) The people of British India what to say of England betray a woeful ignorance about the states and their conditions

- (11) The people of the Indian States are so helpless and muzzled through the repressive laws and barbarous practices already mentioned that they cannot cry even if they are murdered

May I in all respect beg that you will read his book **What are Indian States** and you will never forget what you have read

It can be obtained from Mr Pathik in Ajmer or in England from Hendersons 66 Choring cross Road London Price 1/3rd or 1/6 post free

I beg to remain

Yours faithfully

Annie Hodson

36 St Peters Hall Grantham June 3 1929

(2)

Srīmatī Annie Besant to Miss A Hodson

From

Annie Besant

3 Ennismone gardens

London

June 26 1929

Dear Madam

Dr Besant asks me to say that she has received the book and the papers you sent to us but she regrets that she is too very busy and not to be able to see you at present She asks me to say that she is well acquainted with some of the Indian states but not with all In those she knows the people are well fed as can be seen from their pysical condition the peasents under British rule are strikingly worse in general conditions

Dr Besant desires me to say that she has no wish to enter with any controversy on the subject but she will read the literature you send and should she see cause she will write to you again on this subject

Yours truly

Private Secretary

Rajasthan at the eve of Independence

(undated note)

ब्रिटिश शासकों ने सिक्खा और जाटा में भी पृथक्ता की भावना पैदा की थी यद्यपि साधारण जाट अब भी किसान ही हैं। फिर भी उनके पढ़े लिखे विशेषतः राजनैतिक विचारधारा वाले तबके में प्रायः राजपूता के समान ही जातीय श्रेष्ठता और जातीय पक्षपात की भावना आ गई है। उहान जाटा में अन्य जाति पक्षपात पैदा करने की चेष्टा की और पीछे अवसरवादी लागाने न इस अपना सस्ता नतृत्व कायम रखने का जरिया बना लिया बू कि इस आन्दोलन में धीरे 2 कई राजा रुचि रखने लग अतः यह फासिस्टी भावना प्रबल होती गई इस आन्दोलन से जाटा में स्वशासन या ग्राम स्वराज की योग्यता तो कहीं भी नहीं आई है क्योंकि ऐसा करना उनके नेताओं का ध्येय भी नहीं रहा। उससे उनमें केवल अपनी ही जाति में जानिय पक्षपात एवं अल्प किसान वर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ गया यही कारण है कि जाट समस्या अनेक अंश में किमान समस्या से भिन्न दिखाई देती है और वह स्वयं जाट समाज के लिए दुःखदाई हो पड़ी है। वैसे जसा कि हमने ऊपर कहा है साधारण जाट आज भी किसान हैं और उनकी समस्या किसान समस्या है किन्तु उन्हें नतृत्व प्रायः राजस्थान में गलत मिला है। साथ ही इस स्थिति के बनने में वर्तमान शासकों का भी बड़ा योगदान नहीं है यदि वे किसान का उभरने एवं अपने गांव का नेतृत्व करने का अवसर देने में यही समस्या राष्ट्र की एक शक्ति बन जाती और अवसरवादी नतृत्व स्वयं खत्म हो जाता।

परन्तु सचार्ई यह है कि राजस्थान के नए शासक स्वयं किमानों की शक्ति में भय खाते हैं क्योंकि इन शासकों का हृदय बग विशेष के हाथों में हुआ है यही कारण है कि जहाँ प्रत्येक सीमा के प्रान्तों में प्रान्तिक रक्षा योजना का निर्माण कर ग्रामीणों को अपनी रक्षा में समर्थ बनाया गया है वहाँ राजस्थान में अब तक कुछ नहीं हुआ यही नहीं जयपुर जाधपुर आदि में तो बिना लाइसेंस कोई बड़ा चाकू भी नहीं रख सकता और लाइसेंस भी नहीं मिलते न-मत्स्य में न राजस्थान " और न जयपुर के उत्तरदायीशासन में इस बात की कोई चिन्ता की जा रही है। चार्गी डाका की समस्या बढ़ती जा रही है किन्तु किसानों को निहत्था और असमर्थ ही बना कर रखा जा रहा है।

और तो और अजमेर भरवाड़ा तक में बेहद डिनाई में काम किया जा रहा है। प्रांतिक रक्षादल की योजना आ गई है ता उसका माधना की मजूरी नहीं आये

हैं। ऐसी दशा में क्या आश्चर्य है यदि राजस्थान का किसान यह अनुभव करता है कि यह शासन पहले से भी बुरा है। क्योंकि वह स्वयं तो उनकी रक्षा करने या उन्हें अपनी रक्षा करने योग्य बनाने में असमर्थ रहे हैं। पहले में कुछ जनता की रक्षा की जिम्मेदारी समझने वाला जो उसने और उनका विरोधी बना लिया है।

नवीन शासन के प्रति अविश्वास और अगन्तोप करने का एक और कारण है किसी कारण से सहा राजस्थान में प्रजामण्डला की नीति किसी दूसरी सस्था को न बनाने देने की भी रही है। ज्यों ज्यों इनमें धणिकों का प्रभुत्व बढ़ता गया तथा तथा इस नीति में अधिन कठोरता और अनुचित ह्यकडा का समावेश होता गया गरीब श्रेणियां पर भी यह स्पष्ट छाप पड़ ही गई कि उनके संगठन और उत्थान का अनुचित तरीका से रोक जा रहा है। इधर देश में कांग्रेस का एक दल की ओर साथ ही एक मात्र राष्ट्र की प्रतिनिधि सस्था बनाने का जो उद्योग चला है उसमें इस मनोवृत्ति का और बल मिल गया है।

दूसरी ओर शासन हाथों में आने पर एक ओर नीररिया घघा आदि में मद्रिया का अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भरत का प्रयत्न करना और दूसरी ओर रिश्वतखारी काता बाजार आदि की उपेक्षा करना यदि किसी प्रकार कोई पकडा भी जाय तो मामूली जुर्माना आदि कर छोड़ देना) एक माधारण बात हो गई है।

फल यह हुआ कि शिक्षिता से लगाकर अशिक्षिता तक में असन्तुष्ट का प्रवाह बह निकला है। इस असन्तुष्ट का फायदा उठाने का प्रतिश्रियावादी शक्तियाँ भी प्रयत्न कर रही हैं। इसलिए जनता को कुछ अनात वग जमींदारों की हलचल में साथ देते नजर आते हैं। कभी कभी किसान मजदूर संगठन और समाजवादी पक्ष के लोग गरीब वर्गों को प्रतिश्रियावादी शक्तियों के चंगुल से बाहर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु उन्हें हर तरह या ता हतोत्साह और बर्नाम करने की चेष्टा की जाती है या प्रजामण्डला की तरह अवसरवादी लोग द्वारा उन्हें अपनी मुठली में लेने की।

इस मनोवृत्ति का सबसे ताजा उदाहरण श्री हीरालाल शास्त्री का सबसे ताजा वक्तव्य है इसके अनुसार वे जागीरदारी प्रथा का नाश नहीं करना चाहते प्रत्युत केवल लाग, बेगार छुड़ाना और नवदे लगान बंधवाना चाहते हैं। इतने दिनों में जागीरदारी प्रथा के नाश के नारे लगाने वाले लोगों का इस बाजीरपन का जनता पर क्या प्रभाव हुआ है और होगा यह सठज ही अनुमान किया जा सकता है। वास्तव में वे जनता के जागृत और सुमगटित होने से भी डरते हैं। इसलिए उनके पीछे किसी का भी बल नहीं है।

Index

A

- Abhinna Hari 17 124
Abhyankar 47
Agrarian movement in M P
214 Rajasthan 171
A I C C (Patna) 102
All India States Peoples Con-
ference, 46 amalgamation
of two Conferences 50 52
57 Publicity unit 82
Ajmer 23 26 30 commissio-
ner censors press 134 35
Amrit Bazar Patrika 55
Andrews C F 191 223
Annie Basant 233 34
Annie Hodson 57 227 232 34
Asava Gokul Lal 93 97

B

- Babaji Narsingh Dass 94 173
Bajaj Jamuna Lal 93
Bairstow Ernest 59 226 229
30 dies 232
Bashir Nabi 95
Beawar 24, 30 107 146
Begu 2 24 208
Bhils Victory at Palanpur 135
36
Bhargava Gauri Shankar 110
Motilal 95 Mukat Behari
Lal 39
Bharatpur 121
Bhopal 32
Bijolia 201 210 212 13 the
first peasant movement in
India I agreement of 1929
7 land abandoned by
kisans 10 28 Kisans of
request Gwalior durbar 219

- Bikaner corrupt administra-
tion 130 143 Maharaja of
67 reorganisation of ad-
ministration 143
Bishop William Montegommery
226
Bombay Chronicle 54
Bonded labour in Kota 128
205 in Rajputana 192 193
Bose Subhash Chandra 118
Bradley 224
British Elites and Indian cause
222 230
Brockway Fenner 225
Bundi 22 24 29 34 196
Butler committee 53 61

C

- Canaught Duke of 202
Chamber of Princes 62
Chattopadhyay Kamaladevi 151
Chaudhery Choturam 43
Ramnarain 36
Chudgar P L 68
Churchil 79
Churu 143
Congress kekti 105
Indore 110 Khamgaon 220
Congress and Round Table
Conference disagreement 72
—and states 83
Congress and Harijan Sevak
Sangh 103 105
Congress organization in Raja-
sthan 88 Parliamentary
Board 98 99 memo-
randum on 96 inter-
nal rivalry 93 wither
Delhi 100

D

- Desai Bhula Bhai J 98 99
 Deshraj 43
 Dholpur awakening in, 195
 Didwana 180

E

- Education in Mewar 197
 sacrificed in Jaisalmer 183
 Indore 108
England Tax on textiles 221

F

- Forced Labour in Gwalior
 218 in Kota 202, in Raj
 putana 192 93 in the states
 84
 Forward 55
 Freedom struggle in India
 Rajasthan's role in 206

G

- Gandhi Mohandass Karam
 Chand 78 79 116 —as in
 carnation 220 and war 166
 Gaur Ram Karan 33
 Gupta Shobha Lal 39
 Gordon Michel 232
 Grastias 135
 Gwalior 122 132 217

H

- Harjan Sevak Sangh and Con-
 gress 103 105
 Hindustan Gadar Party 57
 Hosakappa Krishna Rao 61

I

- Idar Bhils 27
 Independence league 86
 Indian Daily Mail 54

- Indian Labour Conditions 222
 Indian States peoples 234
 Indian youth in 19 0 228
 Indore 110 agrarian conditions
 136 37 Social conditions
 13 140
 Irvin lord 69
 Isaac foot 72

J

- Jain Motilal (seth) 123
 Jaipur adoption of Mansingh
 II 141
 Jajodiya Ghosoolal 31 107
 Jamna Sarpanch 4
 Joara 215
 Jaisalmer 181 184
 Jat Kisan's problem 236
 —Panchayat 43
 Jatindass Martyr 110 11
 homage to at Ajmer 112
 Javad 217
 Jhalawar 34 *Legislative coun-
 cil in* 196
 Jodhpur 180 conditions for
 Press 188 students 189
 Joshi Ladurami 43 45

K

- Kabir Pathshala at Churu 143
 Karamveer 127
 Karauli 34 agrarian cond
 tions 194
 Karnatak Conference 61
 Kathiawar Political Conference
 83
 Kelly W T 85 224
 Kekri 105
 Kerala Political Conference 60
 Kota Rajya Prajamandal 123
 state of affairs at—204
 Kothari Manilal 38
 Kumaranand Swami 93, 145
 177

L

- Labour of Britain supports
Indian labour 73
Ladnu 179
Lahore Congress 115
League against imperialism 232
London news papers 73

M

- Madhya Pradesh 61 agrarian
movement in—214
Mahodaya Vajjarath 102
Malwa 127
Malavabandhu 127
Malviya Madanmohan 117
Mansingh of Jodhpura (Sirohi)
66
Marwar Hitkarani Sabha 187
Masuda Rao of 132
Maulana Jafar Ali Khan 119
Mewar 22. Bhils of—22 edu
cation in—197 Govt. ser
vents 195 Prajaramdal 15
Mool Chand 24
Munshi K. M 98

N

- Naik U. R. 50
Nariman K. F 146
Neemuch 217
Nehru Jawaharlal 86 115 129
Motilal 52 55 116 117 120
New leader 226

O

- Oopermal (Bijolia) 3 5

P

- Palanpur 209, Victory of Bhils
135 136
Parsai Raghunath Prasad 127
Patel Vallabhabhai 83

- Pathik B.S. 1, 4 7 19 23 24
25 27, 28 29 30 31 32
33 38 42, 43 43 50 52
54 94 95 97 101 104
111 12 124 129 171, 173
199 201 226 229 232
233 234
- Jankidevi 126

- Police organization 189
Political awakening in Raj
putana 171
Pulzeon Panchayat 270
Purcell 222

Q

- Queen of Jaisalmer 184

R

- Rajgarh 213
Rajputana and central India
Hrs Students Conference
145
Rajputana Madhyabharat
Sabha accounts 108
Rajputana Madhyabharat
Provincial Congress 91 92
Rajputana Political Conferenc
first session 109
Rajasthan at the eve of inde
pendence 216
Rajasthan (Paper) 37
Rajasthan's future shape 80
Rajasthan Sandesh 227
Rajasthan Sevasangh 32 33
47 82
Ramlila 26
Ramkumari Devi w/o Sidhu
Sitaram das 201
Ratan Singh 43-45
Rishidutt 37
Roy M. N 146
Round Table Conference 67
71 119 229
Rulers duties 83

S

- Sadhu Sitaram dass 1 3 17
 Sakatvala 232
 Sapru Tej Bahadur 71
 Savarkar 220
 Scott Leslie scheme of 54 60
 Sethi Arjun Lal 24 171 175
 177 199
 Shahpura 23
 Sharda Chandkaran 109
 Sharma Babu Madanmohan
 123
 Shashtri Hira Lal 236
 Shekhawati 41 — awakens 190
*Begar in—*121
 Shujalpur 33
 Singh Narvada Prasad 61
 Sirohi 209
 Sitamau injustice inequity
 216
 Sojat 180
 Spratt 224
 States and Congress 83
Jodhpur 133
 State People manifesto 67
 Surat Singh 57
 Swami Kumaranand 93 145
 177
 Swarajya 54 55

T

- Tagore Ravindranath 74

- Tarkeshwar 43
 Tejawat Motilal 200
 Terrorism 161
 Thakker A V 48 102
 Thompson 229
 Tilak jayanti in Ajmer 106—
 Swarajya fund 220
 Tonk repression in 184

U

- Upadhyay Haribhau 7 44, 94
 97 173

V

- Vaidya Nandlal 2
Verma Manik Lal 3
 Vyas Jinarayan 44

W

- Wardha 176 123
 Wellock Wilfred 229
 William Rushbrook 62 his plan
 on Indian States 65

Y

- Yorkshire 221

Z

- Zetland Lord 77

